

दो कदम सुर्योदय की ओर

निज स्वरूप की साधना : अध्यात्म में प्रवेश का मार्ग

श्रेयांसनाथ भगवान ने आध्यात्मिकता को उसकी सम्पूर्णता में प्राप्त कर लिया था। ऐसी पूर्णता की प्राप्ति के बाद तीर्थकर देव भव्य आत्माओं के कल्याण के लिए जो देशना देते हैं, उसके आधार पर भव्य आत्माएँ अध्यात्म की दिशा में गतिशील होती हैं। यदि गहराई से विचार करें तो आध्यात्मिकता की ऐसी अवस्था कहीं बाहर से नहीं, हमारे भीतर से ही उपलब्ध होती है। उसे उपलब्धि भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह तो स्वतः उपलब्ध होती है, नये सिरे से प्राप्त नहीं करना पड़ता। वह तो विद्यमान है, भले ही दृष्टि से ओझल हो। उसे दृष्टि में लाना होता है। यही उसे उपलब्ध करना है, प्राप्त करना है। इस संदर्भ में यह याद रखना भी आवश्यक है कि प्राप्त वही होता है जो हमारा है, नया कुछ प्राप्त नहीं होता। इसे यों समझें कि हमारा जो स्वरूप है उस पर आवरण आ गया है अथवा जो हमारा है वह पर्दे की ओट में आ गया है। पर्दा हटा नहीं कि वह हमारे सामने आ जायेगा। आवश्यकता है उस पर्दे को हटाने की। सामान्यतः व्यक्ति को यह बोध ही नहीं होता कि जिसे वह खोज रहा है वह तो स्वयं के पास ही विद्यमान होता है। वह वैसी ही स्थिति होती है जैसी कस्तूरी मृग की होती है। मृग उस कस्तूरी को जो उसकी स्वयं की नाभि में होती है, जंगल के कोन-कोने में ढूँढ़ता फिरता है। ऐसे ही अज्ञान को लक्ष्य कर संत कवि कबीरदासजी ने कहा था-

तेरा सोई तुझ में, ज्यों पुहुपुन में बास।
कस्तूरी का मिरग ज्यों, फिर-फिर ढूँढ़े घास॥।

पर बात उस गंध को, निज-स्वरूप को पहचानने की है। एक उदाहरण लें। एक भिखारी भीख माँग रहा है। उसकी जेब में एक चाबी पड़ी है। खजाना भी मौजूद है, पर वह चाबी अपनी जेब में रखकर भूल गया है। कई लोग भुलकड़ होते हैं, भूल जाते हैं। चाबी उसकी जेब में है, खजाना भी सुरक्षित है, पर चाबी टटोलने की उसे फुर्सत नहीं है। सुबह से शाम तक वह मांगता है और माँगते-माँगते तो कुछ प्राप्त हो जाता है, शाम को फुर्सत मिलने पर उसे तोड़ने में, गिनने में लग जाता है। गणना तो करोड़पति भी करता है, हिसाब-किताब यदि करोड़पति करता है तो गरीब भिखारी भी करता है। मात्रा में अथवा परिमाण में अंतर हो सकता है। एक का परिमाण लाखों-करोड़ों का होगा तो भिखारी का शायद सैकड़ों में। गणित दोनों करते हैं। भिखारी के हाथ निरन्तर बाहर की ओर ही रहते हैं, दिन में माँगने में और शाम को हिसाब-किताब करने में। वैसे ही व्यक्ति जब तक मन को बाहर ही बाहर भटकाता है, तब तक उसे भीतर की खोज की फुर्सत नहीं मिलती। वह नहीं जान पाता कि चाबी कहाँ है, खजाना कहाँ है ? यद्यपि वह पास में ही है, लेकिन उस पर उसकी निगाह नहीं पड़ती क्योंकि उसका ध्यान बाहर की ओर होता है। जब तक हाथ बाहर हैं, अन्दर की वस्तु को टटोला नहीं जा सकता। एक व्यक्ति हिंसा करता है, उसे आप पापी कहते हैं। एक व्यक्ति अपने को अहिंसक मानकर चल रहा है, उसे आप क्या कहेंगे ? आप विचार में पड़े जायेंगे ? यदि वह स्वयं को अहिंसक दर्शा कर चल रहा है, तो भगवान कहते हैं कि वह भी पाप कर रहा है। दर्शना क्या है ? जो स्वभाव है उसका प्रदर्शन क्या करना ? यदि वह अं करता है तो आचारांग स्पष्ट कहता है- एक व्यक्ति हिंसा करता है, झूठ बोलता है और दूसरा अहिंसक होकर अहिंसा का, सत्य का दंभ कर रहा है तो वह स्वयं पाप की श्रेणी में जा रहा है। जो नहीं करना चाहिए, वह कर रहा है। वह तो पतन की ओर जायेगा ही, दंभ करने वाला भी पतन की ओर ही जायेगा। एक व्यक्ति दान कर रहा है तो वह वास्तव में क्या कर रहा है, यह उसकी मानसिकता पर निर्भर करेगा। लोग सोचेंगे कि वह धन से अपनी ममता हटा रहा है, अपरिग्रही बन रहा है। परन्तु अपरिग्रही बनना बहुत कठिन है। एक व्यक्ति कुछ नहीं देता हुआ भी अपरिग्रही है और एक बहुत-सा दान देता हुआ भी अपरिग्रही नहीं है। कारण के लिये द्वय का स्वरूप जानना होगा। किसी भी चीज को जोड़ते हैं तो वह है- परिग्रह, तोड़ते हैं तो वह है- अपरिग्रह। आप विचार करेंगे, दान से उसने छोड़ा है, तोड़ा नहीं है। उसे दान की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता, भले 10-20 हजार रुपये दे दिए।

एक दम्पति महात्मा के पास पहुँचे। थोड़ी देर बैठे। सेवा-उपासना करने के बाद कहने लगे- कोई सेवा-कार्य हो तो बताईये। महात्मा ने कहा- आपकी अच्छी भावना है। बहन ने कहा- महात्मन् ये तो करते ही रहते हैं। अब तक एक लाख का दान कर चुके हैं। पति ने सुधारा- एक लाख दस हजार का दान दिया है। इस प्रकार हम देखें

कि वह दान देकर भी, छोड़कर भी जोड़ रहा है कि कितना दिया। वृत्तियों से कुछ जोड़ता है। ये भाव, ये वृत्तियाँ कि मैंने इतना दिया, इतना दान दिया तो बस समझ लीजिये कि इन वृत्तियों के कारण वह परिग्रही बन गया,

अपरिग्रही

नहीं

रह

पाया।

दान की परिभाषा करते हुए तत्त्वार्थ सूत्रा में कहा गया है- ‘अनुग्रहार्थ स्वस्यातिसर्गो दानं’। स्व का त्याग हो। जिसे त्याग दिया, फिर उस तरफ निगाह नहीं दौड़ानी चाहिये। आपने वमन कर दिया तो क्या उसे बार-बार देखेंगे, सूधेंगे ? उसका पुनः उपयोग करना चाहेंगे ? नहीं, वैसी ही दान की बात है। जो दे दिया, निकाल दिया, उसकी ओर क्या झाँकना, उसका संदर्भ क्यों देना, उसके किसी भी रूप में उपयोग की चाह क्यों रखना ? व्यक्ति जोड़कर रखता है, छोड़ना कठिन है। जोड़ने की क्रिया गरीब भी करता है, धनी भी करता है। मैं भिखारी की बात कह रहा था। साधन थोड़े हैं, हाथ बाहर हैं। एक तो यथार्थ में भिखारी होता है अर्थात् वह जिसके पास बाहर का खजाना नहीं होता है। दूसरा वह, जिसके पास बाहरी खजाना अर्थात् धन सम्पदा बहुत है परन्तु अंदर का खजाना अर्थात् आत्मा का धन दोनों के पास बराबर होता है। जब तक भीतरी खजाने को नहीं पाया, दोनों ही भिखारी हैं। भीतरी खजाना अर्थात् आत्मा के खजाने से तो केवल पर्दा दूर करने की बात होती है। जिसके पास बाहरी खजाना नहीं है, वह हाथ पसारता है। कवि आनन्दघनजी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना भी एक याचना है, पर वह भी उचित नहीं है। जरा सोचें कि वे क्या देंगे जो सिद्ध हो गये हैं ? उनकी चाहे कितनी भी स्तुति करो या निन्दा करो वे न तुष्ट होंगे न रुष्ट, वे सहज अवस्था में ही रहेंगे। चाहे अरिहन्त की भी स्तुति करें, पर वे भी कुछ नहीं दे पायेंगे। वर्तमान में जो साधु हैं, उनकी स्तुति करो तो भी वे क्या दे पायेंगे ? उनके पास धर्म-ध्यान है, पर वे क्या धर्म-ध्यान दे सकते हैं ? वे अपनी सहज प्रवृत्ति से चलते हैं। लेने वाला उनसे प्रेरणा प्राप्त कर धर्म-ध्यान अपने ही प्रयासों से ले सकता है। परन्तु यदि हमारी तैयारी नहीं है तो हम ले पायेंगे क्या ? हमारी आत्मा के द्वार बंद है तो नहीं ले पायेंगे। द्वार खोलेंगे, तैयारी करेंगे तभी प्राप्त कर पाएंगे अन्यथा गंगा सामने बहती रहेगी और हम प्यासे के प्यासे रह जायेंगे। साधु भी देते नहीं हैं। वे पाने का तरीका बताते हैं। वे कहते हैं कि अभिलिष्ट तुम्हारे भीतर ही है। उसे खोलो तो प्राप्त हो सकता है, खोलने का तरीका सीखो। इसकी भी एक तरकीब होती है। आजकल इस प्रकार के ताले भी होते हैं जिन्हें खोलने के लिये नम्बर मिलाने पड़ते हैं। नम्बर मिलेंगे तभी ताला खुल पायेगा। अंक न मिले तो चाहे जितनी देर चाबी घुमाओ, ताला नहीं खुलेगा। खोलने की बात तो बताई जा सकती है परन्तु खोलने का पुरुषार्थ तो स्वयं को करना होता है। वह भिखारी प्रतिदिन भीख मांगता था, मांगना उसका रोज का ही काम था। एक दिन उसने देखा कि उसके पास काफी पैसे इकट्ठे हो गये थे। आँखों की रोशनी तो कम थी, कानों से सुनाई भी कम देता था, पर इसके बावजूद भी हिसाब वह खूब लगा देता था। वह पहचान लेता था कि कौन-सा सिक्का पचास पैसे का है और कौन-सा एक रुपये का है। इस आधार पर वह गणित कर लेता था। उस दिन उसके कदम जल्दी-जल्दी बढ़ रहे थे। प्रसन्नता थी कि आज पैसे ज्यादा हैं, आमदनी ज्यादा हुई है। उसने सोचा कि पहले तो आमदनी में से कुछ बच जाता तो मैं माँ के पास भेजता था, माँ कितनी खुश होती थी। अब माँ नहीं रही फिर भी कुछ बच नहीं पाता। सोचा मैं रोज नमक से रोटी खाता हूँ, मुझे सब्जी भी नसीब नहीं हो पाती, आज इतने पैसे हैं तो अच्छा भोजन करूँगा। रोटी के साथ सब्जी भी बनाऊँगा। अपना गणित लगाता हुआ वह सहसा किराणे की दुकान की ओर बढ़ गया। उसका रोज का अभ्यास था, दिखाई न देने पर भी ठिकाने पर पहुँच गया। उसने ऑर्डर दिया-आटा-दाल दे दो, लेकिन ज्योर्हीं जेब में हाथ डाला पैरों तले से जमीन खिसक गई। जेब कट गई थी। उसे बहुत दुःख हुआ। उसे याद आया- जब वह आ रहा था, मार्ग में किसी ने टक्कर ली थी। टक्कर लगाने वाले ने ही जेब साफ कर दी होगी। पैसा जाने का उसे दुःख हुआ। यह दुःख गरीब हो या अमीर सभी को होता है। दुःख के परिमाण में अंतर हो सकता है। यद्यपि दुःख तो सभी को होता है, चाहे भिखारी हो या धनवान। चाहे अपाहिज-लाचार हो, चाहे स्वयं जेब काटने वाला हो। कुछ लोग सभ्य तरीके से जेब काटने वाले होते हैं। कोई सीधा सरल व्यक्ति यदि दुकान पर आ जाये तो उसके साथ ईमानदारी, अचौर्य, अपरिग्रह सिद्धांत का पालन नहीं होता। उचित कीमत से ज्यादा लेंगे, उसकी हजामत कर डालेंगे। भिखारी के तो जेब कटने पर विचार आया लेकिन जिसकी हजामत की, उसकी क्या स्थिति बनेगी, उसे कितनी पीड़ा होगी। वह आपकी अनुभूति में नहीं आयेगा। पर यदि स्वयं के साथ ऐसा हो जाये तो लम्बे समय तक याद रखेंगे कि उसने मेरे साथ ऐसी वारदात की थी। ऐसी अवस्थाएँ जिस सीमा तक हमारे भीतर निर्मित होती हैं, उतनी ही सीमा तक हम श्रेयांसनाथ भगवान के मार्ग से दूर होते हैं। आध्यात्मिकता के विकास के लिये हम बाहर नहीं आँकें, अपने भीतर टटोलें। वह बाहर उपलब्ध नहीं होगी, वह हमारे भीतर ही मौजूद है। केवल बीच में पड़े पर्दे को हटाना है। पर्दा

हटा तो हमें वह सौंदर्य प्राप्त हो सकता है। हमारी क्रियाएँ जितनी अपने राम में होती हैं, उतनी यदि प्रत्येक में हो जाये तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी समझ अथवा योग्यता सिर्फ किताबों के अध्ययन से ही प्राप्त नहीं होगी। जो किताबों से प्राप्त होती है, वह स्मृति तक रह जाती है। जब तक उस ज्ञान का अनुभव के साथ संयोग नहीं होगा, वह आपका नहीं बन पायेगा। वह परिग्रह रूप रह जायेगा। व्यक्ति उसे परिग्रह नहीं मानता, किन्तु कहा गया है- 'णाणस्स फलं विरई' ज्ञान होने के बाद विरति होनी चाहिए। यदि वह पापाचार में लगा रहा तो वह ज्ञान पतन का कारण होगा।

प्रभु महावीर से प्रश्न किया गया- आत्मा किससे झूबती है, किससे तैरती है? प्रभु ने कहा- 18 पापों से आत्मा झूबती है, 18 पापों के त्याग से आत्मा तैरती है। जब तक पापों से रहित नहीं है, तैरने का अनुभव नहीं होगा, तैरने की अनुभूति नहीं ली तो वह मजा भी नहीं आयेगा। एक व्यक्ति तैर रहा है, एक खड़ा देख रहा है। जब तक वह हाथ-पैर चलाकर नहीं तैरे, तब तक उसे तैरने की अनुभूति नहीं हो सकती। अनुभूति करने के लिए उसे भी छलांग लगानी होगी। जैसे ही कूदकर तैरने की प्रक्रिया से जुड़ेगा उसे आनंदानुभूति होगी। कवि ने प्रार्थना की

कड़ियों में कहा है-

'निज स्वरूप जे किरिया साधे, नेह अध्यात्म कहिये रे।'

अपने स्वरूप को साधने की क्रिया ही अध्यात्म है। यदि निज स्वरूप को नहीं साधा तो संकट आते ही व्यक्ति घबरा जायेगा। साधु जीवन में स्वरूप साधने की क्रिया नहीं की तो वह रीता ही रह जायेगा। अध्यात्म में प्रवेश के लिए निज स्वरूप को साधना होगा तभी अध्यात्म का रूप बनेगा। अतः हम पाँच महाव्रतों की बातें ही नहीं करें बल्कि उन्हें जीवन में उतार भी लें, तब वे हमारी प्रवृत्ति बन पायेंगे, जीवन के अणु-अणु में रम पायेंगे। कपड़े उतारे जा सकते हैं, पर अवयव रस आदि शरीर के साथ रहने वाले हैं, जुड़े हुए हैं। जैसे खून जो हमारी धमनियों में बह रहा होता है, उसमें अनेक तत्त्व मिले होते हैं। यदि कोई बीमारी हो जाये तो रक्त की जाँच की जाती है कि उसमें क्या कमी है या क्या विकार है? रक्त के अनेक तत्त्व परस्पर एकमेक हैं, उन्हें अलग करने में कठिनाई होती है। जैसे खून में ये तत्त्व एकमेक हैं, वैसे ही अहिंसा आदि तत्त्व हमारे जीवन व्यवहार में एकमेक हो जायें ऐसी हमारी प्रवृत्ति बनें। यह नहीं कि कोई देख रहा है तो पालन करें, नहीं देखे तो झूठ बोल दें। उस स्थिति में सदाचार नहीं, मिथ्याचार होगा। कोई देख रहा है तो बीड़ि-सिगरेट नहीं पीयें, पर नहीं देख रहा है तो एक कश ले लें। यह दंभ होगा। प्रभु महावीर की दृष्टि में ऐसी प्रकृति अध्यात्म नहीं है, बल्कि वह पापकर्म में लिप्त रखकर श्रेय मार्ग से दूर करने वाली है। ऐसी स्थिति में स्वरूप को साधने की बात ही दूर रह जायेगी। बातों से हटकर परमात्मा से नैकट्य स्थापित करेंगे तब ही अनुभव प्राप्ति की स्थिति बनेगी। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि व्यक्ति जिसमें लीन होता है उसमें उसे असीम सौंदर्य के दर्शन होते हैं। परमात्मा से निकटता में उसकी छवि को देखने के बाद वह कहेगा- प्रभु आपसे बढ़कर और कोई सौंदर्यशाली नहीं है। यह भवित्व का वास्तविक स्वरूप है।

अपनी नवविवाहिता पत्नी के सौंदर्य पर मुग्ध प्रेमी को अपनी प्रियतमा के शरीर में उत्पन्न फोड़े में भी सौंदर्य ही दिखाई देता है। इस प्रकार मुग्ध हुआ वह प्रेमी कालधर्म को प्राप्त कर उसी फोड़े में कीड़े के रूप में जन्म लेता है। पहले दूसरे देवलोकों के देव पृथ्वी, पानी, वनस्पति, आदि में आसक्त होकर देवलोक से निकलकर पृथ्वी, पानी, वनस्पति में उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार दिव्यलोक की रिद्धि से समृद्ध देवों का आसक्ति के कारण ही एकेन्द्रिय रूपों में पतन होता है। व्यक्ति जिसमें लीन होता है उसी में सारा सौंदर्य दिखाई देता है। आपने भी यदि समकित से सगाई नहीं की तो वहाँ कुंवारापन ही रहेगा। समकित से सगाई कर ली फिर कोई बदलाने की कोशिश करे तो क्या उसे पतिव्रता कहेंगे? कहते हैं- "त्रिया तेल, हमीर हठ, चढ़े न दूजी बार" स्त्री को तेल एक बार ही चढ़ता है। दूसरी बार विवाह होगा तो तेल नहीं चढ़ेगा, बिना तेल के ही पुनर्विवाह (नाता) होगा। उसी प्रकार जिसने सम्यक्त्व से संबंध स्थापित कर लिया, वह विपरीत अवस्था से नहीं जुड़ेगा। लेकिन आज व्यक्ति समस्याओं में उलझा रहता है। यदि समस्याओं को सुलझाना है, उनके हल ढूँढ़ने हैं तो चिन्ता छोड़कर निरान्त होकर कोशिश करें। खयं को हल्का बनायें तो प्रत्येक समस्या का समाधान ढूँढ़ पायेंगे। आज हमारी समस्या यह है कि हम अहिंसा के सिद्धांत को जान तो रहे हैं, पर उसे व्यवहार में उतार नहीं पा रहे हैं। ये हमारी प्रकृति के साथ कैसे एकमेक बने? इस पर चिन्तन करें। यदि इन सिद्धांतों को शरीर के अवयवों की राह जीवन का अंग बना लें तो जीवन मंगलमन बन जायेगा। जीवन के ऐसे मंगलमय रूप की प्राप्ति हेतु ही तो सम्पूर्ण क्रियाएँ एवं अध्यवसाय होते हैं। अतः सांसारिकता का त्याग कर निज स्वरूप में रमण करते हुए तीर्थकरों

द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर हम चलें और इस जन्म को सफल बनायें।
दि. 20.10.96

शाश्वत सुख का मार्ग : आत्मानुशासन

दुःख की मूलभूत अवस्था अविद्या से आरोपित होती है और अविद्या में ही उसका केन्द्र होता है। अविद्या का व्यापक एवं विराट रूप व्यक्ति देख नहीं पाता तथापि वह सर्वागीण होती है एवं आत्मा के एक देश को ही नहीं, सभी आत्मप्रदेशों को आच्छादित किये रहती है। आगम का भी उद्घोष है- 'सबं सव्वेण बंधई।' आत्मा के प्रत्येक प्रदेश से उसका संबंध होता है। प्रभु महावीर ने कहा है- 'अप्पा कत्ता विकत्ता य' अर्थात् आत्मा ही कर्ता है, भोक्ता है। अविद्या की स्थितियों को दूर करने के लिए उत्क्रान्ति भी आत्मा ही करती है। यदि वह उत्क्रान्ति सफल हो जाये तो आत्मोउत्थान का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। परन्तु यदि सफल होने की स्थिति नहीं बन पाये तो आत्मघाती स्वरूप भी बन सकता है। इस दृष्टि से प्रभु महावीर का प्रदेय अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने उत्क्रान्ति का अत्यंत विशिष्ट रूप उद्घाटित किया और युग को नया संदेश दिया। ऐसा वह युग था, जिसमें यह मानकर चला जा रहा था कि ईश्वर की आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ईश्वर को एक सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया था कि आत्मा ईश्वर नहीं बन सकता, वह सदा परतंत्रा है। ईश्वर की इच्छा के बिना वह कुछ नहीं कर सकता। ऐसे युग में महावीर ने प्रत्येक आत्मा के स्वतंत्रा अस्तित्व का बोध कराने वाला दर्शन प्रतिपादित किया। उन्होंने स्पष्ट किया- आत्मा ही कर्ता-भोक्ता है तथा दुःख या कष्ट ईश्वर-प्रदत्त नहीं होते। ईश्वर के कारण भी कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है उसके तुम स्वयं ही करने वाले होते हो। जैसा कर रहे हो, वैसा भोग भी तुम्हें ही करना है। लगभग 50 वर्ष हुए, एक पाश्चात्य विचारक नीत्यो ने अपने चिन्तन के आधार पर कहा था- ईश्वर मर चुका है, अब ईश्वर इस दुनिया में ही नहीं रहा। नीत्यो के चिंतन का स्वरूप अथवा उद्देश्य कुछ भी रहा हो परन्तु उसमें यह भाव तो अंतर्निहित हैं ही कि आत्मा ही सर्वागीण विकास कर परमात्मा बन जाता है, अलग से ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता। नीत्यो ने जो यह कहा कि ईश्वर मर गया है, सो भी प्रकारान्तर से उसने यह माना ही है कि ईश्वर कभी था, पर आज नहीं है। आज अनाचार के क्रूर ताण्डव को देखकर इस विचार की पुष्टि की जा सकती है कि आज ईश्वर नहीं है। यदि उसकी सत्ता होती तो अत्याचार, अनाचार, हिंसा, अपराध आदि का जो ताण्डव नृत्य हो रहा है, वह नहीं होता। ये स्थितियाँ अनुभव कराती हैं कि ईश्वर यदि कभी था भी तो अब वह मर चुका है। दोनों ही स्थितियों में उसका नियंत्रण हट चुका है। प्रभु ने कहा- ईश्वर नहीं है, नीत्यो ने कहा- मर गया है। इन कथनों से दो भाव उद्घाटित होते हैं- पहला स्वतंत्राता का, दूसरा स्वछंदता का। बात हल्की नहीं है, ध्यान देंगे तो मर्म को पकड़ पायेंगे। भगवान् महावीर ने कहा है- ईश्वर का अस्तित्व नहीं है तो वे आत्मा को स्वतंत्राता की डगर दिखाते हैं कि तू क्यों कुंठित होता है, तू तो स्वयं कर्ता है, फिर भयभीत क्यों है ? किये का फल मिलता है, अतः संभल जा। संभल जायेगा तो भविष्य उज्ज्वल होगा। वर्तमान में संभल गये तो भविष्य की चाबी आपके हाथ में होगी। जरा विचार कीजिये कि यदि स्कूटर सड़क पर खड़ा है और चाबी आपकी जेब में है तो उसकी सुरक्षा के प्रति आप निश्चित रहेंगे, परन्तु चाबी यदि स्कूटर में ही लगी रह जाये और आप यहाँ आकर सामायिक ले लें तो फिर ध्यान बना रहेगा कि चाबी लगी रह गई, परिणामस्वरूप सामायिक में आप एकाग्रचित्त नहीं हो पायेंगे। किसी अन्य व्यक्ति ने अपना स्कूटर भी स्टार्ट किया तो आपके मन में आयेगा कि कर्हीं मेरा स्कूटर तो नहीं ले जा रहा है ? चाबी पास में आ जाये तो संतोष बना रहेगा। इसीलिये प्रभु महावीर ने कहा कि वर्तमान को संभाल लो तो भविष्य की चाबी स्वतः ही हाथ में आ जाएगी। भविष्य की चिन्ता नहीं रहेगी। जैसा चाहोगे वैसा भविष्य निर्मित कर सकोगे। यदि चाबी को स्वयं नहीं संभाला और वह दूसरे के हाथ में पकड़ दी तो फिर वह जैसे चलायेगा वैसे चलना पड़ेगा। यंत्रावत् स्थिति हो जायेगी। पौरुष जागृत नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार प्रकारान्तर से पौरुष की हत्या कर देंगे और स्वयं के प्रति हिंसा करने के अपराधी बन जायेंगे। इसलिये यदि इस हिंसा से बचना है तो पौरुष को जागृत करो, यदि पौरुष जागृत हो गया तो अहिंसा के भाव जागृत हो जायेंगे, अतः पहली आवश्यकता तो यह है कि स्वयं की हिंसा मत करो। यदि प्रमाद में पड़े रहे तो पौरुष जगा नहीं पाओगे। यह स्वयं हिंसा है, अतः पहले स्वयं को उबारने का प्रयत्न करो। तात्पर्य यह है कि प्रदर्शन का नहीं बल्कि यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने का प्रयत्न हो। यहाँ जो स्वतंत्राता का उद्घोष है वह इसलिये है कि यदि क्रांति घटित होगी तो स्वतंत्राता मानकर

पथभ्रष्ट होता रहेगा। स्वतंत्राता उपादेय है, जबकि स्वछंदता त्याज्य है। एक ऊपर उठाने वाली है तो दूसरी नीचे गिराने वाली है। इनका रूप इतना मिलता-जुलता है कि दूर से देखने पर ये समान लगती है, इसीलिये व्यक्ति इन्हें पहचान नहीं पाता।

तनिक कल्पना कीजिये- एक दुकान है, जिसमें दो पुतलियाँ लगी हैं। व्यापारी आते हैं और अन्य दुकानों को देखते हुए एक ग्राहक भी उस दुकान में पहुँच जाता है। वह दोनों पुतलियों को देखता है- रूप-रंग में दोनों सदृश है। वह मुश्ध हो जाता है- ओह ! कितनी सुन्दर कलाकृति है। किन्तु नीचे दृष्टि दौड़ती है तो देखता है कि एक पर लिखा है 'कीमत पाँच रुपये' और दूसरी पर 'पचास हजार रुपये'। ग्राहक सोचने लगता है, ये कैसी बात! यह कैसी बुद्धिमानी है, कीमत में इतना अन्तर क्यों? कहीं दुकानदार से लिखने में भूल तो नहीं हो गई है? ग्राहक पूछता है तो दुकानदार कहता है- भूल नहीं हुई है। उसका कथन सही है। समान मूर्तियाँ, पर मूल्य अलग-अलग, यह बात यथार्थ है। यथार्थ कैसे है? दुकानदार ने प्रमाण-पत्रा प्रस्तुत किया। उसने एक पुतली के कान में एक शलाका डाली तो वह दूसरे कान से बाहर निकल गई। परन्तु जब दूसरी पुतली के कान में डाली तो वह निकली नहीं, बल्कि हृदय में प्रविष्ट हो गई, यही महत्व की बात है। आकार-प्रकार समान है, पर एक हृदय की गहराई तक पहुँचाने वाली है और एक ऊपर से निकालने वाली है। यही बात प्रभु महावीर व नीत्यों के कथनों के संदर्भ में भी है। यद्यपि बाहर से दोनों कथन समान लग रहे हैं। व्यक्ति सहसा समझ नहीं पाता कि स्वतंत्राता और स्वछंदता में क्या अंतर है? स्वछंदता ऊपर-ऊपर तिराने वाली है, जबकि स्वतंत्राता आत्मनिष्ठ है। नीत्यों ने कहा- ईश्वर मर गया है। तब लोग सोच सकते हैं कि चाहे जैसा करो, खाओ-पीओ, मौज-उड़ाओ, कोई रोक-टोक नहीं है।

एक उदाहरण लें। एक पिता की दो संताने हैं। पिता की मृत्यु हो गई। प्रश्न उनके सामने आया कि क्या करें? एक सोचता है कि अब क्या है, इतने दिन बुड़ पर है। आचार-व्यवहार में यदि गलियाँ भी होती थीं तो पिताजी परिमार्जन कर देते थे, अब पिताजी मौजूद नहीं हैं तो मुझे अधिक सावधान रहना होगा। अब मुझ पर कोई कंट्रोल नहीं है, अतः स्वनियंत्राण को जागृत करना होगा। चाबी/लगाम मेरे हाथ में रहे। मेरे पैर गलत राह पर भटके नहीं, बल्कि सही दिशा में गतिशील रहें। सोचें कि सत्ता रूप से क्या ईश्वर ही सबकुछ करा रहा है, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता तो क्या पाप कराने वाला भी ईश्वर है? यह तांडव नृत्य, यह अहं भाव भी ईश्वर कृत है? हम कहेंगे, यह ईश्वर कृत नहीं है। कर्म करने की स्वतंत्राता है तो फिर भोग में स्वतंत्राता क्यों नहीं? वह सृष्टि रचकर समाप्त क्यों करता है। एक अन्य पक्ष ईश्वर को सृष्टिकर्ता स्वीकार नहीं करता, पर वह मानता है कि प्रभु महावीर ने आत्मानुशासन की बात कही है- स्वतंत्रा बनो पर आत्मानुशासन की डोर हाथ में ही रहनी चाहिए। कवि आनंदघनजी ने कहा है- निज स्वरूप जे किरिया साधे.....। जो क्रिया आत्मानुशासनपूर्वक, स्वरूप-ज्ञान से की जायेगी, वह आध्यात्मिक क्रिया, आत्मोत्कर्ष के लिये होगी। यदि किसी अभिभावक अथवा प्रशिक्षक का अंकुश नहीं रहा तो समझो कि खुले मैदान में घोड़ा है, चाहे जितना दौड़ाते रहो। ऐसी अवरथा में बहुत कम व्यक्ति उचित निर्णय कर पाते हैं। सामान्यतः कर्तव्य भाव भूलकर सुख में फूल जाते हैं, दुःख में कुम्हला जाते हैं। परन्तु जैसे बीज बोये हैं, वैसे ही फल मिलेंगे। बबूल बोये हैं तो कांटे ही मिलेंगे। लेकिन यदि चाबी हाथ में ले ली, वर्तमान को सुधारा तो भविष्य निश्चित रूप से सुधर जायेगा। यदि वर्तमान में प्रमाद एवं आलस्य में पड़े रहे तो भविष्य के सुन्दर स्वप्न, स्वप्न ही रह जायेंगे। वर्तमान हाथ में नहीं तो आगत भी हाथ में नहीं रहेगा। वह कोई उड़ती विडिया नहीं है। उड़ती विडिया तो संभव है फिर भी कोई पकड़ ले, पर भविष्य तो अदृष्ट होता है। उसे अच्छा कैसे बनायें, चाबी आपके हाथ है। सोचें कि लाईट और पंखा ऊपर है, वहाँ तक आपका हाथ ऊपर नहीं जाता पर जहाँ स्थित है वहाँ तक तो आपका हाथ पहुँचता ही है। उसे दबाया जाये तो प्रकाश और हवा पा लेंगे। चाबी यहाँ है, भविष्य वहाँ है, कंट्रोल तुम्हारे हाथ है, चाहे जब प्रकाश प्राप्त कर लो। वर्तमान को सुदृढ़ कर लिया, आत्मा को अनुशासन में एक व्यक्ति मकान बनाना चाहता है तो पहले उसे नक्शा बनाना होगा। जिस आकार का मकान बनाना है तदनुसार नींव भरनी होगी। यदि मकान गोलाकार बनाना है तो नींव भी गोल भरनी होगी। नींव अलग आकार की हो और मकान अलग आकार का चाहे तो यह संभव नहीं होगा। प्रभु ने नींव वर्तमान को कहा है- 'हमारी स्वतंत्राता आत्मानुशासित हो, उस पर अविद्या हावी न हो।' हावी हो गई तो भी यदि लगाम हाथ में है तो हम उसे पछाड़ देंगे। आज व्यक्ति का जीवन कैसा है? उसकी क्रिया कैसी हो रही है- निज स्वरूप को साधने की या चार गति को साधने की? संसार में रहे तो चार गति के मालिक बनेंगे, मोक्ष गये तो सिद्ध गति का स्वामित्व मिलेगा। लेकिन ये चार गति के घोड़े यदि बिगड़ गये तो क्या हालत होगी? कोई इधर खिचेंगा तो कोई उधर।

उस स्थिति में नियंत्राण कठिन हो जायेगा। प्रभु महावीर ने कहने का अभिप्राय यह है कि एक को साधो। कहावत भी है- “एके साधे सब सधे”। एक को साध लिया तो निज स्वरूप में अवस्थित होंगे। चार गति घूमते रहे तो स्वच्छंदता बढ़ेगी। आत्मानुशासन की लगाम थामकर वर्तमान क्षण को हाथ में लेकर गति करते रहे तो शाश्वत सुख के अधिकारी बन पाएँगे। चाहिए लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ समर्पण ! परन्तु यह समर्पण सर्वतोभावेन होना चाहिये। समर्पण करने के बाद किसी भी प्रकार की भावना का न जागरण हो न किसी आकांक्षा का अवकाश रहे। अब क्या करना है, यह सोचना उनका विषय है जिनके समर्पण कर दिया जाता है। यह जीवन-बेल कैसे फैले यह सोचना उनका उत्तरदायित्व है। यदि इस प्रकार का समर्पण नहीं रहा तो स्वच्छंदता बढ़ेगी और चार गति के घोड़े दुलती मारकर पतन के गर्त में गिरायेंगे। नीत्सो नियंत्राण नहीं रख पाया था, अतः वह पागल हो गया। जबकि भगवान महावीर आत्मनियंत्राण एवं आत्मानुशासन की सिद्धि के कारण अविद्या को हटाकर शाश्वत सुख के अधिकारी बने। इसलिये यह समझ लेने की बात है कि यदि निजस्वरूप को प्राप्त कर लिया जाये तो अविद्या की बेल फैले नहीं और शाश्वत सुख की प्राप्ति में कोई बाधा ही न आये। हमारे प्रयास इसी दिशा में रहें, यह हम सुनिश्चित करें, यह आवश्यक है। दिनांक 22.10.96

अविद्या से मुक्ति : जीवन की सिद्धि

श्री श्रेयांस जिन अन्तर्यामी हैं। उनकी भक्ति के संदर्भ में कहा गया है- जावंतऽविज्जापुरिसा, सवे ते दुख संभवा। ... अर्थात् श्रेयांसनाथ भगवान की प्रार्थना श्रेय अवस्था को प्राप्त करवाने में सहायक हो सकती है। “सहायक हो सकती है” क्यों कहा गया ? “सहायक है” ऐसा क्यों नहीं कहा गया ? इसके कारण पर विचार करें। हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ, वस्तु अथवा शब्द की जब तक चेतना स्वयं निमित्त भूत न बना लें, तब तक वह उसके लिए उपयोगी अथवा कल्याणकारी बने यह कम संभव है। चाहे पौद्गलिक रिथ्ति ही हो परन्तु उसे भी यदि चेतना निमित्त बना लें तो छोटी बात भी जीवन को मोड़ देने वाली हो सकती है। नहीं तो बहुत-सी और बड़ी-बड़ी बातें ही क्यों न हो जायें, व्यक्ति संभल नहीं पाता। छोटा बालक खेल-कूद, मौज-शौक में लगा रहता है। कभी गेंद से खेलता है, कभी खिलौने से। ऐसे ही खेल खेलता एक बालक अचानक मकान की छत पर पहुँचा। सहसा संगीत-उत्सव की स्वर लहरियाँ उसके कानों में पड़ी। विचार करने लगा- यह मधुर संगीत, यह उत्सव किस निमित्त से हो रहा है। वह दौड़ता हुआ माता के पास पहुँचा। बच्चे का माता पर जितना विश्वास होता है, उतना अन्य किसी पर नहीं। माँ जो इंगित कर दे, वह उसे ही मानने को तैयार हो जाता है। बालक ने माँ से पूछा- ये गीत-उत्सव क्यों हो रहे हैं ? माता ने कहा- ‘‘बेटा ! अपने ही पड़ौस में एक नये सदस्य का आगमन हुआ है। पुत्रा जन्म के कारण वे लोग हर्ष-उत्सव मना रहे हैं। संगीत लहरियाँ लहरा रही हैं, बधावे दिये जा रहे हैं। हँस-हँस कर बधाईयाँ ले रहे हैं और बदले में मुँह मीठा करा रहे हैं।’’ बालक का समाधान हो गया। फिर खेल में मरत हो गया। अगली बार खेल-खेल में गेंद जब छत पर पहुँची, तब वह पुनः दौड़ता हुआ छत पर पहुँचा। देखा कोहराम मचा हुआ था। जहाँ शहनाई बज रही थी, वहाँ करुण-क्रन्दन हो रहा था। लोग छाती पीट रहे थे, रोना-धोना हो रहा था। बच्चे ने सोचा, अभी थोड़ी देर पहले तो वह दृश्य था, इतने से समय में यह बदल कैसे गया ? आप समझते हैं, पर बच्चा क्या समझे ? वह फिर माँ के पास गया। पूछा- माँ, ये क्या हो रहा है ? माँ ने कहा- बेटा ! जो मेहमान आया था, वह रवाना हो गया है, मृत्यु को प्राप्त हो गया है। उसने पूछा- माँ ! ऐसा कैसे हो गया ? उत्तर मिला- बेटे ! यही दुनिया की रीत है। जो जन्मता है, वह मरता है। बच्चे को जिज्ञासा हुई- क्या मैं भी मरूंगा ? माँ ने बालक के मुँह पर हाथ रख दिया। बच्चे ने सोचा- अब माँ से कुछ कहना ठीक नहीं, पर मन में टीस हुई, समाधान नहीं मिला था। बात आई-गई हो गई। समय आने पर माँ ने कई कन्याओं के साथ उसका विवाह कर दिया। संयोग से भगवान अरिष्टनेमि का आगमन हुआ। वह प्रभु के दर्शनार्थ पहुँचा, उपदेश सुना- ‘क्षरति इति शरीरम्’ शरीर प्रतिपल क्षरणशील है। व्यक्ति भले सोचे कि बचपन ही बना रहे, पर वह बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे, बुढ़ापे से मृत्यु की ओर निरन्तर बढ़ता जाता है। उसे ज्ञात नहीं होता कि कौन-सा क्षण उसे मृत्यु के मुख में पहुँचा देगा। आप जानते हैं, ज्ञानी हैं, पर मौत का क्षण आयेगा तो धूजने लगेंगे। जब मान रहे हैं कि मरना निश्चित है, प्रतिक्षण मर रहे हैं, प्रति सँकड़ मर रहे हैं, फिर भी घड़ी देखेंगे- कितना समय हो गया। यह नहीं देखेंगे कि कितना समय खो दिया। वर्षगांठ मनाते हैं, पर यह नहीं सोचते कि मैंने एक वर्ष और खो दिया ? कौन समझाये?

भगवान ने कहा- शरीर मरण धर्म है। शाश्वत नहीं, निरन्तर क्षीण हो रहा है। व्यक्ति मकान बनाता है, पर शरीर कहता है चाहे कितने ही मकान बनाओ एक दिन सब खण्डहर बन जायेंगे। आज जिसमें भक्ति आसक्त है, उसमें एक दिन कोई रहने वाला नहीं होगा। इतना जान लें कि वस्तुतः यह चेतना ही अखंड है, जो इसे जान ले और मकान की छत गिरने-टूटने से पहले ही संभल जाये, वह बच सकता है। पर यदि जानबूझकर भी भीतर बैठा रहे और छत गिर जाये तो क्या होगा? सबकुछ समाप्त हो जायेगा। इसलिये गिरने से पूर्व ही संभल जायें, उसके भीतर रखी सम्पदा को सुरक्षित कर लें। मकान में हीरे-जवाहरात, माणिक-मोती हैं पर न जाने कब छत पर गिर जाये। यह समझकर, उसे वह भंडार लेकर बाहर निकल जाना चाहिये। उस बालक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। माता से पूछा था तब माता ने मुँह पर हाथ रख दिया था। अब जब वह बालक जवान हो गया, उसकी जिज्ञासा का स्वतः समाधान हो गया। वह चिन्तन करने लगा- मेरा भी शरीर जाने वाला है, रुकने वाला नहीं है।

मौत का एक झाँका लगा कि जीवन वृक्ष गिरा।
मौत की हवा का झाँका एक टूट आयेगा,

जिन्दगी का वृक्ष तेरा टूट जायेगा।
सड़क के किनारे एक बड़ा वटवृक्ष था। पास में ही छोटे झाड़ भी थे। उस वटवृक्ष पर अनेक पक्षी घर बनाकर रह रहे थे। कोई भी राहगीर आता तो उसकी छाँव में विश्राम करता था। छोटे-छोटे झाड़ देखते रहते। उनमें ईर्ष्या-भाव जगा- हम भी तो यहाँ खड़े हैं, सड़क के किनारे परन्तु जो पक्षी और पथिक हैं, उस विशाल वटवृक्ष की ही शरण लेते हैं, हमारे पास कोई पक्षी या पथिक नहीं फटकता। उन्होंने चिल्लाकर कहा भी "अरे, हमारे पास भी आओ", पर कोई सुनने वाला नहीं था। संयोग से एक बार भयंकर तूफान आया, जिसकी चपेट में आकर उस वृक्ष की एक टहनी टूट गई। पक्षी भी उस अंधड़ से बचने के लिये छोटे झाड़ पर जाकर बैठ गये। समय के साथ तूफान शांत हुआ। छोटे झाड़, अब अपने को गौरवान्वित मानते हुए कहने लगे- देखा, क्या दुर्दशा हुई उसकी! सारे आश्रित पक्षी हमारी शरण में आ गये। पेड़ ने कहा- भाई क्या कह रहे हो? मेरी बात कर रहे हों, पर यह क्यों नहीं सोचते कि मैंने सदा तूफानों को झेला है। समय के साथ पत्ते जरूर झड़ते हैं किन्तु जब तक मूल सुरक्षित है, ठहनियाँ फिर पनपेंगी। जो पक्षी उड़ गये थे, उनके छोटे बच्चे कहने लगे- अब वहाँ नहीं चलना है, वहाँ तूफान आते हैं तो शाखाएँ गिर पड़ती हैं। बड़े पक्षियों ने कहा- तुम नहीं समझते हो, यदि आश्रय लेना है तो उस वटवृक्ष का ही लो। एक शाखा भले ही टूट गई हो पर वृक्ष सुरक्षित है। तूफान झेलने में वह हर तरह से सक्षम है। उसके गुण कह रहे हैं- तूफान सहन करो। शीघ्र ही उड़-उड़कर सारे पक्षी फिर उसी वटवृक्ष पर आ गये। छोटे झाड़ देखते रह गये। साल-छह महीने बीते नहीं कि वृक्ष पर फिर नयी शाखा-प्रशाखाएँ आ गई और वह लहलहाने लगा। कौनसी शाखा टूटी थी, उसका निशान भी न रहा। ऐसी अवस्थाएँ बनती रहती हैं, यह प्रकृति की व्यवस्था है।

बालक युवा हो गया। सुना, मौत के झाँके में जीवन वृक्ष टूट जायेगा, कभी भी टूट जायेगा। कभी शाखा-प्रशाखाएँ और कभी छोटे झाड़ टूट जाते हैं क्योंकि ये काल का प्रवाह है। व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है। प्रतिपल मृत्यु निकट आ रही है यह बोध कितनों को हो पाता है। सभी बच्चे युवा होंगे या नहीं, बुढ़ापा आयेगा या नहीं या कोई जवानी में ही रवाना हो जायेगा, इसका कोई गणित नहीं है। दादा-परदादा बैठे रह जाते हैं, पर पोते-पड़पोते चले जाते हैं। किसकी गाड़ी पहले और किसकी पीछे जायेगी, यह ज्ञात नहीं। व्यवहार की बात तो जानते हैं कि एक्सप्रेस टेज चलती है और पैसेंजर धीरे, पर स्वयं किस में सवार हैं इसका पता नहीं। काल अपने राज्य में किसको 'लोकल' और किसको तत्काल- एक्सप्रेस बना दे, यह भी पता नहीं। वैसे ही जैसे सरकारी ऑर्डर निकलते हैं और तत्काल प्रभावी हो जाते हैं। पैट्रोल की कीमत यदि बढ़ती है तो रात को 12 बजे ऑर्डर लागू हो जाता है और दूसरे दिन जब आप पहुँचते हैं तब पिछले दिन की कीमत पर नहीं, सुबह की कीमत पर पैट्रोल लेना पड़ता है। यह है तत्काल प्रभाव। काल भी तत्काल प्रभाव दिखाता है। अरिष्टनेमि प्रभु की देशना सुनकर बोध पाया। बालक माँ के पास पहुँचा- 'माँ मैं दीक्षा लूँगा। माता! मेरा समाधान हो गया है, मेरे मकान की छत गिरे इससे पूर्व ही मैं तैयारी कर लेना चाहता हूँ। मकान खाली करना ही होगा। एक ने तैयारी कर ली- सामान बांधकर, घंटी लगी तो रवाना हो गया। एक गफलत में सोया रहा और मकान की छत गिर गई तो फिर कुछ नहीं हो सकेगा। अतः अलर्ट, सावधान। इन्तजार नहीं करना है। लम्बा संवाद है- माता-पुत्रा का, पूरा कहने की आवश्यकता नहीं। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा पर फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कई बार (इन बहनों की तरफ इंगित करते हुए) सुभद्राओं ने कहा होगा, पर धन्नाजी के लगे तब न? शालीभद्र बने हुए हो, धीरे-धीरे समझाऊँगा। शालीभद्र क्यों बने हो? धन्ना ने क्या कहा था- 'कायर

सुन री तेरा भाई इक-इक नारी छोड़े।” तुम्हारा भाई कायर है, एक-एक छोड़ेगा। शूरवीर को साँप की तरह कँचुली त्यागने में कितनी देर लगती है ? ओ हो ! धीरे-धीरे समझाओगे ? न जाने क्या समझाओगे, इसलिए कह रहा हूँ शालीभद्र बने हो। धन्ना को भी सुभद्रा ने पकड़ा। अविद्या ने पैर पकड़े, पर वचन बाण का घायल शूरा लौट नहीं सकता। जिसने क्षरण अवस्था को जान लिया वह इंतजार नहीं करता। वह भी माता के पास अनुनय कर रहा है। माता ने देखा- अब यह रुकने वाला नहीं है। वह कृष्ण वासुदेव के पास पहुँची। घटना कह सुनाई। निवेदन किया- मेरा पुत्रा प्रभु के चरणों में दीक्षित होना चाहता है। जिसने क्षरण अवस्था जान ली है, वही दीक्षा ले पाता है। मैं कह गया हूँ कि श्रेयांसनाथ भगवान की प्रार्थना सहायक बन सकती है, यदि बना ली जाये तो अन्यथा प्रार्थना तो रोज करते हैं, पर कौन सी गरज सरी, कितने कदम बढ़ाये ? नहीं बढ़ा पाये तो प्रार्थना का उपयोग कहाँ हुआ ? इसलिए मैंने कहा था कि प्रार्थना सहायक बन सकती है बशर्ते आत्मा इसे अपने आप में सहयोगी बना ले। बना ले तो वह मंजिल तक पहुँचाने में सहयोगी होगी। प्रभु महावीर कहते हैं- कैसे बनायें ? जब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं, अविद्या की घनी छाया है, तब तक आप भीतर का स्वरूप नहीं देख पायेंगे। दुनिया को देखते हैं, पर स्वयं का ठिकाना नहीं। हुँ कोण छुं, क्यां थी थयो, सुं स्वरूप छे म्हारो खरो। हुँ कौन छु ? संतों के पास दर्शनार्थ आते हैं, पूछते हैं- महाराज! म्हने पहचाणयो। महाराज न भी पहचाने तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, पर तुमने स्वयं को पहचाना या नहीं ? महाराज ने पहचान लिया, पर जब तक तुमने स्वयं को नहीं पहचाना तब तक दीपक तले अंधेरा ही रहेगा। श्रीमद् रायचन्द ने कहा है- तू कौन है ? तेरा स्वरूप क्या है ? यह समझ पाना बहुत कठिन है। दूसरे को देखना सरल है, पर स्वयं को देखना कठिन ही नहीं महाकठिन है। स्वयं को देखें तो फिर बाहर देखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। पर यह स्वयं को देखना ही कठिन है। अविद्या की कालिख चारों ओर ऐसी जमी है कि व्यक्ति स्वयं को देख नहीं पाता।

मैं कह गया हूँ कि बात भले ही छोटी हो, निमित्त कोई भी हो, पर चेतना उसे निमित्त न बनावे तो आत्म-लाभ नहीं होगा। वैसे तो लाभ होता है पर व्यक्ति अपनी अवधारणाओं के अनुरूप लाभ नहीं उठा पाता। तीन मनोरथ या छोटी-सी घटना भी परिवर्तन में सहायक हो सकती है। छोटी-सी चिंगारी ज्वाला भी बन सकती है। ज्वाला कषाय की भी होती है, पर यहाँ ज्वाला है- ‘ज्ञान की’। वह अविद्या को जलाकर भस्म कर सकती है, बशर्ते हम उसका उपयोग करें। ज्ञान की चिंगारियाँ उछल रही हैं, उनका उपयोग कर उन्हें यदि अविद्या से लगा दिया तो ज्ञान, दर्शन, चारित्रा, आत्मदर्शन का लाभ प्राप्त हो सकता है। आत्मा ऊपर उठ सकता है। थावच्चा पुत्रा की भाँति भाव तो जागे- ‘संसार खारा जहर है, संयम मैं लीला लहर है।’ अनुभव करके देखिये, अनुभव बिना क्या मालूम पड़े कि लीला लहर है। दूर के पहाड़ दिखने में सुन्दर लगते हैं, पर पास जाकर देखें तब उनकी वास्तविकता का पता चलता है। संयम खजूर के वृक्ष की भाँति है- चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। संयम पोशाक बदलने से नहीं आता, अनुभूति करो। इसलिए कहा है- श्रावक पौष्टि करे कि उसमें कितना आनन्द आता है। पौष्टि में रम जाओ और उस आनंद का ‘सेम्पल’ देखो फिर साधु जीवन खरीदो। पर आज सामायिक-पौष्टि भी पोषक नहीं रहे, प्रवाह मात्रा है, क्योंकि स्वयं का जागरण नहीं है। अतः स्वरूप को समझो। यदि स्वयं को जगाना है तो तीन मनोरथ का चिंतन करते हुए इसी दिशा में गतिशील बनो। अविद्या दूर होगी तो श्रेयांसनाथ भगवान की प्रार्थना करते हुए हम भी श्रेयांसनाथ भगवान का स्वरूप प्राप्त कर

दि. 23.10.96

त्याग-प्रत्याख्यानों का महत्त्व

जीवन में श्रेय की प्राप्ति और दुःखों से मुक्ति के लिए प्रभु महावीर का संदेश है- जावंतविज्ञा पुरिसा, सबे ते दुःख संभवा (उत्तराध्ययन सूत्रा 6/1)। दुःख से बचना चाहते हो तो बचा जा सकता है पर उसके लिये दुःख की जड़ को ढूँढ़ना होगा। ऊपर से वृक्ष को काटते रहे, पर जड़ सुरक्षित रही तो वृक्ष पुनः-पुनः पनपता रहेगा। जैसे ही हवा-पानी-खाद का सिंचन मिलेगा, वह पुनः बढ़ जायेगा, समाप्त नहीं होगा। यही बात दुःखों के वृक्ष की है, क्योंकि इसकी अविद्या रूप जड़ विद्यमान रहती है। यदि समय पर उसे सिंचन मिलता रहेगा तो श्रेय मार्ग पर कदम बढ़ाना कठिन बना रहेगा। इस संदर्भ में छोटे-छोटे त्याग-प्रत्याख्यानों के महत्त्व पर विचार करना आवश्यक

है। उनसे संबंधित गलत धारणाओं का निवारण भी आवश्यक है। छोटे-छोटे त्याग-प्रत्याख्यानों के विषय में जब कहा जाता है तो कभी-कभी भाई सोचते हैं कि इन छोटे-छोटे प्रत्याख्यानों की क्या आवश्यकता है। इनका क्या महत्त्व है? इनका जीवन के साथ क्या संबंध है? इस दृष्टि से यह जानना भी अपेक्षित है कि वनस्पति की 24 लाख जातियाँ कहीं गई हैं। 100 से ज्यादा के संभव हैं कि व्यक्ति नाम भी न जानता हो। जरा सोचिये, जिसके पास लाख की संपत्ति भी नहीं, वह कहता है- करोड़ से ज्यादा नहीं रखूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा से क्या लाभ? ये सही है कि उसने कहीं पर तो अपनी इच्छाओं को रोका है, कहीं ब्रेक तो लगाया है। तो इतना ही इनका महत्त्व है परन्तु वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही प्रत्याख्यान लेना महत्त्वपूर्ण है। प्रभु महावीर साधना में उतरे, निरन्तर खोज में उतरे, अपने आप को खोज में लगा दिया। आप पूछेंगे, उस समय कौन-सी प्रयोगशाला थी, जिसमें प्रभु ने शोध की? प्रभु महावीर के समय नाम की प्रयोगशाला भले न रही हो पर उन्होंने स्वयं को ही प्रयोगशाला बना लिया था और उसी में वे सभी प्रयोग करते रहे थे। कभी बेले, कभी तेले किये, कभी लम्बी तपस्या की। ऐसे-ऐसे अभिग्रह किए, जिनकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। उनकी पूर्ति न हुई तब तक परिभ्रमण करते रहे, ये नहीं कि एक जगह बैठ गये। जहाँ पहुँचे वहाँ ग्राम-नगर में परिभ्रमण किया। मिला न मिला तो भी संतोष के साथ साधना में लीन हो जाते। इसी कारण कठिन व दुरुह अभिग्रह भी पूर्ण हुए। इस स्थिति को गहराई से समझें। उपवास किया है तो दूसरे दिन पारणा करना है फिर प्रतिज्ञा। नहीं मिले तो फिर शांत भाव से साधना में लीन हो जाना है। अंतर नहीं आने देना चाहिये। लोग तो जानते नहीं कि संतों के अभिग्रह है, पर उस कारण उतार-चढ़ाव के भाव नहीं आने चाहिए। प्रभु महावीर ने ऐसा ही किया और निरन्तर साधना में रत रहे। उस स्थिति की कल्पना कीजिये- प्रभु ध्यान में खड़े हैं, एक ग्वाला आता है- 'अरे बाबाजी! यहाँ हो तो मैं अपने पशु छोड़कर जा रहा हूँ रखवाली करना!' ध्यान में है! साधना के क्षण हैं, प्रभु मौन हैं, जवाब नहीं दिया। उसने सोचा- 'मौनं स्वीकृति लक्षणम्', मौन हैं तो 'हाँ' भर ली क्योंकि मौन को स्वीकृति भी माना जाता है। ग्वाला चला गया। थोड़ी देर में लौटा तो पशु नदारद थे। खुले थे अतः धीरे-धीरे आगे खिसक गये थे। ग्वाले ने कहा- महात्मा ध्यान में हैं, पशु इधर-उधर नहीं है। पूछा बाबाजी! पशु कहाँ हैं? प्रभु मौन रहे, कोई जवाब नहीं दिया। उसने देखा- उसकी पलक भी नहीं झापक रही है, शायद देखता भी न हो। जोर से आवाज लगाई- अरे! बहरे हो क्या? परन्तु प्रभु आवाज भी कहाँ सुन रहे थे? उन्होंने कानों को उस ओर लगाया ही नहीं था तो आवाज सुनते कैसे? आप जानते हैं कि यदि तंत्रा को किसी दिशा में गतिशील बनाया जाये तो ही सुन सकेंगे। कान ही नहीं लगाया तो मालूम कैसे चले क्या बात है। लक्षि है पर उपयोग-रूप स्वीच नहीं दबाया तो परिणाम कैसे उपलब्ध हो? जैसे स्वीच दबाने से प्रकाश होता है, वैसे ही इन्द्रियों का भी स्वीच होता है। वह नहीं दबाया तो चाहे कितना भी विषय हो पर वे परिणाम नहीं देगी। उपयोग का स्वीच दबा दिया तो बाहर का जो कुछ है वह सप्लाई हो जायेगा। जो भी कार्मण-वर्गणा के पुद्गल बाहर हैं, जुड़ेंगे, बंधन प्रक्रिया प्रारम्भ होगी अन्यथा सप्लाई नहीं होगी। हम कोई माल खरीदना चाहे ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं हो तो कोई जबरन तो नहीं देगा। खरीदने के लिए लगाव होगा तो सौदा होगा और माल खरीदा जायेगा। इन्द्रियों को आगे बढ़ाया, स्वीच दबाया, उपयोग जोड़ा तो वहाँ आदान होगा। आदान अर्थात् बाहर से वस्तु ग्रहण करने की सक्षमता। इसे आगमिक भाषा में 'आस्र' की संज्ञा दी गई है। वह द्वार खोल देती है, यही बंध का कारण है। ये अवस्थाएँ जब तक बनी रहेंगी तब तक अविद्या भी बनी रहेगी। जैसे ही अविद्या से ऊपर उठेंगे, जितने-जितने ऊपर उठेंगे, एक साथ ऊपर उठ जायें यह जरूरी नहीं, उतनी ही अविद्या दूर होगी, उतने ही मायने में कार्मण-वर्गणा ग्रहण नहीं होगी। संदर्भ प्रभु महावीर का चल रहा था। ग्वाले ने कहा- पर वे सुन कहाँ रहे थे। उन्होंने स्वीच दबाया ही नहीं था तो आस्र कैसे ग्रहण होगा। आज यदि सुन नहीं पा रहे हैं या बहरे हैं, यंत्रा जोड़ लिया तो तत्काल सप्लाई प्रारंभ हो जायेगी, परिमण तीव्र गति से होगा। ग्लुकोज, जो नस के माध्यम से चढ़ाया जाता है, खून में मिलकर तत्काल प्रक्रिया से खून बन जाता है। पानी का भाग अलग हो जाता है, सार अंश खून में मिल जाता है। उसमें तो फिर भी देर लग सकती है पर बहरे हैं, जैसे ही सुना तत्काल प्रभाव दिखाई देगा आँख पर, ललाट पर। मुँह से बोलें या नहीं, पर बोलने वाला कौन है? उसकी ओर तो आँखे उठेगी। सामने वाला समर्थ है तो नहीं चलेगी। भले न भी बोलें, पर कोई निर्बल हो तो उस पर तुरन्त हावी हो जायेंगे। चलते टक्कर लगा दी तो कहेंगे, देखकर नहीं चलता। सभ्य पुरुष हो तो रास्ता दे दे, पर सुनने के साथ जोड़ते हैं तो जो सप्लाई होगी, वह होगी।

अपनी

प्रभु महावीर से ग्वाले ने कहा- बहरे हो, सुनते नहीं। जब आवाज पहुँची ही नहीं तो प्रतिक्रिया क्या होती? ध्वनि

पहुँचती तो प्रतिक्रिया होती। कुँए में कोई बोलता है तो तत्काल प्रतिध्वनि उठती है, क्योंकि कुँआ ग्रहण करता है, वैसे ही यदि हम भी आवाज को ग्रहण करें तो प्रतिध्वनि होगी अन्यथा नहीं होगी। ग्वाले ने एक बार, दो बार कहा, पर भगवान ने प्रतिकार नहीं किया तो उसे लगा- आँखों से देखता न हो, कानों से सुनता न हो। हो सकता है बहरा हो परन्तु इसकी तो पलक भी नहीं झपकती। भगवान एक ही पुद्गल पर दृष्टि का संबंध रखते थे। यह ध्यान की एक विशेष क्रिया थी, जो मन को केन्द्रित करने का अचूक उपाय है। जहाँ ऐसा उपाय है, वहाँ खतरे भी हैं। जो खतरे से नहीं घबराता वही साधना में कूद सकता है, घबराने वाला नहीं। ग्वाले ने देखा- कोई परिस्पन्दन, प्रकम्पन भी नहीं, होठ भी नहीं हिल रहे हैं, इसे ध्यान नहीं है और पशु इधर-उधर चले गए हैं। वह भी इधर-उधर देखकर घर लौट आया। पुनः शाम को पहुँचा तो देखा कि पशु प्रभु के पास बैठे हैं। अच्छा तो यह है इसकी धूर्तता ! मैं सोच रहा था- देखता नहीं है, सुनता नहीं है। इसने सोचा होगा कि रात पड़ी कि पशुओं को लेकर भाग जाऊँगा, पर भागना इतना सहज नहीं है। बोला- मैं वापस आ गया हूँ, बता पशुओं को कहाँ छिपा रखा था ? कहते हैं, प्रभु के कानों में कीले ठोंके गये। चाहे कीलें हो या वसूले, भले ही लकड़ी के हों पर उनका ठोंका जाना क्या मामूली बात थी ? कभी कान से मैलें निकालते समय भूल से कटकी चुभ जाये तो झट हाथ कान पर पहुँच जाता है। किसी भी रूप में हो, उसने दोनों कानों में कीले ठोंके। प्रभु जिस प्रयोगशाला में प्रयोग में बैठे थे, सोच रहे थे, जिसे मैं जगा नहीं पाया, उसे जगाने में सहयोगी बन रहा है। आज हम जगाने के लिए तैयारी कहाँ कर रहे हैं ? सामायिक, पौष्टि में तैयारी है क्या ? अनादि से जितने जीवन प्राप्त किये, आत्मा ने जितनी नींद ली, उतनी तो शायद कुंभकर्ण को भी नहीं आती थी, उसकी नींद भी छः माह में खुल जाती थी, पर हमारी ? कितने वर्ष बीत गये ? अवसर्पिणी काल, उत्सर्पिणी काल और कितने कालचक्र बीत गये ? अनंतानंत पुद्गल परावर्तन बीत गये। किसे कहते हैं पुद्गल परावर्तन ? अनंतानंत कालचक्र बीत जाते हैं। एक कालचक्र 20 कोङ्का-कोङ्की सागरसेप्त का होता है। औदारिक आदि वर्गणा का औदारिक आदि रूप में आहारक को छोड़कर परिणमन हो। उसके भी बाहर व सूक्ष्म रूप में आहारक को छोड़कर परिणमन हो। उसके भी बादर व सूक्ष्म रूप में दो भेद हैं। ऐसे अनंत पुद्गल परावर्तन बिताये, फिर भी नींद नहीं उड़ी। नींद उड़ाने की इच्छा भी शायद नहीं है।

उठो नर-नारियों जागो, जगाने संत आये हैं,
धर्म उपदेश यह प्यारा, सुनाने संत आये हैं।

अभी तो नींद उड़ाना ठीक नहीं। अभी तो ऐसी लहर है कि और सुला दो तो अच्छा। कोई लोरी गाये तो हवा ठंडी हो तो नींद आती है। माताएँ बच्चों को हालरिया गाकर सुलाती हैं, संतों की आवाज भी मंद है। एक बार और गा लें। जगाने के लिए ही धर्म अनुष्ठान है। हमारे भीतर सोये संस्कार जाग जाएं, इस हेतु उपाय करें। एक सेठ था, जिसे चोरों का बहुत डर रहता था कि कहीं मेरे घर में चोरी न हो जाये। गाँव में बहुत तंगाई पड़ने लगी तो एक मकान कॉलोनी में बनवाया, सोचा- शिफ्ट होना पड़ेगा। परन्तु कॉलोनी यदि सुनसान है तो भय तो लगेगा। यहाँ तो पड़ौसी भी नये थे, अतः नये घर में रात्रि में डर लगना ही था। सेठ के नये घर में बसने का प्रसंग बना। मन भयभीत होने लगा। किसी ने कहा- आजकल कुत्ते बहुत मिलते हैं, कुत्ता खरीद लो, वह घर में रहेगा तो चोर घर में घुस नहीं सकेगा। सेठजी बाजार गये। एक हट्टा-कट्टा मजबूत कुत्ता देखा और खरीद लाये। संयोग से उसी रात चोरी हो गई। सेठ भागा, दुकानदार के पास, बोला- मुझे ठग लिया। मैंने कहा था ऐसा कुत्ता दो जो काम आये। यह कुत्ता तो सोता रहा और चोर चोरी करके भाग गये। दुकानदार ने कहा- सेठजी, ये इतना बड़ा कुत्ता केवल चोर-चोर कहने से नहीं जगेगा। इसे जगाने के लिए छोटे कुत्ते चाहिए, जो इसके पास आकर इसे जगायें। सेठजी ने छोटे कुत्ते भी खरीद लिये। वैसे ही हमारी आत्मा की तंदा टूटी नहीं है। प्रभु ने प्रयोग बताये हैं कि उपवास, बेला-तेला, तप-त्याग के छोटे-छोटे शवान छोड़ दो। ये स्थामी को जगायेंगे। उपवास किया तो जोरों से भूख लगेगी। यह भूख पहले शरीर पर प्रहार करती है फिर वह मन के पास पहुँचती है। मन तो बड़ा कुत्ता है, वह सोचता है- मैं क्यों जागूँ ? इसलिये मन तक आवाज पहुँचती ही नहीं, जब शरीर चिल्लाता है- चोर आ रहा है, तब मन समझ पाता है कि शरीर के साथ ही उसका अस्तित्व है। यदि शरीर चला गया तो उसका क्या होगा ? इसलिये वह उसे टिकाने के लिए प्रयत्न करता है। फिर मन चेतना को कुरेदने का कार्य करता है और वह कुरेदन जब बढ़कर प्रभावी बन जाती है तब कहीं जाकर जागरण का प्रसंग बनता है। ये गुर अपनायें।

प्रभु के मन में भाव बने कि जिसे मैं जगा नहीं पाया, उसे यह ग्वाला जगा रहा है। क्रिया के बाद प्रतिक्रिया नहीं हुई। प्रतिक्रिया में जाते तो जागरण नहीं होता। आप कहेंगे, जवाब नहीं दिया, परन्तु यदि जवाब देते तो जागरण

नहीं होता। तब आध्यात्मिकता की बात कहाँ होती ? कहा है- अध्यात्म मत पूरण पामी- अध्यात्म की पूर्णता प्राप्त है तो वहाँ प्रतिक्रिया नहीं होगी। चाहे कानों में कीलें ठोके, सिर पर अंगारे रखे अथवा पैरों पर खीर पकाये। कर्म, चेतना के साथ जुड़े हैं। शरीर के साथ उन्हें छोड़ना ही है, इस स्थिति में कोई सहयोगी मिले तो खुशी ही होगी। दर्द का अहसास भी नहीं होगा। जरा विचार करें कि जिस कचरे को हम स्वयं निकालना चाहते हैं, उसे कोई ट्रक में भरकर ले जाये तो खुशी ही होगी, सोचेंगे, चलो मेरे पैसे बचे, अपने आप ही ले गये। प्रभु कह रहे हैं- देह भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। ऐसा विवेक जागृत हो जाये तो वह बोध ही सच्चा जागरण है। उस जागरण में कोई देह को ले जाना चाहे तो प्रसन्न हों कि ये तो जबरन पकड़ में आया है और कहे इसे ले जाओ। स्वर्ण को तपाते हैं तो वह रोता नहीं, हँसता है। उसे खुशी होती है कि मुझमें और निखार आ जायेगा। प्रभु के मन में विचार आता है कि यह उपकारी है, जिसे मैं न जाने कब तक जगा पाता ! उसे जगाने में इसने सहूलियत कर दी, मैं जल्दी जग पाया। इसके लिए ही धार्मिक अनुष्ठान है। आप सोचेंगे- क्या धर्म केवल मुँहपत्ती में है ? नहीं, वह तो मात्रा निमित्त है। आर्द्धकुमार ने पहले धार्मिक उपकरण कभी देखे नहीं थे। जब उसे आर्य क्षेत्रा में लाया गया तब उनका उसने उपयोग किया। तदनंतर दर्पण में स्वयं को निहारा, अच्छा लगा। उसमें वैराग्य जागा। समझ लीजिये कि ये उपक्रम आत्मा को जगाने के लिए है। आत्मा जागती रहे तो सम्पत्ति बच जायेगी। जागृति भले ही किसी की भी हो तो वह बेहोशी उड़ा ही देगी। इसलिये जागो और जगाओ, अविराम गति से बढ़ो। तपस्या आत्मा को जगाने वाली होती है और विवेक के दीप को प्रज्वलित रखने वाली होती है। इसीलिये भगवान के पथ पर आगे बढ़ाने में वह बहुत सहयोगी बनती है। जिनका विवेक जागृत नहीं होता और जो अज्ञान के वशीभूत हो जाते हैं, उनके संबंध में उत्तराध्ययन सूत्रा में कहा गया है- मासे मासे उ जो बाले, कुसग्गण तु भुजेऽ....। इससे कुछ प्राप्त नहीं होगा। देह भिन्नता का बोध नहीं, आत्मा को जगाया नहीं तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। धार्मिक अनुष्ठान मनुष्य को जगाने के लिए होते हैं। सेठ ने जगाने के लिए कुत्ते को रखा, यह उदाहरण तो एक देशीय है। जब पहले शरीर पर चोट होगी, फिर मन पर और फिर मन आत्मा को जगायेगा, तब जिस आनंद की उपलब्धि होगी, वह अनिर्वचनीय होगा। आत्मा को जगाना है तो प्रभु द्वारा बताई गई धर्म प्रज्ञप्ति को अपनाईये, तब ही जीवन में कुछ क्रांति घटित होगी। अपने भीतर रहे परमात्म रूप आत्मदेव को जगाने के अनेक आयाम हैं। किसी ने गाली दी सुन लो, प्रतिकार करोगे तो उकसाने का काम होगा। प्रतिकार नहीं करोगे तो वह स्वतः ही ढंडा पड़ जायेगा। दीवार को गाली दें, वह प्रतिकार नहीं करती। तपस्या के साथ समभाव की साधना हो, यह आवश्यक है। क्रोध आयेगा, रुकेगा नहीं। कभी कहें कि छीक-खाँसी को रोक लें, तो उन्हें रोका नहीं जा सकता। क्रोध रुकेगा नहीं, उसे फलित मत होने दो। इस प्रकार परमात्म रूप को जगाने के अनेक नुस्खे हैं। उन्हें आजमाते गये तो चेतना विकसित होती चली जायेगी। आप भी आत्मा को जगाने का प्रयत्न कीजिए। प्रकृति भी परीक्षा लेती है, पर जो मन को अविचलित रखता है वह शनैः-शनैः तपस्या के क्षेत्रा में मासखमण तक पहुँच सकता है। परीक्षा के क्षण में अविचलित रहे तभी क्रांति घटित होगी। इसलिये यह ध्यान रखें कि यह हमारे मन के साथ जुड़े। छोटे-छोटे त्याग-प्रत्याख्यान स्वीकार करते हुए यदि हम क्रान्तिपथ पर आगे बढ़ेंगे तो मंगलमय दिशा में अवश्य ही गति कर पायेंगे।

दिनांक 24.10.96

दो कदम सूर्योदय की ओर

इस जीवन-संग्राम में विजय प्राप्ति के दो मार्ग बताये गये हैं। इन दो मार्गों का एक मार्ग भी किया जा सकता है। यह भी ध्यान में रखने की बात है कि जब तक दो मार्ग हैं तब एक भटकाव है, आत्मा में दुराव है। यदि इन दोनों को मिलाकर एक मार्ग बना लें तो एक मार्ग बनने पर चेतना का उर्ध्वरोहण प्रारंभ हो सकता है। इन दो मार्ग में एक मार्ग- शक्ति का है और दूसरा- भक्ति का। दुनिया में बहुत से व्यक्ति शक्ति की आराधना करने वाले हैं तो बहुत से भक्ति भी करते हैं। जब तक शक्ति की ओर दौड़ हैं- तब तक व्यक्ति चाहता है कि वह शक्तिशाली बन जाये, शरीर से और धन-वैभव आदि अनेक शक्तियों को अर्जित कर ले। दौड़ भले ही इच्छाओं की, मन की, कल्पना की ही हो, व्यक्ति सर्वस्व पाने का इच्छुक बना रहता है। दुनिया में जितने भी प्रकार की शक्तियाँ हैं उनकी प्राप्ति की दौड़ में वह गिरा है, भटका है। परन्तु इतिहास साक्षी है कि जब भी शक्ति आती

है, वह अपने साथ में द्वंद्व, भटकाव भी लाती है। जब भी शक्ति की आराधना हुई है, युद्ध-संघर्ष और अशांति की स्थितियाँ भी बनी हैं। क्योंकि शक्ति दूसरों को दबाने में प्रयुक्त होती है। भक्ति उससे ठीक विपरीत मार्ग है। वहाँ लक्ष्य होता है अपने आपको गौण करना। वहाँ एक तमन्ना होती है- भगवान को प्राप्त कर लेने की। इस दृष्टि से श्रेयांसनाथ प्रभु की प्रार्थना विशिष्ट है। वह न शक्ति का प्रतीक है, न भक्ति का। पर इन दोनों को जोड़कर एक ऐसा मार्ग उद्घाटित करती है, जिस पर शक्ति शक्ति का, भक्ति भक्ति का काम करती है। आनन्दधनजी ने दोनों को जोड़ने का काम करते हुए कहा है-

श्री श्रेयांस जिन अन्तर्यामी, आत्मरामी नामी रे....।

श्रेयांस की व्याख्या में श्रेय का जो अंश है, वह सिद्धि का सोपान है, जो पौरुष को जागृत करती है। जब पौरुष अध्यात्म की या आत्मा की दिशा से जागृत हो, तब उसे भक्ति की दिशा में प्रवाहित कर देना होता है- मुख्य पणे जे आत्मरामी ते पूरण निष्कामी रे.....। फिर न कोई कामना रहती है, न ही कोई चाह। स्वयं को पूर्णतया समर्पित कर दिया तो फिर वहाँ यही भाव रहता है कि चाहे तो तारो, चाहे तो मारो, मेरे हाथ कुछ नहीं है, मेरी कोई कामना नहीं है। ऐसी स्थिति में कामना रह भी नहीं सकती। जिस प्रकार धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है और उस पर बाण। यदि दोनों अलग-अलग पड़े रहें तो उनकी कोई उपयोगिता नहीं होती। पर जब इनके माध्यम से संधान हो जाता है, तब व्यक्ति अपने लक्ष्य को वेध सकता है। ऐसी ही शक्ति व भक्ति की अवस्था है। एक अवस्था में जो शक्ति भटकाने वाली हो सकती है, वह भटकायेगी नहीं। क्योंकि उस पर भक्ति का अंकुश लग जाता है। शक्ति उछाला खायेगी, पर भक्ति के अंकुश से वह स्वचंद नहीं बन पायेगी। कवि ने प्रार्थना करते हुए शक्ति व भक्ति को एकान्त नहीं चाहा, बल्कि चाहा है कि उसके भीतर पौरुष जागृत हो और श्रेय के अंश को प्राप्त करे, पर उसमें से भक्ति का पुट छूटे नहीं। वह पुट जुड़ गया तो व्यक्ति भटकेगा नहीं, निरन्तर मंजिल की दिशा में बढ़ेगा। हम देख रहे हैं कि यह अवस्था नहीं बन रही है। क्या कारण है ? कारण है कि अविद्या कभी शक्ति पर हावी होती है तो कभी भक्ति पर। डॉक्टर से इलाज करवाना है, औषधी लेनी है तो

चार	अवस्थाएँ	घटित	हो	सकती	है-
(1)	व्यक्ति रोग को जानता है, दवा लेता है पर पथ्य-पालन नहीं करता है।				
(2)	रोग जानता है, दवा नहीं लेता पर पथ्य-पालन करता है।				
(3)	रोग जानता है, दवा लेता है, पथ्य पालन करता है।				
(4)	रोग को जानता है, दवा लेता है, पथ्य पालन करता है,				

पर रोग असाध्य होने के कारण दवा कारगर नहीं होती।

आप रोग को जान रहे हैं। रोग हैं- जन्म, जरा और मृत्यु। आपने बहुत बार सुना है इसलिए जानते हैं, पर मानते हैं या नहीं ? दोनों बातें अलग-अलग हैं- जानना और मानना। मैंने कहा और आपने जान लिया परन्तु मानना कब होगा ? तब ही, जब यह मानना अनुभूति से गुजरेगा। भोजन करने बैठे क्योंकि सुना है कि भोजन करने से पेट भरता है। सुना है तो जान लिया पर वस्तुतः पेट भरता है या नहीं, यह तो भोजन करने पर ही ज्ञात होगा। यह होगा मानना। एक अवस्था है- रोग को जानता है, दवा लेता है पर पथ्य-पालन नहीं। रोग हैं- जन्म, जरा, मृत्यु और दवा है- वीतराग वाणी। पथ्य है- हिंसा, झूठ, चोरी को टालना, अहिंसा अचौर्य में गति करना; यही पथ्य उपचार हुआ। एक रोग को जानता है, दवा लेता है, पथ्य-पालन नहीं करता तो बीमारी मिटेगी नहीं। एक रोग को जानता है, दवा नहीं लेता अर्थात् वीतराग वाणी का सम्बल नहीं तो रोग ठीक नहीं होगा। उस आचरण का अभाव होने से रोग कैसे घटेगा ? पथ्य-प्रयोग करता है, अतः हो सकता रोग ब भमवती सूत्रा के अनुसार भमवान से पूछा मया भमवन् ! क्या केवलज्ञान से मुक्ति हो सकती हैं ? भमवान ने कहा 'यो इण्टर्डे सम्हर्डे' केवल चारित्रा से भी मुक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान मात्रा है परन्तु आचरण नहीं, पथ्य-पालन नहीं तो बीमारी से मुक्त नहीं हो सकता। दवा नहीं ले, केवल पथ्य पालन करे तो भी बीमारी दूर नहीं होगी। पथ्य पालन से बीमारी बढ़े नहीं, पर बीमारी है तो वैद्य कहता है दवा भी लेनी होगी और पथ्य-पालन भी करना होगा। पर यदि रोग असाध्य हो गया तो दवा लगेगी ही नहीं। आप कहेंगे महाराज ! ये क्या बता रहे हैं। एक व्यक्ति जानता है कि उसे जन्म जस का सेम है, पर बीमारी असाध्य है। उसे किसना ही उपदेश दो, सुनता है, पथ्य-पालन भी करता है, पर बीमारी दूर नहीं होगी। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती से चित्त के जीव ने कहा हम कोئों पहले मुनि थे, तब आगे बढ़ो, जन्म, जरा की बीमारी में क्या जकड़े हो ? वह कहता है मैं जानता हूँ पर मानी बहुत ऊपर आ चुका है, सेम असाध्य बन गया है। बीमारी अब दूर नहीं हो सकती। चाहे चित्त से बीत्सम बाणी की दवा ग्रहण कर लो, पर सेम असाध्य है। दूसरे सब्दों में कहें अभव्य जीव दवा लेता है, पथ्य-पालन

करता है, दूसरों को भी करवाता है पर स्वयं का सेग असाध्य है। 'अभियोग्या' ऐसा परिणाम है, पर्याप्त है, जिसे छोड़ ही नहीं सकता। असः मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति उसी की होगी, जो सेग को जानता है और दबाई भी लेता है व पथ्यपालन भी करता है। शक्ति व भक्ति को जोड़ना होगा। ज्ञान और चारित्रा का योग हो, दबा और पथ्य का मार्ग एक बने तो 'आत्मसमी' अवस्था प्राप्त होगी और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश होगा। ऐसा व्यक्ति ही अध्यात्म की पूर्णता की ओर अप्रसर होगा। ऐसा होने पर ही हम स्वयं श्रेष्ठसनाथ भगवान की संज्ञा प्राप्त कर सकेंगे। आज व्यक्ति भटकाव में है, क्योंकि वह अधिकांशतः शक्ति पथ पर चलता है, भक्ति का पुट उसके साथ जोड़ा नहीं। वह सिर्फ जानने तक सीमित रहता है, मानता नहीं है। जैन कुल में जन्म लिया, सामायिक, मात्ता फेरना आदि की महिला धर्म गुरु से सुनते रहे, पर जैन कुल का गौरव कितना समझा? लोकमत से भयभीत होकर सामायिक कर लेना, यह तो हुआ जानना, पर सोचें कि आत्मस्वरूप को भी जाना क्या? पौष्टि, उपवास को जाना नहीं पर मानकर उन्हें कर रहे हो। श्रद्धा की दृष्टि से ये लाभप्रद है। बीमारी आगे न बढ़ पाये यह अच्छी बात है, पर उसे दूर करने में एकान्त रूप से सक्षम न बनें, दबा और पथ्य का समन्वय न करें तो क्या उद्देश्य पूरा होगा? पथ्य है सामायिक और वह होती है अत्मा से। पोशाक से द्रव्य सामायिक है, पर भाव सामायिक है प्रत्येक आत्मा को आत्मवत् मानना, चाहे वह त्रास हो या स्थावर। प्रत्येक आत्मा के प्रति करुणा भाव निर्झरित हो, समभाव का व्यवहार हो तब वह होती है भाव सामायिक। द्रव्य सामायिक भाव को साधने के लिए है। पूरे दिन ऐसे भाव न रहें तो कम से कम 48 मिनट तो उन भावों का ज्ञानव हो। यदि वह भाव ग्रहण कर लिया गया तो फिर 24 घंटों में वह रंग उड़ नहीं सकता। विचार निरन्तर बने रहेंगे। 48 मिनट की सामायिक पूरे दिन एवं जीवनभर को प्रभावी बनाये रखेगी। तब सामायिक का ज्ञान होगा। साथ ही पथ्य को भी जानकर अमल में लाते रहें तो वह अत्मा को अध्यात्म की दिशा में बढ़ाने वाला हो सकता है। शक्ति का उपासक तलवार को ही चाहता है। शक्ति सदा युद्ध शेत्र में अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करना चाहती है। चाहे वह युद्ध तलवारों का हो, विचारों का हो या वचनों का हो। शक्ति प्रतिस्पर्धा करती है। कौन किसे मिसाये, किसे पछाड़ कर स्वयं अगे बढ़े, यह है शक्ति का कार्य। परन्तु व्यक्ति सांत अवस्था में पहुँचे तब ही उसमें विचार प्रादुर्भूत होते हैं। हम जानते हैं कि जहाँ समर्पया है वहाँ समाधन भी है। बीमारी असाध्य है, भले दूसरे न हो फिर भी व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं छोड़ता। क्योंकि वह यह नहीं चाहता कि असाध्य सेग बढ़कर समय से मूर्ख ही जीवन समाप्त कर दे। शक्ति तोड़ने का काम करती है और भक्ति जोड़ने का। दोनों का समन्वय कर लें तो व्यक्ति कर्मों से अलग हो सकता है। परन्तु वह ऐसा करे कैसे? अध्यात्म के धर्मतल पर सभ अध्यवसायों से जितने भी तीक्ष्ण रस हैं, उनका धात करके रिति धात करके वह मुण श्रेणी प्राप्त कर सकता है। जितने कर्मों को जिस क्षण अलग करेगा, उतने अंशों में भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। भक्ति का यह पुट जुड़कर उसे अध्यात्म की दिशा में परमात्मा की ओर बढ़ायेगा। हमें कण कण जोड़ना है। एक भाई ने प्रश्न किया कि धर्म जोड़ता है या तोड़ता है? मैंने कहा धर्म तोड़ता भी है। वह विचार करने लगा। अज तक सुना है धर्म जोड़ता है, परन्तु यह भी सत्य है कि जितने भी वैभाविक भाव हैं समघेष हैं, धर्म उन्हें तोड़ता है, अलग करता है और आत्मा को स्वभाव से, ज्ञान से, भक्ति से जोड़ता है। ये दोनों काम धर्म करता है। जीवन को आवाद करने में, जोड़ने में भक्ति काम आती है। तोड़ने में, मिसाने में शक्ति। बुल्डोजर मिसाने बाले हो सकते हैं। सिर्फ मजदूर मकान नहीं बना सकते, बनाये भी तो हो सकता है कि वह गिर जाये। मकान बनाने के लिए मजदूरों के साथ समझदार करीगर भी चाहिये। मजदूर सोचे करीगर की क्या जरूरत? वह तो केवल गास लगाकर पत्थर जोड़ेगा और बैठा रहेगा। काम तो हमें करना होगा। इसलिए अच्छा है कि हम मजदूर ही मकान बना लें। पर ऐसे मकान की बुनियाद मजबूत नहीं होगी। बुनियाद केवल रेत की बना तो भी वह मकान ठोका ही बसे तो वह भी उन्हें विद्युत देता है। सूर्योदय तब होगा जब दोनों मार्गों का समन्वय होगा और तब ही आत्मा अध्यात्म की पूर्णता को प्राप्त कर पायेगी।

निज स्वरूप को साधने का मार्ग

सक्रियता चेतना का प्रमुख लक्षण है और चेतन सक्रिय रहता है। निरन्तर क्रिया करता है, पर वह स्वयं के लिए कौनसी क्रिया करता है और कौनसी क्रिया चार गति को साधने के लिए करता है, इसका ज्ञान भी आवश्यक है। जब तक इनका अन्तर ज्ञात नहीं अथवा बोध नहीं, वह अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पायेगा। कहा भी गया है-

निज स्वरूप ते किरिया साधे, तेने अध्यात्म कहिये रे।
जो क्रिया निज स्वरूप को साधे, उसका ही महत्व है। इस दृष्टि से युक्ति और मुक्ति इन दो शब्दों के भाव समझ लें। एक व्यक्ति युक्ति के बल पर बढ़ता है और एक मुक्ति की दिशा में बढ़ता है। युक्ति का तात्पर्य है- तर्क। तर्क पर चलना बुरी बात नहीं है। जिज्ञासा हो तो तर्क होना चाहिये, पर जो मुक्ति को छोड़ युक्ति में पड़े, वह तर्क कारगर नहीं हो सकता। तर्क आत्मसाधना में सहयोगी नहीं है। तर्क करते-करते हम इतने विभ्रम में पड़ जाते हैं कि मूल से दूर हो जाते हैं। व्यक्ति परछाई के पीछे दौड़ता है और छाया को ही सबकुछ मानकर मूल को भूल जाता है। व्यापारी वर्ग कभी कहता है- मूल से व्याज प्यारा होता है, पर मूल नहीं तो व्याज कहाँ से आयेगा ? ऐसे चिन्तन के कारण कभी-कभी व्याज के पीछे वह मूल को भी खो देता है। यथार्थ को तर्क नकार सकता है, जबकि यदि यथार्थ को जानना-मानना है तो तर्क की आवश्यकता हो सकती है। ऐसी आवश्यकता होनी चाहिये पूरक। उसे घातक नहीं होना चाहिये।

मुक्ति का मार्ग क्या है ? श्रेयांस भगवान की प्रार्थना में अध्यात्म की पूर्णता या निज स्वरूप की प्राप्ति को मुक्ति कहा गया है। विचारणीय यह है कि अपने स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो ? एक महात्मा घुमकड़ थे। घूमते हुए एक स्थान पर पहुँचे। संध्या का समय था, गाँव दूर था। गाँव के बाहर एक छोटा-सा मकान दिखाई दिया। महात्मा ने सोचा- रात्रि बितानी ही है, क्यों न यहीं विश्राम कर लूँ। महात्मा ने मकान मालिक से पूछा- रात बितानी है, जगह मिल सकती है ? गाँव के लोग स्वाभाविक रूप से अतिथि सत्कार में तत्पर रहते हैं। महात्मा को देखकर मकान मालिक कहने लगा- विश्राम करें, घर पवित्रा होगा। वैसे भी आगमों में उस गाँव, नगर, पुर, पाटन को धन्य कहा गया है, जहाँ तीर्थकरों का अथवा भव्यात्मा अणगारों का विचरण-विराजना होता है। वह व्यक्ति भले ही आगमिक परिभाषा न जानता हो पर स्वाभाविक रूप से अतिथि सत्कार की भावना से उसने महात्मा के अनुरूप स्थान उन्हें दिया। महात्मा ने घर की हालत देखी तो दुःखी हुए। जब वे जाने लगे तो किसान से कहा- तुम यहाँ कहाँ पड़े हो? मैंने ऐसी जगह देखी है, जहाँ रत्न ही रत्न हैं। वहाँ से एक-दो रत्न ले लिया जाये तो जीवन में इतना परिवर्तन होगा कि ऐसे मकान में निवास करना पसन्द ही नहीं करोगे। स्वाभाविक ही है कि यदि छाया मिल जाये तो मूल की कैसी भी स्थिति हो व्यक्ति छाया को ही ग्रहण करता है। पैसा आया कि सोचने लगता है अब तो मकान बनाना है, इस छोटे से घर में कैसे गुजारा हो ! इतने समय गुजारा हुआ या नहीं ? पर जैसे ही पॉकेट गरम हुई कि चिंतन बदल गया। इस लक्ष्मी के पैर चंचल होते हैं, उड़ती हुई जाती है। जैसे मारवाड़ में देखेंगे कि अभी तक तो कुछ नहीं था, थोड़ी देर में आंधी आई और रेत बरसाने लगी। सब तरफ रेत ही रेत हो गई। वह भी चंचलता है। आंधी कब आती है और कब उड़ जाती है, पता ही नहीं चलता। जैसे कपूर की टिकिया कब उड़ जाती है पता ही नहीं लगता। लक्ष्मी को किसी ने बांधकर रखा है क्या ? कवि आनन्दघनजी कह गये हैं- चरण कमल कमला बसे रे.....। भागवत और वैदिक साहित्य में बताया गया है कि शेषनाग पर विष्णु भगवान सोये हुए हैं और लक्ष्मी उनके पैर चाँप रही है। परमात्मा के चरणों में लक्ष्मी का वास है। यदि हम परमात्मा को हिये में बिठा लें तो लक्ष्मी का वास भी वहाँ हो जायेगा। लक्ष्मी दूर नहीं रहेगी। लेकिन लोग परमात्मा को पाना नहीं चाहते, चाहते हैं- लक्ष्मी को। लक्ष्मी दौड़ती आती है, थोड़ी देर मनोरंजन कराके उड़ जाती है। इसलिए कहते हैं- सत मत छोड़ो हो नरां, लक्ष्मी चौगुनी होय।

सुख दुःख रेखा कर्म की, टाली टले न कोय॥
सत् अर्थात् सत्य को मत छोड़ो। सत्य को छोड़ो तो लक्ष्मी नहीं आयेगी। सत्य को नहीं छोड़ा, खूंटा पकड़ लिया तो वह उसके इर्द-गिर्द घूमेगी, जायेगी नहीं। सुख-दुःख रेखा कर्म की- यदि सोचें- इतने समय तक धर्म को पकड़ा पर अभी तक काम नहीं आया, यदि सत्य को छोड़ दिया तो छाया भी लुप्त हो जायेगी और तुम देखते रह जाओगे। महात्मा ने उस पटेल को बताया कि गोलकुंडा की धरती पर रत्न हैं। पटेल ने सोचा- जाऊँ, ले आऊँ। जाऊँ पर मार्ग के लिए साधन तो चाहिये। उसके पास एक छोटा-सा खेत था, उसने वह खेत बेच दिया और इस प्रकार जो पैसे इकट्ठे हुए वह लेकर चल पड़ा रत्न की खोज में। सोचा- महात्मा ने वह धरती देखी है तो वे जिस डगर से आये थे, उसी पर बढ़ता चलूँ, कहीं न कहीं तो वह धरती मिलेगी। वह बहुत समय तक घूमता रहा। खेत बेचकर जो रकम प्राप्त हुई थी वह भी खत्म होने लगी। बढ़ोतरी नहीं हो और निरन्तर पानी निकलता रहे तो टंकी का पानी भी समाप्त हो जाता है। समुद्र तो खाली नहीं होता, पर टंकी तो खाली होगी ही क्योंकि उसमें और पानी आने का स्रोत नहीं होता। समुद्र में तो पानी आने के स्रोत होते हैं। ताप से उड़े भी तो समुद्र चिन्तित नहीं होता। इतना उड़ गया तो क्या ? अनेक हैं। खर्च भी हो रहा है तो चिन्ता नहीं। पर यदि

आमदनी का स्रोत नहीं हो और खर्च होता रहे तो चिन्ता होती है। पटेल को भी चिन्ता होने लगी। वर्ष बीत गए, चारों ओर घूमा लेकिन वह धरती ध्यान में नहीं आई। मन उदास हो गया, क्या करूँ ? मन में सोचा- जब निकला था तब जानता नहीं था कि रत्न किसे कहते हैं, कैसे होते हैं ? महात्मा ने जो कुछ कहा उस पर विश्वास कर मैं सहज भाव से निकल आया। रत्न कैसे होते हैं देखूँ तो सही। रत्न को जाने बिना मैं उस धरती को

पहचानूँगा

कैसे

?

आप जानते हैं कि रत्न कीमती होते हैं। वैसे देखो तो कोई कीमत नहीं है। कीमत तो मनुष्य ने पैदा कर दी है। मनुष्य नहीं तो रत्न की क्या कीमत ? मनुष्य नहीं तो रत्न ठोकरें खायेंगे। पशु के लिए तो पत्थर-रत्न सब बराबर ही हैं। मनुष्य ने कीमत कर दी, एक को माथे पर चढ़ा लिया। दूसरे को पैरों में डाल दिया। यह मनुष्य की करामात है। करामात कहें या खुराफात है। उसने गुणवत्ता की बात कह दी- यह वैदुर्य है, यह नीलम है, यह चिन्तामणि, यह अन्य कोई। शास्त्रों में कई मणियों के नाम हैं। आज भी अनेक प्रकार उपलब्ध हैं। एक-एक रत्न लाखों की कीमत का होता है। वह किसान जिसने रत्न जाना ही नहीं था उसके सामने पत्थर हो या रत्न, दोनों समान ही थे। घूम-घूमकर उसने कई जौहरियों से रत्नों ही पहचान की। काफी घूम लिया था, खर्च खूट गया था, अतः निराश होकर घर लौटा। घर आते ही उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, उसे आँखों पर विश्वास नहीं हुआ, ये क्या तमाशा है। मैं कहाँ भटकता रहा। पर मेरे घर में ही रत्न हैं। घर में उसका बालक एक पत्थर से खेल रहा था। अब तक उसकी कोई कीमत नहीं थी। अब जब पहचाना तो कीमत हो गई। अब पश्चात्ताप करने लगा- ये पत्थर तो मेरे खेत के थे, जिन्हें मैंने बेच दिया। थोड़े से पैसों में खेत बेच दिया। इतिहास बता रहा है कि नदी के पास का खेत रत्नों की खान था। हैदराबाद के निजाम ने गोलकुण्डा से रत्न निकाले। गरीब पहचान नहीं पाये, बेच दिये। घटना चाहे जिस रूप में हो, पर सत्य यह है कि जब तक पहचान नहीं होती, हम बाहर दौड़ते रहते हैं। हम नहीं सोचते हैं कि दौड़ का अन्त कहाँ होगा ? दो क्षण भी सोचने को अवकाश नहीं कि यात्रा में कहाँ जाना है, यही बैठे रहना है क्या ?

अरे सोच जरा इंसान, कठा सूँ आयो है तूँ आयो है,
अठे रहणो है दिन चार, अठा सूँ जाणो है थने जाणो है।

किसको जाना है, किसको रुकना है, यह भी किसे ज्ञात है ? निश्चित रूप से संतों को जाना होता है, उन्हें विहार करना ही होता है परन्तु सोचें कि क्या आपको सदा उस मकान में रहना है, जिसमें आप आज रह रहे हैं ? तथ्य तो यह है कि जिस मकान में आज आप रहते हैं, वहाँ पहले कोई और रहता था, जो अब नहीं है। बंगले बनाने वाले चले गये, उनकी छाया पड़ी है। वे प्रस्थान कर गये। संत-फकीरों ने तो इस दुनिया को ही सराय कह दिया है। इस संबंध में एक दृष्टांत भी हैं- एक फकीर ने किसी राजा के महल में जाकर डेरा डाल दिया। कर्मचारियों ने उसे बहुत समझाया कि वह किसी सराय में चला जाये परन्तु वह न हटने की जिद पर अड़ा रहा। बात राजा तक पहुँची। राजा ने सोचा कि देखें क्या मामला है। वह फकीर के पास पहुँचा और किसी सराय में उसके लिये व्यवस्था करने का आश्वासन उसे देने लगा। पर फकीर अपनी जिद पर अड़ा हुआ था- “यह भी तो सराय है।” जब राजा ने पूछा कि मेरा यह महल सराय कैसे हुआ, तो फकीर ने कहा- “महाराज, आप तो आज रह रहे हो, आप से पहले यहाँ कौन लोग रहते थे और आपके बाद कौन लोग रहेंगे ?” राजा को क्रोध तो बहुत आया परन्तु अवसर देखकर वह शान्त रहा और उत्तर दिया- “मुझसे पहले इसमें मेरे पिताजी थे, उनसे पूर्व उनके पिताजी, मेरे पूर्व पिता-पितामहों की यह श्रृंखला काफी लम्बी है और मेरे बाद मेरे पुत्रा और पौत्रा-प्रपौत्रा आदि रहेंगे।” फकीर ने तुरन्त कहा- महाराज जिस मकान में रहने वाले आते-जाते रहते हों, कोई स्थायी रूप से न रहता हो, वह सराय ही तो हुआ, उसे किसी एक का आवास कैसे माना जाये ? दृष्टांत अपनी जगह पर है परन्तु यह जान लें कि मकान अलग होता है, रहने वाला अलग। आप मकान की सार-संभाल करते हैं, करनी भी चाहिए। सार संभाल नहीं करेंगे तो वह ढह जायेगा। यह ठीक नहीं होगा। जब तक रहते हो सार-संभाल होनी चाहिए ताकि रहने वाला सुरक्षित रहे, पर ये भेद-ज्ञान रहे कि मैं भिन्न हूँ, वह भिन्न है। फिर जो क्रिया होगी, वह होगी निज स्वरूप को साधने वाली।

निज स्वरूप जे क्रिया साधे, तेहने अध्यात्म कहिए रे।

अनादिकाल से प्राणी क्रिया कर रहा है, पर किनारा नहीं मिला। जब कुछ बोध हुआ, आँख खुली तो देखा अब तक अंधकार में था, आँखें देख नहीं पाई। अब प्रकाश को देखा है तो वह अवस्था नहीं रहेगी। वह प्रकाश को चाहता है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ देखा जा सकता है। वह प्रकाश को छोड़ना नहीं चाहता। आप कहेंगे हम तो बाहर बहुत प्रकाश देख रहे हैं, पर वास्तव में वह प्रकाश नहीं अंधेरा है। जिसे देखना है, उसे नहीं देख रहे हो।

भगवान	ने	बात	कही	है-
'जे अज्जस्थं जाणइ'	से	बहिया जाणइ'		(आचारांग-सूत्रा)
जो अध्यात्म को देखता है, वह बाहर भी देखता है। मैं युक्ति और मुक्ति की बात कह रहा था। बाहर की चीजों में आप युक्ति लगायेंगे, पर भीतर का प्रकाश बाहर के पदार्थ से मुक्ति बिना नहीं मिलेगा। भीतर का प्रकाश प्राप्त नहीं तो वह बाहर का प्रकाश छोड़ नहीं पायेगा। क्योंकि आधार क्या हैं? भीतर के प्रकाश का आधार मिल गया तो आप बाहर के आधार को छोड़ देंगे। जो आत्मा को जानता है वह बाहर को जानता है, उसके लिये कहीं भ्रांति नहीं है। परन्तु क्या जो बाहर को जानता है वह आत्मा को भी जानते हैं? जानना कैसा? बाहर को पूर्ण रूप से जानना। पर यह भी संभव कहाँ है? दूर की बात तो छोड़ों, क्या आप शरीर को भी पूरा जानते हैं? आप सोचेंगे शरीर से क्या लेना-देना, यह तो छाया है इसकी क्यों चिन्ता करें। चलो छाया का ज्ञान तो हो गया। फिर भी छाया को पकड़ते हो या नहीं? यह ज्ञान कि मूल बिना छाया नहीं। छाया है तो इसका मतलब है कहीं न कहीं मूल हैं। छाया पकड़कर मूल तक पहुँचे तो बलिहारी है। अशुचि भावना की बात आपने सुनी होगी, उसमें क्या होता है? शरीर पर चिन्तन। अहो! यह शरीर अशुचि से भरा है, उसमें से दुर्गन्ध निकलती है, इसलिए कान में ड्राया सेंट रूइ में रख लेते हो ताकि खुशबू आती रहे। भीतर कितना गटर भरा है, आंतों कितनी लम्बी चौड़ी हैं, आंतों के माध्यम से कितनी गंदगी बहती रहती हैं। जो भी सार भाग आहार पर्याप्ति तैयार करती है, वह भीतर सप्लाई हो जाता है और शेष कच्चा माल बाहर पहुँचा दिया जाता है। जैसे फैक्ट्री के समान पूरी कार्यविधि हो। कभी देखा होगा- गन्ना पीलने की मशीन से खल व रस भाग अलग-अलग हो जाता है। वैसे ही शरीर से अतिरिक्त भाग गटर से निकाल दिया जाता है। ऊपर चमड़ी				

शरीर को जानें, नहीं तो अशुचि भावना भी नहीं जान पाओगे। शरीर रचना का ज्ञान हो- कितनी संघियाँ हैं, कितने अवयव हैं, कितनी कोशिकाएँ हैं? हजारों कोशिकाएँ निर्मित होती हैं और समाप्त होती हैं। कितने सैल्स निर्मित होते हैं? जैसे टॉर्च के लिए सैल की आवश्यकता होती है, वैसे ही शरीर चलाने के लिए भी अनेक सैल्स आवश्यक होते हैं। आयुर्वेद की भाषा में कोशिका कह दें। इनका निर्माण होता है तो ही शरीर की आगे की प्रक्रियाएँ सम्पन्न होती हैं। जब आप शरीर को ही पूरा नहीं जानते तो आत्मा को जानने की बात ही कहाँ आती है? यदि शरीर को पूरा जानें तो आत्मा को भी जान सकते हैं। युक्ति को पूर्ण रूप से तभी समझ पाएंगे जब मुक्तिपथ को ध्यान में रखें। ये ध्यान रहे तो तर्क भी वहाँ पहुँच पायेगा, जहाँ मुक्ति का द्वार उद्घाटित होता है। वह जिज्ञासा-युक्त तर्क मंजिल पर पहुँचायेगा, पर केवल तर्क में ही रहे तो मूल छूट जायेगा और छाया पकड़ में आएगी नहीं। आध्यात्मिक अनुष्ठान द्रव्य रूप से है तो ये छाया है, भाव रूप से हो तब वह मूल को पकड़ने की बात बनेगी।

मूल होने पर ही छाया मिलेगी। रावण ने छाया को पकड़ा, मूल को नहीं तो छाया उसकी नहीं बनी। यदि वह राम को अतिथि बनाकर आमंत्रित करता तो साथ में सीता भी आती। सत्य है तो लक्ष्मी भी आयेगी। सत्य नहीं तो छाया को भी नहीं पकड़ पाओगे। छाया में घुल गए तो वह हाथ से निकाल जायेगी, तुम देखते रह जाओगे। सत्य को छोड़ दिया तो चापलूसों के चक्कर में पड़कर हालत विचित्रा हो जायेगी। पूज्य गुरुदेव एक उदाहरण दिया करते थे- एक राजा को मांस-शाराब आदि का व्यसन हो गया। ऐशो-आराम, सुरा-सुन्दरी के चक्कर में पड़ गया। सोचिये उसकी क्या दशा होगी? धरती-धरा बदलती है। सुरा-सुन्दरी का वास और लक्ष्मी का संयोग हो तो हालत दयनीय हो जाती है। राजा की चारों ओर निन्दा होने लगी- कैसा राजा है, जनता की भलाई की बात नहीं सोचता, रात-दिन नृत्य-गान, काम-क्रीड़ा में मशगूल रहता है। बदनामी राजा के कानों में भी पहुँची। अभी थोड़ा-सा लज्जा का अंश बाकी था। दशवैकालिक सूत्रा में कहा गया है- 'लज्जा दया संजमं बंभवेर' यदि ब्रह्मचर्य चला गया, संयम चला गया, लेकिन दया है तो बचाव संभव है। दया भी चली गई और लज्जा भी नहीं रही तो परमात्मा भी नहीं बचा सकता। लज्जा है तो सारे गुण लौटाये जा सकते हैं अन्यथा कितना ही दया, संयम,

ब्रह्मचर्य का

अहो समदृष्टि जीवड़ा, करे कुटुम्ब प्रतिपाल।

अंतर्गत, न्यारो, ज्यूं धाय खिलावे बाल ॥
 पैसा नहीं पर चिपक गये, फैलाव कर दिया तो जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। राजा से धर्मगुरुओं ने यही कहा। पर एक पंडित ने कहा- राजन् आप सभा विसर्जित कर दीजिये, मैं एकान्त में बात करूँगा। आप नरक से बच सकते हैं, आप प्रतिदिन एक घंटा धर्मग्रन्थ सुनिए। इससे आपका अपयश भी नहीं होगा और नरक से भी बच जायेंगे। राजा ने कहा- मैं तो पढ़ नहीं सकता। पंडित ने कहा- मैं सुना दूँगा। लोग कहेंगे, राजा धर्मात्मा है। प्रतिदिन धर्मग्रन्थ सुनना बस, बात तय हो गई। पंडित रोज आने लगा। वह मनमाने अर्थ से राजा को रिझाने लगा। लोगों में बात फैल गई- राजा धर्मग्रन्थ सुनते हैं। पंडितजी को भी लाभ था। प्रतिदिन एक मोहर मिल जाती थी। हम जानते हैं कि छाया सत्य के साथ ही रहती है। एक दिन पंडितजी नाई के यहाँ हजामत बनवाने गये। नाई ने पूछा- धर्मग्रन्थ सुनाने के बदले मैं राजा से तुम्हें क्या मिलता है ? पंडित ने कहा- एक स्वर्ण मोहर। नाई ने कहा- मैं भी हजामत बनाने की एक मोहर लूँगा। मुझे भी इस कार्य में एक घंटे का समय लगता है। पर मैं यह मोहर किसी दिन ले लूँगा। एक दिन नाई ने राजा से कहा- यह पंडित आपसे धृणा करता है। राजा ने पूछा क्या प्रमाण है ? नाई ने कहा- वह आपके पास आता है, तब नाक पर कपड़ा बांध लेता है। विश्वास न हो तो परीक्षा कल लें। दूसरे दिन राजा ने देखा, सचमुच पंडित ने नाक पर कपड़ा बांध रखा था। राजा ने एक पर्ची काट दी। पंडितजी बाहर निकल रहे थे, इधर नाई पहुँच गया। आज की कमाई उसने मांग ली। भंडारी ने भुगतान कर दिया। दूसरे दिन पंडितजी पहुँचे। राजा को आश्चर्य हुआ, पूछा तुमने कल वेतन लिया नहीं क्या ? पंडितजी ने कहा ले लिया। भंडारी को बुलाया गया। उसने सारी बात कह सुनाई। नाई को बुलाया गया। ज्ञात हुआ, राजा ने नाक काटने की आज्ञा दी थी और वह लागू हो गई नाई पर। पंडित ने अपनी बात स्पष्ट कर दी- राजन् ! मैं धृणा से नहीं, किन्तु धर्मग्रन्थ पढ़ने के लिए नाक पर कपड़ा बांधता हूँ। राजा संतुष्ट हुआ। इस उदाहरण से समझें की चापलूस अपने मनमाने अर्थ करके भोले व्यक्तियों को कैसे ठगते हैं ? अतः सत्य को पहचानें।

हम श्रेयांसनाथ भगवान की प्रार्थना करते हैं और निज स्वरूप को साधने की भावना रखते हैं। निज स्वरूप को साधने की क्रिया ही यथार्थ में अध्यात्म है। चार गति को साधने वाली क्रिया लाभप्रद नहीं है। वह संसार से, भव-परम्परा से जोड़ेगी, अतः वह मुक्ति के लिए फलप्रद नहीं है। यह सुनहरा अवसर है, वीतराग वाणी का योग है, निज स्वरूप को साधने का प्रयत्न करें तो मुक्तिपथ पर बढ़ते हुए अविचल मंगलमय स्थान को प्राप्त कर पायेंगे।

दिनांक 26.10.96

आध्यात्मिक जीवन का स्वरूप

प्रभु महावीर ने दुःख के मूल कारण की ओर ध्यान दिया। इस हेतु उन्होंने जन-जन की दुःख विषयक वेतना का अनुभव किया और इस दिशा में खोज की। मनुष्य या प्राणी को इतने दुःख क्यों है ? उन्होंने इस संबंध में सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर दुःख के मूल कारण को ढूँढ़ निकाला और प्राणियों के हितार्थ आह्वान करते हुए कहा- यदि तू दुःख से बचना चाहता है, अपने स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है तो अपने अन्दर ज्ञांका जब तक तू बाहर ज्ञांकता रहेगा, बाहर की तेरी प्रवृत्ति रहेगी, तब तक तू दुःखी ही रहेगा। जब तक तेरी क्रियाओं की दिशा नहीं बदलेगी, दुःख नहीं छूटेगा। कवि आनन्दघनजी की प्रार्थना में भी ये ही भाव मुखरित है- निज स्वरूप ते किरिया साधे, तेहने अध्यात्म कहिए रे। अध्यात्म का स्वरूप क्या है ? 'आत्मनि वर्तते इति अध्यात्म'। अध्यात्म के भिन्न-भिन्न भेद भी किये गये हैं- नाम अध्यात्म, ठवणा अध्यात्म, द्रव्य अध्यात्म और भाव अध्यात्म। वैसे भी आध्यात्मिक बहुत प्रिय शब्द है, क्योंकि वह आत्मा के निकट का है। जैसे ही अध्यात्म शब्द आया, आत्मा आकृष्ट होगा। उसे कुछ लगाव अनुभव होगा। क्योंकि जो अपना होता है, जिसे आप अपना मानकर चलते हैं, उसके प्रति सहज लगाव होता ही है। कवि कहते हैं- तुम केवल अध्यात्म और आध्यात्मिक नाम से ही परिचित हो, तुम्हारा ज्ञान मात्रा सतही है, इसलिए अपने को ठग मत लेना। किसी पदार्थ या व्यक्ति का नाम अध्यात्म रख दिया तो क्या वह आध्यात्मिक बन जाता है ? किसी का नाम महावीर रख दिया तो नाम रखने मात्रा से तो वह महावीर नहीं हो जायेगा। बहुत से व्यक्तियों के नाम महावीर होते हैं, पर वे छोटे से चूहे से भयभीत हो जाते हैं। महावीर कौन ? जो वार्तव में महावीर हो। पर आज नाम के ही महावीर है, वैसे गुण उनमें नहीं है।

अध्यात्म का दूसरा प्रकार स्थापना अध्यात्म। अध्यात्म की तरवीर या मूर्ति बना दी, स्थापना करके नामकरण कर दिया, उससे भी काम नहीं होगा। तीसरा है- द्रव्य अध्यात्म। जो कभी अध्यात्म था पर वर्तमान में नहीं है। ये जरुरी नहीं कि आध्यात्मिक बनने के बाद कोई सदा ही आध्यात्मिक रहे। हो सकता है बना रहे, पर बना ही रहे यह भी जरुरी नहीं है। हवा के वेग से जैसे धूल उड़ती है या हवा से पानी में हिलोरें उठती हैं, वैसे ही क्रोध, भय, मद, मत्सर की आँधी से जब हिलोरें उठती है, आवेग आता है, तब अध्यात्म तिरोहित हो जाता है। जिस क्षण वासना आती है, वहाँ उस क्षण अध्यात्म नहीं रह सकता। एक छोटा-सा आख्यान है- कहा जाता है- बैकृष्ण में श्रीकृष्ण एक दिन भोजन कर रहे थे। रुक्मिणी भाजन परोस रही थी। अचानक कृष्ण भोजन करते-करते उठे और तीव्र गति से भागने लगे। रुक्मिणी ने पूछा- “कहाँ जा रहे हैं ? क्या बात है ? भाग क्यों रहे हैं ? भोजन में कोई ऊँची-नीची चीज आ गई क्या ? बात तो बताओ।” कृष्ण भागकर दरवाजे तक गये, ठहरे, लौट गये क्या कारण है ? उससे रहा नहीं गया- पूछ लिया- आप क्यों भागे ? कृष्ण ने कहा- रुक्मिणी ! मेरा एक भक्त तानपुरे पर एक गीत गा रहा था उससे मैं बहुत मशगूल हो गया था। जिस गली से वह निकलता सुरीले राग से मस्त होकर गाने लगता। कई बच्चों ने उस पर कंकर-पत्थर फेंके, कईयों ने उसे चोट पहुँचाई। जगह-जगह से उसका शरीर लहूलुहान हो गया। मेरा ध्यान गया तो मैं बचाने के लिए भागा- मेरी भक्ति कर रहा है, उसकी ये दशा हो रही है, उसे बचा लूँ। इसलिए थाली का कौर थाली में और हाथ का निवाला हाथ में रह गया और मैं भागा।” रुक्मिणी ने कहा- ये बात तो समझ में आई पर ये समझ नहीं आई कि दरवाजे तक गए फिर रुक गये। कृष्ण मुस्कुराये, कहने लगे- अब जरूरत नहीं रही। रुक्मिणी ने पूछा- क्या वह मर गया ? नहीं ! मरा नहीं, जीवित है। उस समय तक वह भक्ति में लीन था, पर जब मैं दरवाजे तक पहुँचा, तब तक उसने हाथ में पत्थर उठा लिया था और प्रतिकार हेतु तत्पर हो गया था। जब वह स्वयं प्रतिकार हेतु तैयारी कर चुका था तो मेरी जरूरत ही नहीं रही। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि जरुरी नहीं कि व्यक्ति हर समय आध्यात्मिक रहे। बहुत समय तक परमात्मा की भक्ति में लीन रहे, पर हो सकता है बाद में भक्त भटक जाये। द्रव्य अध्यात्म यही है कि जो पहले अध्यात्म में रमण कर रहा हो वह आवेग में आकर उसे छोड़ दे अथवा जो आध्यात्मिक जीवन वह जीने वाला था उसमें अब आत्मा का निवास नहीं रहा हो, केवल काया रह जाये। एक तीसरा अर्थ और यह है कि अभी वर्तमान में तो कषाय के आवेग में नहीं है, पर उसका अध्यात्म की ओर भी लक्ष्य नहीं है, वह अध्यात्मक से ओत-प्रोत नहीं है, उससे जुड़ा नहीं है। भाव नहीं है, उपयोग का संबंध जुड़ा नहीं है। जैसे लाईट फिटिंग हो गई पर मैंने स्विच बन्द हो तो लाईन में विद्युत् धारा प्रवाहित नहीं होगी। अभी प्रवाह नहीं है पर चालू हो सकता है। रुकावट नहीं है, फ्यूज नहीं है, पर कनेक्शन नहीं है। जुड़े नहीं, तब तक उपयोग रहित अवस्था द्रव्य अध्यात्म की अवस्था है।

नाम अध्यात्म, ठवण अध्यात्म, द्रव्य अध्यात्म छंडो रे.....। ये अवस्थाएँ त्याज्य हैं। निज स्वरूप को पाना है तो पहले अध्यात्म को बारीकी से जानें, नहीं तो ठगे जायेंगे। आज ठगाई की दुनिया में कोई अनेक प्रकार के तप, नियम, आसन आदि का प्रयोग करता है, पर इतने मात्रा से वह अध्यात्म नहीं होगा। मान लीजिये, किसी ने साधु-पोशाक धारण कर ली तो इतने मात्रा से वहाँ आध्यात्मिकता नहीं आ जायेगी। हाँ द्रव्य से हो सकता है, पर जरुरी नहीं भाव में भी आ जाये। प्रभु महावीर ने ऐसे साधकों के स्वरूप को भी स्पष्ट किया है-

विरंपि से मुण्डरुई भवित्ता,	अथिरव्वए तव नियमेहि भट्ठो।
चिरंपि अप्पाण किलेसइत्ता, न पारए होइ हु संपराए।।	

उत्तराध्ययन

सूत्रा 20/41

जो लम्बे समय से मुंडित है। संपराय का अर्थ दो प्रकार का है- जिसे कारण-कार्य कह दूँ। पहला अर्थ- कषाय। साम्परायिकी क्रिया वह कषाय है, तब तक आत्मा संसार से छूट नहीं सकती। इसलिए प्रभु कह रहे हैं- चिरकाल से जो मुंडित है, जिसने साधु जीवन धारण कर रखा है। ‘मुंड’ का अर्थ साधु जीवन क्यों ? साधु के लिए दस मुंड आवश्यक हैं। 4 कषाय, 5 इन्द्रिय व एक सिर का मुंडन। आज मर्तक मुंडाने की तो तैयारी है पर कषाय का, इन्द्रिय का मुंड नहीं बन पाता है। वर्षों तक साधना भी कर ली जाये लेकिन जब तक अध्यात्म आत्मा के भीतर विद्यमान नहीं, भीतरी व्यवहार में नहीं, तब तक अध्यात्म में प्रवेश नहीं होगा। पहले पाँच इन्द्रियों का मुंडन करें। इन्द्रियों के जो विषय सामने हैं, देखें कि वह उसमें कितना अनुरक्त है। यदि अनुरक्त है तो वह कषाय से भी मुक्त नहीं हो सकता। पहले यह विषयों से उदासीन हो तो ही कषाय से भी मुक्त हो सकता है। उदासीनता आ सकती है।

दीक्षित होने के अनेक कारण हो सकते हैं। कभी-कभी हम बहुत भ्रांति में जीते हैं, भ्रांतियों से सोचते हैं। व्यक्ति दुःखी हो गया, इसलिए साधु बन गया। गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी कलयुग के लक्षणों से लिखा है- नारि मुई, घर-सम्पत्ति नासी, मूँड मूँडाय भये सन्यासी। प्रभु का यह उद्देश्य करत्त नहीं कि दुःख है, समस्या है इसलिए सब छोड़-छाड़कर साधु बन जाओ। बन भी गया तो रम नहीं पायेगा। क्योंकि उसने साधु जीवन समझा ही नहीं है। वह तो परिस्थिति से बचना चाहता है, स्वयं को बचाना चाहता है। ऐसी स्थिति में अध्यात्म का पूर्ण स्वरूप विकसित नहीं हो सकता और यदि साधु बन भी गया फिर वहाँ भी समस्या आई, तो रम नहीं पायेगा। साधु जीवन से भी भागेगा, क्योंकि साधु जीवन का शुद्ध स्वरूप उसने जाना ही नहीं था। एक करोड़पति परिवार में एकमात्रा संतान पुत्रा था। वह प्रकृति से बहुत तेज था। उसकी किसी के साथ पटरी नहीं बैठती थी। घर में कुछ झगड़ा होता या और कुछ होता तो वह कहता- मैं साधु बन जाऊँगा। माता-पिता भयभीत हो जाते। अकेली संतान, कहीं साधु बन जाये। एक दिन वह गुरुसे में घर से निकल पड़ा। माता-पिता हैरान हो गये। महात्मा के पास पहुँचे- “महात्मन्” ! हमारा पुत्रा गुरुसे से घर से निकल गया है, यदि यहाँ आ जाये तो साधु मत बनाना। महात्मा ने कहा- फिक्र मत करो, मुझे नहीं लगता कि वह साधु बनेगा। बन भी गया तो साधना नहीं कर पायेगा। क्योंकि वह परिस्थिति से भागा है। जो भगोड़ा है वह साधु जीवन की आराधना कर पाये, यह कठिन है। एक बात और समझ लीजिये- अब वह कभी कहे कि मैं साधु बन जाऊँगा तो आप कह देना- जा, बन जा। एक बार संयोग से ऐसा प्रसंग बन गया और उससे कह दिया गया- बन जा। वह घर से निकला, सुबह से शाम तक ठोकरें खाता रहा और वापस घर लौट आया। साधु बनना सहज नहीं है। बनना जितना सरल है, साधुता पालना उतना ही कठिन है। भगवती सूत्रा में कहा गया है- यदि एक वर्ष की दीक्षा पर्याय हो जाये तो वह सर्वार्थ सिद्ध, जिसे छोटी मोक्ष कहते हैं उसके सुख को लांघकर आनंदित हो सकता है। जिपु अन्ना नाम के एक महात्मा बड़े ही अद्भुत थे। महात्मा से ज्यादा लोगों का कोई परिचय नहीं था। हालत यह थी कि कोई देखे तो कह नहीं सके कि ये महात्मा हैं, पर उनका आध्यात्मिक जीवन अनोखा था। एक व्यक्ति एक बार उधर से निकला तो देखा उनका निवास टूटे-फूटे मकान में होता था। विशेष समय वे जंगल में ही बिताते थे। गाँव-शहर में आना भी होता तो कभी-कभार भिक्षा के लिए ही। आते तो लोक घृणा करते। वे उकरड़ी पर बैठ जाते। कई बार गटर में बैठ जाते। कई बार देखा जाता कि वे मल त्याग कर रहे हैं और उसे ही अपने शरीर पर चुपड़ रहे हैं। ऐसे में कोई देख ले तो कहे पागल हैं ? वे भाव अध्यात्म में जीने वाले थे। उन्होंने अपने को दुनिया से काट लिया था कि कोई उनके बीच में विघ्न पैदा न करे। उस भाई ने देखा- एक दिन वे मल त्याग कर रहे थे और मल शरीर पर चुपड़ रहे थे। उसका लगाव हो गया। वह पहुँचा तो देखा वहाँ मल की दुर्गंध नहीं थी वरन् अनोखी सुगंध आ रही थी। एक दिन उसने देखा, जहाँ उकरड़ी पर महात्मा बैठे थे, वहाँ भयानक बदबू आ रही थी। भाई दूर खड़ा रहा। जब महात्मा उठकर आये तो देखा उनके पास से चन्दन की खुशबू आ रही थी। वंदन किया तो पैरों से सुगन्ध विकीर्ण हो रही थी। गंध तब तक आती है जब तक हमारे भीतर गंध होती है। कहा जाता है- तीर्थकर भगवान के पसीने में दुर्गन्ध नहीं आती, सुगन्ध आती है। पसीना तो पसीना है। उनके भीतर गंध नहीं तो निकलेगी कहाँ से ? उनके आस-पास खुशबू का वातावरण रहता है। कई बार व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि आचार्य भगवन् आचार्य श्री नानेश के चरण स्पर्श करते हैं तो चन्दन, केशर की गंध आती है। क्या वहाँ लेप किया गया ? लगाया हुआ छिपा रहेगा क्या ? कोई चाहे लेप लगावे पर आचार्य भगवन् ऐसी औपचारिकता नहीं चाहते। वे भ्रमणाओं में रखना नहीं चाहते। आचार्यदेव का जीवन खुली किताब था। ये आध्यात्मिक जीवन की महक है। यदि फूल में सुगंध है तो वह बाहर फैलेगी ही। जिस फूल में सुगंध नहीं है, उस पर आप ऊपर से सेंट लगा दें तो वह कितनी देर टिकेगी। ऊपर की सुगन्ध उड़ जायेगी। कवि आनंदघनजी कह रहे हैं- भाव अध्यात्म में जीने वाला कोई व्यक्ति मिल जाये तो उनके साथ स्वयं को एकमेक करने में विलम्ब नहीं करना चाहिये। स्वरूप की साधना के विषय में उपदेश देने वाले मिल जायेंगे। उपदेश किताबों में बहुत मिल जायेंगे, पर ऐसी किताबें अध्यात्म नहीं हैं। अध्यात्म का जीवन निराला होता है। परछाई चाहे पत्थर या कंकरीट की हो पर वहाँ जीवन प्रशांत नहीं रहेगा। प्रभु महावीर ने कहा है कि जो दुःखों से घबराकर उनसे बचने के लिये साधु बनता है, वह साधुत्व निभा नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति भले ही ब्रतों को स्वीकार कर ले पर वह उनका पालन नहीं कर पायेगा, आखिर वृत्ति हो जायेगा। क्योंकि वह इन्द्रिय विषयों से ऊपर नहीं उठा है। अच्छा गायन आ रहा है तो वह सुनने को उत्सुक हो जायेगा। सुन्दर दृश्य होगा तो देखने के लिये आँखें चंचल हो उठेगी। सुगंध लेने के लिए नाक तत्पर हो जायेगी। भोजन में अच्छे पदार्थ आये तो रुच कर भोजन करेगा। पदार्थ अच्छे नहीं या मान लीजिये साग में नमक न हो या कोई और कमी रह गई हो तो

मौन नहीं रहेंगे, तूफान मचा देंगे। ऐसी स्थिति साधु जीवन को जलाकर राख बना देगी। “दुर्गंधं वा सुर्गंधं वा, सब्वं भुजे ना छड़उ (दशवैकालिक सूत्रा) यह नहीं कि सुर्गंधित भोजन है तो गप्-गप् खा जाऊँ, दुर्गन्धयुक्त हो तो नहीं लेना। सब भोजन समझाव से करें लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि रस-चलित, फूलन, लार हो जाये वह भी ले लें। वैसा भोजन वर्जित है। दुर्गन्ध से तात्पर्य है कि बघार की गंध न हो। यह नहीं कि रस चलित हो या सङ्घान की गन्ध हो। यह विवेक विषय है। एक तरकारी जिसमें बहुत तीव्र गंध है, मिर्च-मसाले

से युक्त है,

प्रभु महावीर ने कहा है- आध्यात्मिक साधना है तो पुद्गल से लगाव नहीं होना चाहिए। यदि पुद्गल से लगाव हो तो आत्मा से उतना लगाव नहीं होगा। कहा भी है- निज स्वरूप जे किरिया साधे, तेहने अध्यात्म कहिये रे जो क्रिया निज स्वरूप को साधेगी वह आत्मा तक पहुँचाने वाली होगी। इसलिये कोई जरुरी नहीं कि साधु बनने पर ही व्यक्ति आत्मा तक पहुँचे। इस संदर्भ में प्रभु ने जो दो मार्ग बताये हैं, पर उनको भी समझ लेना आवश्यक है। ये दो मार्ग हैं- आगार धर्म और अणगार धर्म। यदि तुम में क्षमता है, कोई तुम्हारे आश्रित नहीं है तो अणगार धर्म की आराधना करो। अभी क्षमता नहीं जगी तो प्रभु ने यह नहीं कहा है कि और कोई मार्ग ही नहीं है। उन्होंने यथार्थ को यथार्थ के रूप में दर्शाया है। अणगार नहीं बन सकते तो आगार धर्म में भी जल-कमलवत् रहो तो अपने आप में आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास हो जायेगा। राजा जनक को विदेहराज भी कहते हैं क्योंकि वे देह में रहते हुए भी विदेही थे। इसीलिये उन्हें राजऋषि भी कहा जाता है। कभी-कभी आप भी कह देते हैं- वे साधु बने नहीं पर साधु जैसे हैं। श्रावक जब ग्यारहवीं प्रतिमा धारण करता है, तब उसे श्रमणभूत इसलिये कहते हैं क्योंकि वह भी गोचरी लाता है, लोच करता है तथा श्रमणगत् क्रिया करता है। यद्यपि उसने महावत स्वीकार नहीं किये हैं। जो श्रावक गृहस्थ अवस्था में भी ऐसी उत्कृष्ट करणी करता है उसके लिये उत्तराध्ययन-सूत्रा में कहा गया है- ऐसे श्रावक साधु से उत्कृष्ट होते हैं। इसके विपरीत जिसने साधु की पोशाक तो धारण कर ली पर उसमें रमा नहीं है, ‘विरंपि मुण्डरुई भविता’ जो समय से क्रिया कर रहा है, पर निज स्वरूप की साधना में नहीं लगा तो उसकी वह क्रिया होगी- चार गति को साधने वाली।

भगवती सूत्रा में मृतादि अणगार का उल्लेख है। वे अपने निमित्त आरंभ-समारंभ से बने आधारकर्मी आहार में मशगूल रहते थे। ऐसा साधक चतुर्गति को ही बढ़ाता है। ऐसे अनेक आख्यान आगमों में है, पर जीवन में उनसे मार्गदर्शन कितना लिया जा रहा है, यह विचारणीय है। यदि एक बात भी जीवन में उतार लें तो कर्मों का सुधार हो जाये। ननंद-भोजाई की बात मैंने कही थी- यदि ननंद सोच ले कि मुझे भी तो भाभी बनना है तो क्या वह तूफान मचा पायेगी ? ननंद जैसी ही मानसिकता हमारी भी है। सोचना यह है कि भीतर के तूफान से हम कितना लड़ पाते हैं। हमारे भीतर ननंद की मानसिकता भी विराजमान है और भाभी का स्वरूप भी। यह अनेकान्त का स्वरूप है। ऐसे विविध रूपों का समन्वय हो जाये तो आध्यात्मिक जीवन की दिशा में गति हो सकती है। वहाँ सांसारिकता की दुर्गन्ध नहीं रहेगी, आध्यात्मिकता की सुर्गंध फैलने लगेगी। जहाँ सुर्गन्ध है, वहाँ भाँरे स्वयं मंडराने लगेंगे। कवि आनंदघनजी ने वही बात कही है, जो प्रभु महावीर ने कही है- दुःख से घबराओ मत बल्कि दुःख को समझकर उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ने की भावना रखो। लेकिन जब तक अविद्या का वास है तब तक तूफान उठेंगे, उन्हें शमित करने के भाव भी बनेंगे, पर अविद्या के स्वरूप को दूर करने के लिए जब तक भीतर से प्रेरणा नहीं मिलेगी तब तक साधु-जीवन फूलों का मार्ग नहीं बन पायेगा। बीज कड़वे हैं तो फल कड़वे होंगे। भले ही आप कड़वे फल नहीं चाहते हों पर बीज हैं तो वे पनपेंगे ही। भोजन साधु जीवन नहीं है न पोशाक अध्यात्म है, यह तो परिचय है। साधु जीवन बहुत कठिन है, जैसे पेड़ खजूर। चढ़े तो माधुर्य प्राप्त कर सकता है, किन्तु फिसल गया तो क्या अवस्था होगी ? विचार कीजिये। न इधर के रहेंगे न उधर के। कहा है- ‘आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। एक मोटी बात है- हम आध्यात्मिक जीवन की पहचान कैसे करें? श्रावकों ने आचार्य श्री श्रीलालजी म.सा. से पूछा- भगवन् ! हम इतने लम्बे-चौड़े आगम नहीं पढ़ सकते। हम कसौटी, परीक्षण कैसे करें कि कौन साधु है और कौन असाधु ? क्योंकि कहा गया है कि असाधु को साधु मानें तो मिथ्यात्व दोष लगता है। आचार्यश्री ने उत्तर

दिया-

ईर्या गुणवत्ता	भाषा साधु	एषणा, देखने,	ओलख वन्दो	जो बारम्बार ॥
-------------------	--------------	-----------------	--------------	------------------

जिसके जीवन में ईर्या समिति एवं भाषा समिति का पुट हो तथा जिसकी एषणा सही हो वही वस्तुतः साधु जीवन में रमने वाला है। 24 घंटे रहकर आप उसके जीवन व्यवहार को देख लें। मालूम पड़ जायेगा कि घड़े में कितना पानी है। कोरी मटकी में पानी भरते हैं तो किधर से पता लगायेंगे कि उसमें कितना पानी है? बाहर से ही मालूम पड़ जायेगा। जहाँ तक गीली दिख रही है, वहाँ तक भरी है- आधी भरी है या पूरी भरी है। जितना पानी बढ़े या घटे, जैसे वह पैमाना है वैसे ही साधु जीवन का भी पैमान है- ईर्या, भाषा, एषणा। क्योंकि ईर्या समिति कोई मामूली चीज नहीं है। आज हम सोच लें नीचे देखकर चलना ही ईर्या है। लेकिन सिर्फ यही उसका स्वरूप नहीं है। पाँच इन्द्रियों के विषयों तथा पाँच प्रकार के स्वाध्याय को छोड़कर उपयोगपूर्वक नीचे देखते हुए गमन करना है- ईर्या समिति। भाषा समिति के लिए कहा गया है- 'साधु सोहन्ता अमृतवाणी', मानो अमृत टपक रहा हो, एक-एक शब्द मिठास से सना हो। इतना माधुर्य कि टपकते ही कोई चाहे में ग्रहण कर लूँ। जैसे शहद की बूंद टपके तो कोई चाहे उसे अवेर लूँ। वैसी ही माधुर्य रस पूर्ण भाषा हो। एषणा समिति देखें कि वह आत्मा को ठग तो नहीं रहा है। यदि ये पैमाना सही है तो समझिए जीवन में अध्यात्म उजागर हुआ है और निज स्वरूप को साधा जा रहा है अन्यथा पोशाकें तो एक नहीं अनेक जन्मों में धारण की। किन्तु 'न पारए होइ हु संपराए' जिस नाव में बहुत से छिद्र हैं वह पार करने-कराने में सक्षम नहीं हो सकती। आपने देखा होगा चलनी को, पहले जब उससे दाल धोते हैं तो सारा पानी ऊपर आ जाता, भूसा अलग हो जाता। यदि कुंडे में चलनी तैरती है तो फिर नाव क्यों डूबेगी? चलनी भी जैसे पानी भरने पर नीचे बैठती है वैसे ही आस्रव का, पापों का पानी जीवन में भर गया तो वह चार गति में डुबायेगी। डुबाने में सहयोगी बनने वाले छिद्र हैं- ईर्ष्या, क्रोध, मान, मद, मत्सर, विषय-वासना आदि। जब तक छिद्र हैं, व्यक्ति संसार से पार नहीं हो पायेगा। चाहे वह किसी पोशाक या किसी मजहब में रहे। चाहे वह प्रभु की चरण उपासना करने वाला ही क्यों न हो। प्रभु से पूछा गया- "श्रेणिक कहाँ जायेगा?" प्रभु ने कहा- "नरक में। पूछा गया- वह तो आपका भक्त है। उत्तर मिला- भक्त होने से क्या होगा? आचार-विचार की निर्मलता और अध्यात्म का पानी होना चाहिए। इनके आधार पर ही स्वर्ग-नरक के द्वार खुलते हैं।

कवि ने प्रार्थना में कहा है-

भाव अध्यात्म निज गुण साधे तो ते शूरण मंडो रे।
 भाव अध्यात्म का ज्ञानी मिले तो उसके साथ खूब खेलो। उसकी पिचकारी के रंग में स्वयं को रंग लो। तुम्हारे जीवन में भी महक आ जायेगी। फूल तो पलास का भी होता है, पर वहाँ खुशबू नहीं मिलती। वैसे ही नाम स्थापना और द्रव्य आध्यात्म हैं। भाव की अवस्था नहीं तो वहाँ खुशबू नहीं फैल सकती। भाव अध्यात्म रम जाये तो जीवन में परिवर्तन आ जाता है- 'समो णिंदा पसंसासु' वह फिर स्तुति से प्रसन्न नहीं होता और निन्दा से नाराज नहीं होता। चाहे मान हो या अपमान, पर वह उससे मान-अपमान मानता ही नहीं। 'मान अपमान दोऊ समान गणे।' ऐसा होगा पूर्ण अध्यात्म का जीवन जीने वाला। आवेश में आने वाले हिताहित का विवेक नहीं रखता। पाँच समिति, तीन गुप्ति के प्रसंग से उत्तराध्ययन सूत्रा में कहा गया है- क्रोध के वश, मान के वश, हास्य के वश, मिथ्या अथवा अन्य किसी मनोवेग के वश मिथ्या अथवा अस्पष्ट भाषा न बोले। क्रोध के क्षणों में व्यक्ति बेबान होता है। उस समय वह आत्मा स्वभाव में नहीं होता। राग-द्वेष बंध के कारण हैं। मान का ध्यान रखकर बोलेंगे तो आत्मा में निष्ठुरता आ जायेगी और संवेदनशीलता समाप्त हो जायेगी। ऐसी स्थिति आत्म-पतन का कारण बनेगी। गर्व में कभी-कभी व्यक्ति सोचता है कि वह स्पष्टवक्ता है परन्तु स्पष्टवक्ता वही हो सकता है, जो दूसरों की स्पष्ट बात सुनने की क्षमता भी रखता हो। जब स्वयं स्पष्ट बात कहने का दंभ रखते हो तो सामने वाले की स्पष्ट बात सुनने की क्षमता भी रखो। परन्तु जिसके अंतर में माया-छल, दांव-पेच हो वह न स्पष्टवक्ता हो सकता है, न विवेकशील श्रोता। जिस अविद्या की बात मैं कह रहा हूँ वह अनेक रूपों में अपना प्रभाव दिखाती है। वह स्वयं छिपी रहती है, परन्तु फल अवश्य देती है। अतः उसके मूल को जानकर उसे समूल नष्ट कर दिया जाये तो फिर जीवन में दुःख-द्वंद्व का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसे आध्यात्मिक जीवन के हम अभ्यासी बनें। ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आत्मा में भावों को बढ़ाने की कोशिश करें क्योंकि यदि भाव अध्यात्म का थोड़ा-सा अंश भी उजागर हो गया तो आनंद का ऐसा स्रोत प्रवाहित होने लगेगा जो कभी सूखेगा नहीं। ऐसे प्रवाह में स्नान हो तो आत्मा अनन्त शीतलता एवं शांति का अनुभव करेगी।

दि. 27.10.96

स्वस्थ जीवन का रहस्य

देवाधिदेव चरम तीर्थेश प्रभु महावीर वीतरागता से ओत-प्रोत अवतिष्ठ हैं। गणधर गौतम स्वामी प्रभु महावीर के समीप पहुँचते हैं और प्रभु को बंदन करते हैं। गुरु के निकट पहुँचकर बंदना करने का तात्पर्य ही यह है कि आप गुरु से कुछ चाह रहे हैं। जिस ओर से लेना होता है उस ओर बर्तन को नमाना पड़ता है। गुरु से लेना है, इसलिए गुरु को पहले नमन किया, फिर प्रश्न किया- “भगवन् ! स्वरथ रहने का उपाय क्या है ? प्रश्न लोकहित का है, क्योंकि बीमारी को कोई किसलिए चाहेगा ? बीमारी कोई मौज-शौक तो है नहीं। विनोद में कभी भले कह दें कि चार दिन रेस्ट मिल जायेगा परन्तु वास्तव में क्या बीमार पड़ने का मन चाहता है ? कोई धनी हो या गरीब, बालक हो या युवा, सबकी यही चाह रहती है कि वह स्वरथ रहे। गौतम स्वामी भी पूछ रहे हैं, स्वरथ रहने का तरीका या सूत्रा। वैद्यक के ग्रंथों में भिन्न-भिन्न बीमारियों के उपचार के लिए भिन्न प्रकार के सूत्रा दिये गये हैं। गौतम स्वामी ने किसी विशेष बीमारी का नाम नहीं लिया। बीमारियाँ तो लाख प्रकार की हो सकती हैं। इसलिये गौतम स्वामी ने सोचा होगा, एक-एक के लिए पूछूँगा तो अलग-अलग नुस्खे के बदले एक नुस्खा ही मिल जाये। भगवान ने भी सटीक उत्तर दिया- “अविद्या को दूर कर दो।” आप सोच सकते हैं कि यह कैसी बात हुई, अविद्या का स्वरथ रहने से क्या लेना देना ? परन्तु बात बहुत गंभीर और अर्थपूर्ण है। इसे अविद्या के संदर्भ में ही समझना होगा। तो समझें ‘अइयं पडिक्कमामि पडिपुण्णं संवरेमि, अणागयं पच्चक्खामि’ अविद्या को जड़मूल से दूर करना है तो पहले ‘अइयं पडिक्कमामि’ अतीत का प्रतिक्रमण करें। आप प्रतिक्रमण किसका करते हैं ? किसी विषय में जो दोष लगा हो तो- (अतीत, वर्तमान, भविष्य) मिच्छामि दुक्कड़। आपने प्रत्याख्यान तो अभी किये हैं, उसमें कौन-सा दोष लगा ? अभी तो पचक्खाण किये हैं, कुछ क्षण ही निकले हैं। गहराई से समझना होगा कि शृंखला कैसे जुड़ी। प्रभु ने यह स्वरथ रहने का सूत्रा बता दिया। सबसे पहले अतीत का प्रतिक्रमण करना है। बीमारी में मूल कारण है- पेट ! पेट खराब है तो बीमारी पैदा होगी। कहा भी है- पेट नरम, पैर गरम और मस्तक ठंडा, उसके बाद भी वैद्य आये तो मारो डंडा। ये स्वरथता के लक्षण हैं, पर आज स्थिति विपरीत है। पैर ठंडे होते हैं और मस्तक गर्म। इसीलिये बीमारी पनपती है। पेट कड़ा है तो स्वरथता नहीं रहेगी। स्वरथ रहना है तो पहले पेट की चिन्ता करो, क्योंकि वहाँ ही स्वारथ्य या रोग का उद्गम है। यदि उसे कचरा-पेटी की तरह नहीं भरा तो वह स्वरथ रहेगा और आप सहसा बीमार नहीं पड़ेंगे। वैद्य स्वारथ्य के लिए सबसे पहले विरेचन किया कराता है ताकि दस्त लगने से पेट साफ हो जाये। यदि ऊपर कुछ रह गया तो उसे वमन द्वारा साफ करा देगा। स्वदेन प्रक्रिया भी की जाती है। इन तीनों प्रक्रियाओं से पूर्व संचित् मल का निष्कासन किया जाता है। वमन, विरेचन के लिए औषधि दी जाती है ताकि मल निकल जाये। पर मौस व चर्बी में भी जो मल संचित् है उसके लिए स्वेदन किया है। शरीर की मालिश करके धूप में बैठें फिर गरम व ठंडे पानी से शरीर को साफ करें ताकि चमड़ी व मांस के वैकारिक तत्त्व स्वेदन से बाहर आ जायें, फिर जो शरीर की अवस्था होगी वह स्वारथ्य की होगी। मैं अतीत प्रतिक्रमण की बात कह रहा हूँ। शारीरिक ढाँचा जो प्रतिदिन उपयोग में आता है, उसके लिए वमन, विरेचन, स्वेदन की बात कही गई है। उसके बाद कहा गया- ‘पडिपुण्णं संवरेमि’ वर्तमान का संवर। फिर वे पदार्थ ग्रहण हो जो पेट की मशीन की क्षमता के अनुरूप हों। यदि एक ट्रक में उसकी क्षमता से डेढ़ा-दुगना माल भर दिया गया तो मशीन ठप्प हो जायेगी। कुछ दिन भले चल जाये, पर जल्दी ही खराब हो जायेगी। वैसे ही भीतर के जो यंत्रा हैं- लीवर, किडनी, हृदय आदि थे जितना कार्य कर सकते हैं तदनुरूप ही आहर-ग्रहण हो। यदि जठरामिन मंद है और मक्खन खा लिया तो वह पचेगा नहीं। भीतर जमाव होगा। अतः वर्तमान में संयम रखा जाये। जब जान लिया ये मेरे लिये अनुकूल नहीं तो भविष्य के लिए उसका त्याग कर दें। वे पदार्थ ग्रहण न किये जायें, जिनसे अस्वरथता का सम्बन्ध जुड़ता है। यह है शरीर की दृष्टि से स्वरथता। आत्मा की दृष्टि से भी स्वरथता की बात कही गई है- स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वरथः। जो अपने आप में रहता है, वह स्वरथ है। कपि प्रार्थना की कड़ियों में कह रहे हैं- “वासुपूज्य जिन त्रिभुवन स्वामी, घननामी परनामी रे।” कौन है वासु ? किसे कहते हैं वासु ? आप कहें- 12वें तीर्थकर हैं। पर इसका दूसरा अर्थ भी संभावित है। वासु का अर्थ है पृथ्वी, आत्मा। उसके हिसाब से विचार करें तो- पृथ्वी सभी मुणि हविज्ञा। वैसी वीतरागता हो, चाहे वे 12वें तीर्थकर हो या अन्य कोई। वे पृथ्वी की तरह राग-द्वेष से रहित ‘स्वस्मिन् तिष्ठति’ अर्थात् अपने आप में रुके हो। आत्मस्वरूप में उपलब्ध होना अपने आप में ठहरना है। आप विचार करेंगे कि अपने आप में पहुँच गया तो ठहरेगा ही ? कभी-कभी साधक 11वें गुणस्थान से वापस गिरता भी है। 11वें गुणस्थान में वीतरागता है, नहीं है तो वह सर्वज्ञ नहीं है। पर वीतराग है, राग-द्वेष नहीं है। प्रश्न होगा- सर्वज्ञ एवं वीतराग क्या अलग-अलग है ? तब समझ लें वीतराग के चार भेद किये गये हैं, जो एक समान नहीं है। लेकिन संशय में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। पहली

अवस्था है- मोहकर्म के उपशम की, 11वें गुणस्थान में। दूसरी अवस्था है- मोहकर्म के क्षय की, 12वें गुणस्थान में। तीसरी अवस्था है- सयोगी सर्वज्ञ की और चौथी अवस्था है- अयोगी सर्वज्ञ की। 11वें गुणस्थान में मोहनीय का उपशम भाव है। वहाँ आत्मा का यथार्थ स्वरूप उजागर है, पर मल नष्ट नहीं हुआ है। वमन-विरेचन हो गया पर स्वेदन नहीं हुआ है। विकार आत्मा के नीचे चले गये हैं। समय आने पर पुनः प्रकट हो सकते हैं और ऐसी आत्मा संसार में भ्रमण करता रहेगा। वीतराग के चार भेद हैं, पर सर्वज्ञ के दो ही भेद हैं- सयोगी सर्वज्ञ, अयोगी सर्वज्ञ। अयोगी में योग की प्रवर्तमान अवस्था नहीं है। वीतराग उस अवस्था का धोतक है- जो 'स्वस्मिन् तिष्ठति' स्वयं में ठहरता है, वापस नहीं गिरता वह है स्वरथ। स्वरथ प्रक्रिया के लिए कहा है- अविद्या को दूर करने के साथ ही अतीत का प्रतिक्रमण हो। आत्मा को स्वरथ बनाने के लिए मार्ग है- सम्यकज्ञान, सम्यकदर्शन, सम्यक्चारित्रा। सम्यकदर्शन में प्रवेश हो गया तो समझ लो कि किसी रूप में वह स्वरथ हो गया। यद्यपि पूर्ण स्वरथ नहीं हुआ पर उस दिशा में कदम बढ़ गये। उसे बरकरार रखने के लिए है- 'पंडितुण्णं संवरेमि' परन्तु यह प्रतिक्रमण कैसे हो ? आलोएमि, निन्दामि, गरिहामि, अप्पाणं वोसिरामि। जो कुछ भीतर रहा हुआ है उसकी आलोचना करें, निन्दा आदि से वमन-विरेचन कर लें। विकारों का वमन-विरेचन हो गया फिर जो व्रत-प्रत्याख्यान स्वीकार किये जायेंगे, उनका फल भी प्राप्त होगा। चाहे वे श्रावक व्रत हों, श्रमणव्रत-महाव्रत हों। तब क्या जिसने 12 व्रत स्वीकार कर लिये वह स्वरथ हो गया ? प्रभु ने कहा- 'नहीं'। सोमिल ब्राह्मण ने पहले 12 व्रत ग्रहण किये लेकिन फिर संतों का सहयोग नहीं मिला। पासत्थों के संयोग से व्रत स्खलित हो गये। दाणंवा आदि प्रवृज्या स्वीकार कर विचरने लगा। फिर एक बार पूर्वसंगिक देव ने प्रतिबोध दिया- "12 व्रत स्वीकार करो"। एक बार तो उसने सुना-अनसुना कर दिया, दूसरी बार फिर वही प्रबोध दिया गया, पर उसे 12 व्रतों में रस नहीं आया, आनंद नहीं आया। क्योंकि वह उनमें रस नहीं पा रहा था। आपका पहल है- व्रत थूलाओं पाणाइवायाओं विरमण...। विरमण अर्थात् 'वितः रमणः यस्मात्' जिसमें रमण से निकल गया। वह अब तक प्रमाद में, हिंसा में आनंद मना रहा था। उससे विगतः अर्थात् रहित हो गया। इस प्रकार हिंसा, झूठ चोरी आदि में रमण से स्वयं को अलग कर लिया। दूसरा अर्थ रमण का होगा- 'विशेषः रमणं यस्मिन्' जिसमें विशेष रमण हो अर्थात् अहिंसा में, सत्य में रमण हो। एक ओर निवृत्ति है, दूसरी ओर प्रवृत्ति है। प्रभु ने निष्कर्मण्यता को सिद्धान्त नहीं दिया कि निठल्ले होकर बैठे रहो क्योंकि खाली दिमाग में शैतान का वास होता है। निष्कर्मण्य नहीं होना है, पर अहिंसा के आनंद में, उसके भोग के पारावर में रम गये तो शेष भोग छोटे नजर आयेंगे। कहते हैं- श्रीनाथजी को भोग लगाया जाता है तो मणोबंद सामग्री होती है। तीर्थकर के लिए कहा जाता है कि वे आनंद भोग रहे हैं। उनके तो अन्तराय कर्म का क्षय हो गया तो क्या वे इन्द्रिय सम्बन्धी भोग भोगते हैं ?

आत्म-आनंद के भोग का रस जो पी ले फिर उसे क्या दूसरा रस भायेगा ? जिसने क्षीर समुद्र में क्षीर का या इक्षुरस का पान कर लिया उसे फिर अन्य रसों में स्वाद नहीं आयेगा। परन्तु पहले वह जिसमें रमण करना चाहता है, उससे बाहर की गंदगी को पहले दूर करना पड़ेगा। कचरे की दुर्गन्ध आती रही तो रमण नहीं होगा। मान लीजिए यहीं पास में गंदगी है, बदबू आ रही है तो क्या आपका व्याख्यान में मन लगेगा? बार-बार नाक पर हाथ जायेगा। आप एकाग्रचित्त नहीं हो पायेंगे। वैसे ही भीतर यदि अज्ञान का कचरा है तो विशेष रूप से रमण क्रिया नहीं सधेगी। ऐसा कब हो पायेगा ? तब, जब अतीत का हम प्रतिक्रमण कर लेंगे। प्रभु ने इस व्रत-प्रत्याख्यान की विधि बताई है। अतीत का जो कुछ कचरा है, अब तक जिसमें रमण होता रहा है, उसे बाहर निकाल दो फिर वर्तमान का संवर करो। वर्तमान में हिंसा करते रहे तो काम नहीं सधेगा क्योंकि कचरा वापस भर जायेगा और फिर-दुर्गन्ध आने लगेगी। कचरा पुनः न भर पाये इसलिए संयम है, संवर है। कचरे का मार्ग इनकी सहायता से रोक दो, फिर भविष्य का प्रत्याख्यान करो- अर्थात् द्वार पर खूंटा लगाकर ताला जड़ दो। यह प्रतिज्ञा सूत्रा जुड़ गये तो यह विधि बन जायेगी। गये काल का प्रतिक्रमण, वर्तमान का संवर और भविष्य का प्रत्याख्यान हैं। ये ही सही विधि भी है। अतः इस रूप से व्रत-प्रत्याख्यान न करें कि ऊपर से एक-दो व्रत स्वीकार कर लिये फिर कहें कि सामायिक में मन नहीं लगता। लगेगा कहाँ से ? नीचे आग सुलग रही है तो दूध में उफान आयेगा ही। नीचे कचरा बिखरा है और ऊपर जाजम बिछा दी तो दुर्गन्ध आयेगी ही। दूध के नीचे से आँच हटा दी, जाजम के नीचे से कचरे को बाहर निकाल दिया फिर चाहे छोटी या पतली जाजम ही हो, पर असुविधा नहीं रहेगी। आँच नहीं हटाने से दूध में उफान ही आयेगा। तुम्हें आनंद में रमण करना है तो विधि को स्वीकार करो। यदि उस विधि से न चले, 'मिछामि दुक्कड़' अतीत का प्रतिक्रमण नहीं किया, भीतर गांठे रहने दी फिर बाहर से व्रत-प्रत्याख्यान कर भी लिये तो भीतर शत्रु चुभेगा ही। सही आराधना भी नहीं होगी।

सोमिल ब्राह्मण ने पूर्व के साथी देव द्वारा बार-बार प्रतिबोधित किये जाने पर पुनः 12 व्रत स्वीकार कर लिये। विधि सहित पालन भी किया कि बड़ी चोरी, हिंसा नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन प्रारम्भ में दोष लगाये थे और अंत में आलोचना किये बिना ही संथारा कर मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब भगवान से पूछा गया- “उसकी आराधना हो गई ?” तो उत्तर मिला- णो इण्टर्टें समटरे। यह अर्थ समर्थ नहीं क्योंकि अतीत का प्रतिक्रमण नहीं किया। कचरा नहीं निकाला- ‘तरस्स ठाणस्स अणालोइए’ उसकी आराधना नहीं हुई। आराधना का सही तरीका है- अझ्यं पडिक्कमामि, पडिपुण्णं संवरेमि, अणागयं पच्चक्खामि, जो कुछ हुआ है, उसको वमन-विरेचन से साफ कर लो, उसका वर्तमान में संचय मत करो। कर रहे हो तो रुको, फिर भविष्य के लिए भी प्रत्याख्यान कर लो। समकित में कहा जाता है- पिछले जन्मों के पापों की आलोचना करता हूँ, इसके साथ ही वर्तमान को सजा लो और भविष्य के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो जाओ कि अब वैसा नहीं करूँगा। यह व्रतों को स्वीकार करने की विधि है। यदि विधि के अनुरूप गति नहीं हुई हो तो उसका मिच्छामि दुक्कड़ दिया जाता है क्योंकि यदि अविधि हुई तो लाभ नहीं होगा।

अभिजित कुमार श्रावक बन गया। श्रावक बनने के बाद एक बार क्षमापना के प्रसंग पर उसने कहा- प्रभु महावीर के शासन में उदायनमुनि को छोड़कर सभी को वंदन-नमस्कार करता हूँ। एक को छोड़ अर्थात् उससे संबंधित सारा कचरा जमा रहने दिया, तो उसकी विराधना हो गई। याद रखें कि 12 व्रतों का स्वरूप जीवन को परिष्कृत करने वाला है, पर उसे अमल में न लायें तो रूपान्तरण नहीं होगा। इस संदर्भ में सुबाहुकुमार का प्रसंग ध्यान में रखने योग्य है। उसने 12 व्रत को स्वीकार कर जीवन का परितर्वन किया। उसके लिए कहा गया- “अभिगम जीवाजीवे”। जीव-अजीव को जाने बिना संसार की प्रत्येक आत्मा को आत्मा के समान नहीं समझा जा सकता।

पहले	नवतत्त्वों	का	ज्ञान	करना	होता	है-
नव	भूल्यो	छ	चूक्यो,	बारह	रो	नहीं
नगर						जाणे

श्रावक को यदि जीव-अजीव का ज्ञान होगा तो ही स्थूल प्राणातिपात का पालन होगा। ज्ञान ही नहीं है तो उसे रौंदता चला जायेगा। ‘अभिगम जीवा जीवे’ महत्वपूर्ण है। यहीं से जीवन में बल आता है। पर स्वरूप का ज्ञान नहीं हो तो आराधना भी सही विधि से नहीं हो सकेगी। उसे आनंद ही नहीं आयेगा। उसी प्रकार जीवन का स्वाद नहीं आयेगा, जैसे भोजन रुखा-सूखा हो तो स्वाद नहीं आता है। गौतमस्वामी ने स्वरथ रहने का तरीका पूछा तो उत्तर मिला- “अविद्या को दूर करो।” अतीत का प्रतिक्रमण, वर्तमान का संवर और भविष्य का प्रत्याख्यान करो। इस प्रकार की विधि सधीती है तो आत्मा स्वरथ होगी, बीमारी नहीं रहेगी। अनादिकाल से जो कर्मों की बीमारी लगी हुई है उससे छुटकारा मिलेगा अन्यथा ‘जावंतविज्जा पुरिसा’ अनंतकाल से तो अविद्या रही ही है, चाहे और अनंतकाल आये तो भी छुटकारा नहीं होगा। हम जानते हैं कि यदि बीज पड़ा है तो अंकुरित होगा ही। उद्धार चाहते हैं तो इस त्रिपुटी को स्वीकार करना होगा तभी अविद्या समूल दूर होगी और स्थिति यह हो जायेगी- ‘वासूपूज्य जिन त्रिभुवन स्वामी घननामी रे।’ वासूपूज्य की महिमा को समझें वे पृथ्वी के ही नहीं, त्रिभुवन अर्थात् उर्ध्व, मध्य और अधो लोकों के स्वामी हैं। जिनेश्वर देव बीमारी, उसके कारण और उपचार का तरीका जानते हैं और वह तरीका मानव मात्रा के हित के लिये समाज के सामने रखते हैं। परन्तु उनके द्वारा दिखाये गये तरीके को हम मात्रा सिद्धांत के ही रूप में ग्रहण करें, उस पर अमल न करें तो उसका लाभ कैसे मिल पायेगा ? स्वरथ होना है तो उसका उपयोग करना होगा, अन्यथा उसका ज्ञान मात्रा व्यर्थ है। उस स्थिति में जीवन का रूपान्तरण किसी भी प्रकार संभव नहीं होगा। अमल में लायें तो अवश्य चमत्कार होगा। उसी प्रकार आनन्द आयेगा, जैसा पूणिया श्रावक को आनंद आया था। यह आनंद स्वतः ही अपने भीतर संप्रतित, निर्झरित होगा। हम समझें कि अपने आप में जो आनंदित है, शांत है, उसकी अलग ही महिमा है। परन्तु यदि सम्पूर्ण जीवन क्रम की आलोचना नहीं हुई तो शांति नहीं मिलेगी, आनंद का निर्झर नहीं बहेगा और स्व में अवतिष्ठि भी नहीं होगी। विधि का जीवन के साथ समायोजन नहीं हुआ तो आस्र नहीं रुकेगा और उस भगवान के साथ जसे घननामी

कहा गया है। 'स्वस्मिन् तिष्ठति' की अवस्था नहीं बनेगी। त्रिपुटी का सूत्रा स्वरथ रहने वाला है। यदि आत्मा स्वरथ हैं तो शरीर व मन भी स्वरथ रहेंगे, इन पर नियंत्रण रहेगा। आत्मा की बात चलेगी तो प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्राप्त होगी और जीवन मंगलमय दशा में अवतिष्ठ होगा। स्वरथ रहने का यही एकमात्रा उपाय है, यह भली प्रकार से समझ लेने की आवश्यकता है।

दि. 28.10.96

अभेद अवस्था का मर्म

जैसे-जैसे मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है, उसे विषयों का ज्ञान होना प्रारंभ हो जाता है। आँखों से जो कुछ वह देखता आ रहा था, उसका जब अनुभव करता है तब वह वास्तविक भेद को समझ पाता है। वह देखता है कि भेद की स्थिति से जितने भी मनुष्य हैं उनका आकार-प्रकार भिन्न है। मकान, पशु, वृक्ष जिसकी ओर भी उसकी दृष्टि जाती है उसे भेद ही भेद नजर आता है। इस भेद और अभेद में दो अवस्थाएँ हैं। ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना। साकार और निराकार के चिंतन की ओर वह उन्मुख होता है। साकार के चिंतन में भेद की अनुभूति होती है, क्योंकि वहाँ भेद होता है, पर यदि इस भेद को अभेद की दिशा में ले जाना है तो इसे व्यापक करना होगा।

अभेद के भी दो रूप हैं। पहला खूब व्यापक, दूसरा संकुचित। व्यापक अभेद में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के भाव आते हैं, जहाँ सबको एक परिवार के रूप में देखा जाता है। जितने व्यापक में गये थे, उतने ही सूक्ष्म में लौटे तो एकदम वहाँ अभेद पायेंगे। वहाँ आत्माओं, मनुष्यों, आकार-प्रकार आदि की भिन्नताएँ तो हैं पर मनुष्यत्व भिन्न नहीं, एक है। जीवत्व गुण एक है वह अभेद है। इस जीवत्व गुण पर भी विचार करें, जिसके कारण प्राणी जीवित हैं तथा हलन-चलन करते हैं। हलन-चलन की क्रिया जड़ में भी होती है, पर चेतन की क्रियाएँ उससे भिन्न होती हैं। जीवत्व वह है जो जी रहा है, जीयेगा तथा भूत में जीवित था। वह है- जीव। यह है- अभेद ! भेद-अभेद दोनों वस्तु हैं। कभी सोचें भेद ठीक नहीं है, अभेद होना चाहिए अन्यथा काम नहीं चलेगा, व्यवहार का कार्य नहीं चलेगा। ज्ञान निश्चित रूप से भेद को स्वीकार करता है अन्यथा मनुष्य-पशु एक हो जायेंगे, गुड़-गोबर एक हो जायेंगे। अभेद अवस्था को भले निर्विकल्प स्वीकार किया हो, पर ज्ञान अवस्था अभेद नहीं, भेद-ग्राहक है। भगवान महावीर विराजे हुए हैं। बहुत-सी पृच्छाएँ गणधर गौतम स्वामी द्वारा की जा रही हैं। अन्य साधक भी पृच्छाएँ कर रहे हैं। श्राविकाओं में जयन्तीबाई ने भी पृच्छा की। गौतम स्वामी प्रभु के चरणों में पहुँचे, कहने लगे- "भगवन् ! देखते हैं, एक व्यक्ति साधना-मार्ग में बहुत शूरवीरता से आगे बढ़ता है किन्तु कालान्तर में वह कायर हो जाता है अर्थात् साधना क्षेत्र में आलसी/प्रमादी हो जाता है, इसका कारण क्या है ? ऐसा क्यों होता है ? आप स्मरण कीजिये, मैं भी कई दिनों से चर्चा कर रहा था। बोल रहा था- जावंतविज्ञा, दुःख का मूल कारण अविद्या है। भेद ग्राहक दृष्टि से सोचें, "जे कई उपवश्य नियंते धर्मं सुणेता अविणओ पवन्ते।" एक-एक पद सारागर्भित है। सभी के लिए यह नहीं कहा है। कहा- गया है कोई-कोई निर्गन्धि। निर्गन्धि की व्याख्या ही महत्वपूर्ण है। 'प्रवज्या' भी महत्वपूर्ण शब्द है। मोटे रूप में प्रवज्या का अर्थ घर छोड़कर संयमी या साधु बनना लिया जाता है, पर इस रूप की पहचान क्या है हमारे पास ? कपड़े बदल लिये, जीवनपर्यन्त के लिए व्रत स्वीकार कर लिया तो हम मान लेते हैं कि यह साधु है। लेकिन साधु बनने से पूर्व भूमिका क्या है ? भगवान से जब पूछा गया तो भगवान ने कहा- 'सुदुल्लहं लहिउं बोहिलाभं' शूरवीरता से जिसने स्वीकार किया। स्थानांग सूत्रा में कहा गया है- सिंह की तरह स्वीकार करता है। पूछ लिया- सिंह रूप से स्वीकार के पीछे क्या स्वरूप है। तो कहा गया- "धर्मं सुणेता" सुनना कैसे ? वह भी कई प्रकार से होता है। नन्दीसूत्रा में तीन प्रकार की परिषद का कथन है- जाणिया, अजाणिया, दुर्विदग्धा।

जाणिया अर्थात् जिसे पूर्व से ही कुछ बोध प्राप्त है, यह बोध अति विस्तृत भी हो सकता है। जैसा भगवान महावीर का था। भगवान महावीर पाठशाला में पढ़ने गये। इन्द्र ने देखा कि ये तो तीन लोक के रसामी हैं, ये क्या पढ़ेंगे और इन्हें शिक्षक क्या पढ़ायेंगे ? ये तो शिक्षकों के शिक्षकों को भी पढ़ा सकते हैं। कहीं तीर्थकर की आशातना न हो जाये, गृहस्थ अवस्था में ही इनकी प्रतिभा का परिचय सबको मिल जाये। इन्द्र ब्राह्मण के रूप में पहुँचे। श्यामपट्ट पर दो रेखाएँ खींच दी और पंडित से कहा- "मैं इसका अर्थ जानना चाहता हूँ।" कोई भी विद्यार्थी अर्थ बताने में सक्षम नहीं था, अध्यापक स्वयं दुविधा में थे। परन्तु तभी छोटा बालक महावीर अध्यापक के पास पहुँचा और उनसे कुछ विनम्र निवेदन किया। तब अध्यापक ने कहा- यह प्रश्न तो छोटा-सा विद्यार्थी भी

हल कर देगा। आज प्रवेश पाने वाला विद्यार्थी भी इसका उत्तर दे सकता है। तत्पश्चात् कहा- “वर्धमान ! इस प्रश्न का उत्तर दो। महावीर ने विनयपूर्वक खड़े होकर कहा- ये दो रेखाएँ सम्पूर्ण विश्व को, सभी लोकों को प्रदर्शित करने वाली हैं। पूरे लोक में दो ही राशियाँ हैं- जीव राशि और अजीव राशि। हम विचार करें कि क्या प्रथम में पढ़ने वाला छात्र ऐसे गहन विचार रख सकता है ? ये हैं- जाणिया परिषद्। दूसरी है अजाणिया परिषद् अर्थात् जो जानता नहीं है। तीसरी है- दुर्विदग्ध। अजाण को ज्ञान करना सरल है। छोटे बालक को सिखाना सरल है, कच्चे घड़े पर जो चाहे अंकित किया जा सकता है।

यन्वे भाजने लग्नः, संस्कारो नान्यथा भवेत्।

पर जो दुर्विदग्ध है अर्थात् पहले ही आधा भर चुका है, जो कुछ सीखा है, इधर-उधर से लेकर, ऐसे व्यक्ति को बोध देना कठिन है। दुर्विदग्ध गुरु के समीप नहीं जाता, गुरु से ज्ञान नहीं सीखता। गुरु से जिसने ज्ञान नहीं लिया है, वह इधर-उधर आने-जाने वालों से पूछेगा- ‘क्या बात चली ?’ सुनने वाले भी 100 प्रतिशत तो सुना नहीं था। जो थोड़ा बहुत सुना था, उसमें से दो चार आँकड़े बता देगा। इसी प्रकार वह अन्य लोगों से पूछ लेगा। फिर कहेगा- आपने ऐसी बात कही थी। ऐसा व्यक्ति आने वालों की बातों से संस्कार प्राप्त कर लेता है। यह है दुर्विदग्ध

की पहिचान।

जो शूरवीरता से संयम लेते हैं, वे दो प्रकार के होते हैं। (1) जाणिया (2) अजाणिया। जाणिया जानता है कि गुरु से ज्ञान कैसे लेना है। अजाणिये को तो जैसे हांकोगे वैसे चलता चला जायेगा। वह यदि धर्म सुनता है तो विनयपूर्वक उपस्थित होकर सुनता है- “धर्मं सुणेता सुदुल्लहं बोहिलाभं” विनयपूर्वक, बहुमानपूर्वक भवित करता हुआ। जो व्यक्ति गुरु से धर्म सुनता है वह दुर्लभ बोध प्राप्त करता है। कितना मार्मिक शब्द है ‘सुदुल्लहं’- बड़ा ही दुर्लभ है। मेघकुमार जब हाथी के भव में थे, तब उन्होंने प्राणभूत जीव और सत्त्व की रक्षा की। पैर के नीचे आये खरगोश को बचाया- कहीं यह कुचल न जाये, मृत्यु को प्राप्त न हो जाये, पैर ऊपर उठाये रखा। हाथी के भव में लगभग 20 प्रहर पैर ऊपर उठाये रखा। उस समय जो अध्यवसाय रहा, उसके संबंध में शास्त्राकारों ने कहा- ‘अपडिलद्व सम्मत दंसणं पंडिलंभेण’ अर्थात् जो अब तक प्राप्त नहीं हुआ था उस सम्यक्त्व रत्न को उसने प्राप्त किया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आवश्यक नहीं कि मनुष्य बोधि प्राप्त करे। पशु भी बोधि प्राप्त कर सकता है। उस हाथी ने दुर्लभ बोधि प्राप्त की।

एक राजा बादशाह बन गया। पहले भी सुखमय जीवन जिया था, अब तो सभी ओर सुख ही सुख था। दुःख का ज्ञान उसे कैसे होता? जब तक व्यक्ति के जीवन में दुःख नहीं आता, वह दुःख के स्वरूप को जान नहीं सकता। शालीभद्र ने दुःख देखा ही नहीं था। हम जानते हैं कि जिसने दुःख, संकट, विपदा नहीं झेली, गुलचर्च ही उड़ाता रहा, ऐसा व्यक्ति खतरनाक भी हो सकता है। जिसने स्वयं दुःख की अनुभूति नहीं की, वह सामने वालों का दुःख जान पाये, यह कठिन है। बादशाह मौज-मस्ती में ही जीवन व्यतीत कर रहा था, कोई रोक-टोक भी थी नहीं। सुरा-सुन्दरी में डूबा हुआ था। कोई शिकायत करता तो कठोर आदेश जारी कर देता। जनता त्राहि-त्राहि कर रही थी, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि बादशाह के खिलाफ एक शब्द भी कह सके। कह दिया तो सजा-ए-मौत। ऐसी स्थिति में यदि वजीर सही हो, नकेल हाथ में रहे, तो गाढ़ी लाईन पर आ सकती है। यदि वजीर भी वैसा ही हो जाये तो काम चौपट। परन्तु वजीर ऐसा नहीं था। वह चिन्तित था कि बादशाह को सही दिशा में कैसे लाया जाये। एक अवसर ऐसा आया कि वजीर ने कोई अच्छा काम किया, जिससे बादशाह प्रसन्न हो गये और सभा में शॉल ओढ़ाकर उसका सम्मान किया। जलसा समाप्त हुआ, वजीर बाहर निकला, उसके नाक में श्लेष आया। वजीर ने उसे शॉल से पौँछ लिया। हम जानते हैं कि दुनिया में सभी तरह के लोग होते हैं- अच्छे भी और बुरे भी। प्रशंसा से जलने वाले भी होते हैं तो प्रेम करने वाले भी होते हैं। फिर जो ऊँचे पद पर होते हैं, उनके हितविंतक कुछ ज्यादा ही होते हैं। वजीर से जलने वाले भी कई थे। बादशाह से शिकायत कर कर दी कि वजीर आपकी तौहिन करता है। बादशाह ने पूछा- कैसे ? उसने तो सल्तनत के लिए इतना अच्छा काम किया है। उत्तर मिला- आपने तो उसका सम्मान किया, पर क्या वह इस लायक है ? आपने कीमती शॉल दी पर उसने बाहर जाकर उससे नाक पौँछ ली। यह तौहिन नहीं तो क्या है ? बादशाह ने वजीर को बुलवाया- “तुमने ऐसा क्यों किया ?” उत्तर मिला- जहांपनाह मैंने आपसे जो तालीम ली हैं, तदनुरूप ही किया है। बादशाह ने कहा- मुझसे क्या तालीम ली ? “हूजूर से जो मैंने सीखा है, वही व्यवहार में उतारा है।” “मैंने कब कहा कि शॉल से नाक पौँछना।” उत्तर मिला- “हूजूर यह शिक्षा तो नहीं दी, पर आप मानते हैं कि दुशाला कीमती है उससे नाक न पौँछी जाये पर खुदा ने आपको यह जो बहुमूल्य देह दी है उसे आप किस काम का मानते हैं ? कहीं इससे आप नाक पौँछ डालने जैसा काम तो नहीं कर रहे हैं ? आप सुरा-सुन्दरी में लिप्त रहें,

खुदा ने इसलिए तो यह देह नहीं दी है ! श्लेष्म की भाँति विषय-वासना से आप इसे खराब कर रहे हैं। मुझे यही शिक्षा मिली वैसा ही मैंने किया।'' बादशाह समझ गये। अज्ञ को समझना कठिन नहीं, दुर्विदग्ध को समझना कठिन है। उसे बोध देने वाले की जान खतरे में पड़ सकती है परन्तु जाणिया को बोध देने में खतरा नहीं। प्रभु महावीर ने कहा है- विनयपूर्वक गुरुचरणों में धर्म सुनकर जो दुर्लभ बोध प्राप्त होता है, वह अनेक जन्मों में भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब बोधिलाभ प्राप्त होता है, तब सम-संवेग-निर्वेद की अवस्था बनती है। उस संवेग-निर्वेद के आधार पर ''पवेझए नियंठे'' वह निर्गन्ध शूरवीरतापूर्वक बोधिलाभ के साथ प्रवर्ज्या लेता है। शूरवीरता की क्या भूमिका है, यह समझ लेना भी आवश्यक है। 'प्रवर्जित शब्द भी महत्त्वपूर्ण है। 'प्र' उपसर्ग पूर्वक वर्त धातु से बना है अर्थात् जो प्रकर्ष पूर्वक गति करे। यदि कंधे या माथे पर बोझ है तो पहाड़ पर चढ़ाई अथवा गति करने में अधिक तेजी नहीं रहेगी। परन्तु जिसके पास वजन नहीं है, वह जल्दी-जल्दी चल सकता है। प्रकर्ष से उसने संसार का बोझ उतार दिया है। जब परिवार का या दूसरा बोझ नहीं रहा, काम-क्रोध तिरोहित हो गये तो आत्मा जो गति पकड़ेगी वह प्रकर्ष होगी, प्रशस्त होगी। प्रशस्त याने शुभ, अशुभ नहीं, शुभ में गति। पवेझए- प्रशस्त प्रकर्ष गति से आगे बढ़ेगा। कोई रोकने वाला नहीं होगा। कोई चट्टान नहीं रहेगी घाटियाँ नहीं रहेगी क्योंकि वह निर्गन्ध है। गांठे नहीं, लेप नहीं। यदि परिवार माता-पिता, सगे-संबंधियों का परस्पर संबंध हो और वह इसे पकड़े रहे तो ये द्रव्य गांठें बन जायेंगे और भाव-निर्गन्ध नहीं बन पाएगा। ईर्ष्या, डाह, काम, क्रोध यदि शिथिल नहीं तो निर्गन्ध अवस्था में तीव्र गति नहीं बनेगी। निर्गन्ध की गति तीव्र होती है, वह एक दिशा में आगे बढ़ने वाला होता है। गौतम स्वामी ने प्रश्न किया था- इस प्रकार की चेतना फिर सियाल की भाँति कैसे हो जाती है ? उत्तर कवि आनंदघनजी की कड़ियों में इस प्रकार है-

“कर्म करम फल कामी रे।”

यहाँ साकार-निराकार चेतना का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है कि साकार भेद को, निराकार अभेद को ग्रहण करती है। कर्मफल से उतार-चढ़ाव भी आते हैं। ऊपर चढ़ने की बात तो आ गई पर दूसरा प्रश्न है- सियाल की भाँति कैसे हो जाता है ? तो संक्षिप्त उत्तर इस प्रकार दिया गया- 'कर्म करम फल कामी रे'- वह भी कैसे ? एक साथ नहीं, उसके पीछे भी विवरण है, कारण है। कवि ने साकार चेतना, निराकार चेतना के साथ तीसरी चेतना की बात भी कही है, कर्म-फल की इच्छुक चेतना। आप में भी तीनों चेतनाएँ हैं। जिसमें मुख्य प्रवृत्ति साकार में है। जहाँ चिन्तन, तर्क, वितर्क, विकल्प नहीं होंगे वहाँ निराकार है। जो चेतना कर्मफल की ओर उन्मुख होगी, वह कर्म करने व फल भोगने की दिशा में सक्रिय बन जायेगी। 'कर्म करम फल कामी रे' साकार-निराकार की पूर्ण व्याख्या को गहराई से समझें। सचेतन पद का प्रयोग भी महत्त्वपूर्ण है। तीन प्रकार की चेतनाओं का कुछ विवरण भी आया है। इन सारी अवस्थाओं में किसका आविर्भाव हो, किसे जीवन में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ावें, यह

चिन्तन का विषय है।

गौतम स्वामी की पृच्छा थी कि शूरवीरता से संयम ग्रहण करता है, पर क्या कारण है कि बाद में सियाल की भाँति हो जाता है अर्थात् आचार-विचार में कायम हो जाता है। आराधना नहीं कर पाता बल्कि जैसे लाश पानी के प्रवाह में बहती रहती है, उसी तरह उसका जीवन भी उतार की ओर बहता चला जाता है। इस प्रकार अभेद-ग्राहक अवस्था में चेतना को कितनी गहराई में ले जा पाते हैं यदि इसे न समझकर साकार-निराकार से हट तीसरी चेतना में चलते रहें तो द्रव्य चेतना का पूर्ण जागरण नहीं हो पाता। जब तक अविद्या का मैल है, तब तक व्यक्ति संसार में ही विवरण करता रहेगा। चार गति में परिभ्रमण करता रहेगा। ऐसा व्यक्ति कब ऊपर उठ पायेगा, यह संदिग्ध ही रहेगा। इसलिये यह अपेक्षित है कि इस चेतना को ऊपर उठाकर पूर्ण सचेतन अवस्था में लाने का प्रयास किया जाये।

दिनांक 29.10.96

दुर्भाग्य की छाया : अविद्या की माया

दुख	दोहरा	दूरा	टले	रे,	सुख	सम्पद	सूं	हेत।
धीर्ण	धणी	माथे	कियो	रे,	कौण	गंजे	नर	खेट।।
विमल		जिन		दीठा		लोयण		आज.....।
जे		कोई			उपवेझए		नियंठे.....।	

विमल जिनेश्वर इस अवसर्पिणी काल के 13वें तीर्थकर हुए हैं। उनका जीवन 'विगतः मलः यस्मात्' अर्थात्

जिससे कर्म मल विगत अथवा रहित हो गया हो ऐसा था। ऐसे जिनेश्वर देव के चरणों में स्तुति के उपर्युक्त बोल अनेक जिज्ञासाओं से भरे हुए हैं। क्या जिज्ञासा हो सकती है ? कवि आनंदघनजी जिस युग में हुए थे, उस समय ऐसे कोई जिनेश्वर विद्यमान नहीं, जिनका कवि दर्शन कर पाता। परन्तु कविता में कहा गया है- 'विमल जिन दीठा लोयण आज'- विमल जिनेश्वर आज लोचन के द्वारा दिखे। कैसे देखा ? वे मौजूद ही नहीं थे और दिखे भी तो उन्हीं को कैसे दिखे ? क्या कवि भावना की उस विह्वलता में था, जिसमें आत्मा परमात्मा में रमण करने लगती है ? ऐसी स्थिति के बारे में कहा जाता है कि परमात्मा प्रकट होकर दर्शन देते हैं। क्या कवि के सामने ऐसा ही प्रसंग उपस्थित हुआ था ? जो भी हो सेष्टांतिक दृष्टि से यह नहीं माना जा सकता कि कहीं परमात्मा अवतरित होते हैं। जैन दर्शन आत्मा को ही परमात्मा मानता है। आत्मा ही जब निरंजन, निराकार सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हो जाता है, तब वह संसार में अवतरित नहीं होता। तब कवि ने 'आज दिखे', 'दर्शन दिये' या 'मैंने देखा' यह बात कैसे कह दी ? एक प्रश्न और भी है- 'दुख दोहग दूरा टल्या रे, सुख सम्पद सू हेत' पर ये बात कैसे कही कि दर्शन किये ? इसे समझने के लिये हमें पहुँचना होगा भावात्मक अवस्था में, जिसमें आत्मा इतनी गहराईयों में उत्तर जाये कि वह परमात्मा से तादात्म्य स्थापित कर ले। तब एक घटना घटित होती है और भक्त अनुभूति करता है कि परमात्मा मेरे समीप हैं, घट में हैं, पास हैं, दूर नहीं हैं। वह अवस्था होती है, शुद्ध आत्मचिंतन की। वहाँ सिर्फ आत्मभाव का नजारा होता है, अन्य बातें गोण होती हैं। हमें यह बात कठिन या अहनोनी लगेगी पर अनहोनी नहीं है। व्यक्ति यदि गहराई में उत्तर जाये, एकमेक अवस्था में चला जाये, तो उसे लगेगा कि मैं परमात्मा से भिन्न नहीं हूँ, एकमेक हूँ। कवि विमल भगवान का स्मरण करते हुए गहराई में उतरे, जैसे टंकी में उत्तरा जाता है। हम जानते हैं कि टंकी साफ की जाती हैं, साल-दो साल में यदि उसे साफ नहीं किया जाये तो पानी में बदबू आने लगती है। सब जगहों पर न हो, पर मारवाड़ में पहले ऐसे टांके होते थे। आज तो नल की सुविधा हो गई, पर पहले वर्ष का पानी एकत्रा करके रखा जाता था। उसे साल-दो साल में साफ करना होता था। साफ करने के लिए एक व्यक्ति कमर में रस्सी बांध कर उतार दिया जाता था और अन्य व्यक्ति ऊपर से रस्सी पकड़े रखते थे। वह व्यक्ति गहरे में उत्तर जाता था। वैसे ही चिंतन की ओर से कवि के हृदय में अमृत जिनेश्वर का, मल-रहित अवस्था का जो चिंतन उभरा उसकी अनुभूति के क्षणों में साधक में आनंद सरोवर लहराने लगता है। कवि उस सरोवर में लीन होकर परमात्म रूप के अमृत का पान करने लगे तो अन्य अवस्थाएँ विस्मृत हो जाती हैं। मात्रा जिनेश्वर की छवि ही दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में कवि कह उठता है-

‘विमल जिन दीठा लोयण आज’।

त्रिखण्डाधिपति कृष्ण के बड़े भ्राता बलदेव जब साधु बन गये तब भिक्षा के लिए उन्हें ग्रामों एवं नगरों में प्रवेश करना पड़ता था। एक बार एक घटना घटी। उनके रूप-लावण्य को देखकर एक बहिन ऐसी मोहित हुई कि भूल गई कि उसकी गोद में बच्चा भी था। वह पानी भरने कुएँ पर आई हुई थी। मोह की अवस्था में घड़े के स्थान पर गोद के बच्चे को रस्सी से बाँधकर कुँए में उतारने लगी। बलदेव मुनि ने देखा- अरे, ये दुनिया की कैसी माया है ! दुनिया का यह कैसा स्वरूप है ? मेरे निमित्त से यह अकाज हो गया ? उन्होंने बहिन को समझाया। बहिन शर्मिन्दा हुई, बच्चे को बाहर निकाला। विचार कीजिये कि वह बहिन मात्रा मुनि में इतनी तन्मय हो गई थी कि वह क्या रही थी, उसे पता ही नहीं रहा। ऐसा अनेक बार होता है कि व्यक्ति क्या कर रहा है, उसे ज्ञात नहीं होता। वह होता कहीं है और क्रिया करता है कोई और। आपने भी इस सत्य का अनुभव किया होगा। कहीं और न करें, पर सामायिक में कभी घर तो कभी व्यापार में चले जाते हैं। आप सामायिक करने आ गये फिर मालूम पड़ा कि अभी-अभी फोन आया कि अमुक व्यापारी पहुँचने वाला है, तब सामायिक कितनी लम्बी हो जायेगी ? कितनी बार घड़ी पर दृष्टि जायेगी ? मान लो 10.25 हुए हैं 10:30 को सामायिक आने वाली है, थोड़ी देर में घड़ी पर नजर जायेगी। आपको विश्वास नहीं होगा क्या घड़ी धीरे चल रही है ? घड़ी धीरे नहीं चल रही है बल्कि मन की गति तीव्र हो गई है। उसी कारण झुँझलाहट आने लगती है। उस समय भुला देते हैं कि आप सामायिक में बैठे हैं।

एक आख्यान आता है- किसी व्यक्ति ने घर आकर बहुरानी से पूछा- “ससुरजी कहाँ है ?” ससुरजी तो सामायिक कर रहे थे, पर बहू ने कभी तो कहा- गांधी की दुकान पर गये हैं, तो कभी कहा पंसारी की दुकान पर और कभी कहा- मोची की दुकान पर। ससुरजी जब सामायिक से उठे तो पूछा- बहू ! तुम तो इतनी समझदार हो फिर झूठ क्यों बोली ? बहू ने कहा- मैंने झूठ नहीं कहा, आप नहीं गये थे। शरीर तो जरुर यहाँ था,

पर आप नहीं थे।

विमल जिनेश्वर अपने ठिकाने हैं। वैसे देखें तो वही है हमारा ठिकाना। जहाँ न तो सूर्य की किरण है, न चन्द्र

का प्रकाश है, जहाँ न रोग है, न शोक है, न भय है, न मृत्यु, न बुढ़ापा। ऐसे ठिकाने की अनुभूति में कवि विभोर हो गये तो उनके मुँह से निकला- दुःख दोहगा दूरा टल्या रे, सुख संपद सूं हेत' केवल दुःख ही नहीं टला, दुर्भाग्य भी टल गया। दोनों अलग-अलग चीजें हैं। दुःख अर्थात् पीड़ा की अनुभूति, पर दुर्भाग्य जरूरी नहीं कि पीड़ा के समय हो। घर में पैसा है पर दुर्भाग्य साथ में है तो जहाँ हाथ डाले वहाँ सोना भी मिट्टी बन जाता है। कथा आपने सुनी होगी कि कैसे सर्प फूल माला बन गया। पर दूसरों ने हाथ डाला तो सर्प ही मिला। तब फूल माला कैसे बनी थी? कभी फूल माला भी सर्प बन सकती है। दुर्भाग्य है तो सामने पड़ा हुआ खजाना भी दिखाई नहीं देता, ओझल हो जाता है। दुर्भाग्य है तो पड़ी चीज हाथ लगती वह उसे ही लांघ जाता है। एक लकड़हारा जा रहा था। गर्मी का मौसम था, हाथ में कुल्हाड़ी थी। ऊपर से विद्याधर का विमान निकला। उसकी पत्नी ने कहा- "तुम्हारे पास इतनी सम्पत्ति है, उसका दुःख दूर नहीं किया तो वह क्या काम आएगी? विद्याधर ने कहा- "मैं कैसे दूर करूँ? दुर्भाग्य उसके पीछे लगा है, वह समझ नहीं पायेगा"। "आप देकर तो देखो" पत्नी ने कहा। कभी-कभी पैसा मिलने से दुर्भाग्य दूर हो जाता है। विद्याधर ने एक चिंतामणि रत्न मार्ग में डाल दिया। उधर उस बूढ़े के मन में आया, अभी तो अपना काम कर सकता हूँ, आज तो आँखें काम करती हैं पर कल नहीं करेंगी तो मैं कैसे चलूँगा? क्यों न अभी से कुछ अभ्यास कर लूँ। उसने आँखें मूँद कर चलने का अभ्यास किया, तब तक रत्न पीछे छूट गया था। विद्याधर ने कहा- "देखा, उसका दुर्भाग्य! अभी ही उसके मन में ये फितूर आया"। पत्नी ने कहा- "आपने रत्न हाथ में क्यों नहीं दिया, भूमि पर क्यों डाला?" विद्याधर ने कहा- चाहे गोद में या हाथ में डाल दूँ पर 'जावंतऽविज्जापुरिसा' जब तक अविद्या, दुर्भाग्य से छुटकारा नहीं है, काम नहीं होगा। "अच्छा आप हाथ में देकर देखिये" पत्नी ने कहा। कुछ दूर जाकर वह वृद्ध वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए रुका। ठंडी हवा के झाँके से झापकी लग गई। इतने में विद्याधर ने रत्न गोद में डाल दिया। आवाज से लकड़हारे की नींद खुली। उसने आँखें बंद किये हुए ही सोचा- मुझ पर गोफण (चिड़ियाँ उड़ाने का साधन) किसने फेंका? उसने इधर-उधर देखा। कोई दिखाई नहीं दिया। हाथ में उठाया- अरे! यह तो चिकना पत्थर है, रख लेता हूँ बच्चे खेंलेंगे। मेरे पास शिला है, यह चटनी पीसने के काम आ जावेगा। अब कुछ कल्पनाएँ करने लगा- यहाँ यदि पानी से भरी बावड़ी होती, फलों से लदा एक बगीचा होता, सात मंजिली बिल्डिंग होती। विचार करते ही सबकुछ तैयार हो गया। विचार करने लगा- मैं पलंग पर सोया हुआ आनंद मनाता, पलंग भी तैयार हो गया। कितना अच्छा होता यहाँ नृत्य करने वाली नृत्यांगनाएँ होती, वे भी आ गई। वह नृत्य देखने में मशगूल हो गया। उसने चिमटी काटी ये क्या है? मैं सोया हूँ या जग रहा हूँ। ये कोई तमाशा है? नृत्य, वाद्य की लय में मस्त बनकर झूमने लगा। विद्याधर की पत्नी ने कहा- "देखा आपने! दुर्भाग्य सौभाग्य में बदला या नहीं?" विद्याधर ने कहा- "तुम नहीं जान रही हो, ये ऊपरी अवस्थाएँ हैं। पानी गहरे में नहीं उतरा है, ये अभी स्वप्न ही समझ रहा है!" "आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? सिद्ध करके बताओ।" पत्नी ने कहा।

विद्याधर ने कौए का रूप बनाया और काँव-काँव करने लगा। सोचिये जहाँ सुमधुर संगीत चल रहा हो वहाँ कौए की कर्कशा ध्वनि किसे सुहाएगी? वृद्ध को आया गुरुस्सा- इस कालीदास को भी यही समय मिला था? रंग में भंग डाल रहा है। "आस-पास देखा, कुछ नहीं मिला। उसे याद आया मेरी अंटी में एक पत्थर है, बस चिंतामणि को फेंक मारा। कौआ रवाना हो गया। जब लकड़हारे ने आँखें खोली तो देखा- कि वृक्ष के नीचे था, पास में लकड़ी का भारा पड़ा था। विद्याधर ने कहा- "देख लिया दुर्भाग्य? दिया तो भी समझ नहीं पाया।" कवि कह रहे हैं, मेरे दुःख-दुर्भाग्य दोनों टल गये। दुर्भाग्य क्या है? उस वृद्ध पर तो हमें हँसी आ रही है। हमने उसका निर्णय कर लिया, पर स्वयं का निर्णय कौन करे? हमारा सौभाग्य है या दुर्भाग्य? उत्तर यह है कि सौभाग्य, दुर्भाग्य दोनों हैं। इस प्रकार सौभाग्य है कि हमें मनुष्य जन्म मिला, उत्तम कुल मिला, जिनेश्वर की वाणी मिली, पर दुर्भाग्य यह है कि सबकुछ प्राप्त है पर लाभ नहीं उठा रहे हैं। प्राप्त अवस्था का लाभ न उठायें तो दुर्भाग्य ही कहा जायेगा। कवि कह रहे हैं- यह अविद्या और दुर्भाग्य की छाया दूर हो गई। प्रभु दर्शन में वे इतने गहरे उतरे। यद्यपि प्रभु साकार अवतरित नहीं थे, पर कवि की कल्पना और भक्त की आस्था है कि विमलनाथ भगवान के उसने साक्षात् दर्शन कर लिये। वे सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए थे। उसकी अनुभूति हुई तो कहते हैं- मैंने दर्शन कर लिये। इस स्थिति से एक प्रश्न और जुड़ा हुआ है कि साधक सिंह की तरह संयम स्वीकार कर फिर सियार क्यों हो जाता है? कालान्तर में वैसा पतन क्यों हो जाता है? इसका उत्तर भी कवि की कड़ियाँ में आया कि- 'दुर्भाग्य'। सौभाग्य से योग मिला, सिंह की तरह संयम स्वीकार तो किया पर दुर्भाग्य इस प्रकार आया कि संयम-रत्न को

संभाल नहीं पाया। जैसी लकड़हारे की हालत हुई थी, उसकी भी हालत वैसी ही हो गई। गौतम स्वामी ने पूछा-
भगवन् क्या कारण है ?

'विहरेज्ज पच्छाय जहा सुहन्तु' वह यथाछन्द विहारी हो जाता है। पहले का ज्ञान कभी-कभी दुर्भाग्य का कारण भी बन जाता है। वैसे ज्ञान सौभाग्य का कारण है, पर जो मरिष्टिष्क का ज्ञान है वह दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। मरिष्टिष्क की बात यह है कि वहाँ तर्क है, पर जब तक वह तर्क हृदय में निवास न कर ले, मरिष्टिष्क तक ही रहे तो वह कभी दुर्भाग्य का कारण बन जाता है। उत्तराध्ययन सूत्रा के दूसरे अध्ययन में 22 परीषहों में प्रज्ञा परीषह का भी कथन है। ज्ञान भी परीषह है। समझें, कैसे। विचार कीजिये कि किसी ऐसे व्यक्ति को अचानक खजाना मिल जाये या जिसे बाप दादा से सम्पत्ति प्राप्त नहीं थी, यदि किसी जरिये से उसके भाग्य के द्वारा खुलें, धूल भी सोना बन जाये, तो उसकी क्या दशा होगी ? ब्रेन हेमरेज न भी हो, पर धर्म-ध्यान जरूर छूट जायेगा। ऐसी सोसायटी या महफिल मिल जायेगी कि वह भटक जायेगा। कारण उसके मन की इतनी समायी नहीं कि पचा पाये। भोजन का उदाहरण लें, जिसकी जठराग्नि मजबूत है, वह तो बहुत कुछ हजम कर लेता है, डकार भी नहीं लेता, दिखावा भी नहीं करता परन्तु जिसकी जठराग्नि मंद है, उसे तो अजीर्ण हो जायेगा, खट्टी डकारें आयेगी। यह हुआ भोजन का अजीर्ण। इसी प्रकार ज्ञान का अजीर्ण है- अहं और तप का अजीर्ण हैं-क्रोध। तप में जो मिले, चाहे प्रशंसा हो या निन्दा, पर आवेग न आये तो समझना चाहिये कि तपस्या को पचा लिया। आवेग आया तो समझो तपस्या पची नहीं। भगवान महावीर ने कहा- जिसने विनयपूर्वक ज्ञान स्वीकार किया वह कालान्तर में सोचे कि मैं विद्वान् हो गया, मुझे पाट-पाटले मिलते हैं, आसन-मकान, भाव-भवित्ति सबकुछ प्राप्त है; भूखे नहीं रहना पड़ता। यह भी जान लिया कि दुनिया को कैसे ठगा जाता है। गुरु कहते हैं, स्वाध्याय करो, पर उनकी शिक्षा तो खूंटी पर टांग दी। बस एक ही काम है, लोगों को कैसे पटाना-छकाना। जिसकी ऐसी मानसिकता हो गई तथा जिसने ऐसी प्रवृत्ति विकसित कर ली है कि वहाँ काम करो, जिससे स्वार्थ सिद्ध हो वही कालान्तर में भटकता है। क्योंकि श्रुतज्ञान का अंकुश, उसके हाथ में नहीं होता। वह तो इधर-उधर डोलती रहेगी। वैसे ही वह यथाछन्द हो जाता है। सिंह की भाँति स्वीकार करके फिर सियार का आचरण करने लगता है।

प्रभु के उत्तर को सुनकर गौतम स्वामी ने पूछा- "इसका क्या कारण है ?" भगवान ने उत्तर दिया- "दुर्भाग्य और अविद्या।" अविद्या को व्यक्ति समझ नहीं पाता। बहुत ज्ञानी है पर अविद्या के प्रभाव में भूल जाता है। जब तक उसकी जड़ें मौजूद हैं, वह बख्शाने वाली नहीं हैं। कोई करम करे पर वह तो मौका पाकर झट साया फैलाती है। ठीक वैसे, जैसे शैवाल का टुकड़ा तालाब में फैलता जाता है और इतना फैलता जाता है कि पूरे पानी को ढक लेता है। अविद्या का यदि उसे ज्ञान नहीं हो तो दुर्भाग्य के कारण वह सिंह की भाँति पौरुष से सम्पन्न होकर भी पाप श्रमण की संज्ञा से अभिहित होता है। खाना-पीना, मौज-मस्ती के साथ स्वाध्याय एवं धर्म प्रभावना भी केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करता है। भक्ति को पटाता रहता है ताकि काम होता रहे। पटाने के लिये मुँह-मंगली बातें। ऐसे व्यक्ति को साधना में रस नहीं आ सकता क्योंकि दुर्भाग्य उस पर हावी हो गया होता है। दुर्भाग्य को जब तक चीरेंगे नहीं तब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, विमल जिनेश्वर नहीं दिखेंगे। क्योंकि हमारी इन्द्रियों पर किसी दूसरे का अधिकार हो गया है। कवि कह रहे हैं- धीर धणी माथे कियो रे, कौण गंजे नर खेट। शब्द थोड़े हैं पर गहन भाव से भरे हैं, जिसका अर्थ गहरे में उतरे बिना समझ में नहीं आयेगा। संयम-जीवन में शिथिल होने वाला तथा प्रतिज्ञा भंग करने वाला सत्पुरुष नहीं हो सकता। वह यथा-छन्द-विहारी कृत्य-अकृत्य का विवेक खो बैठता है। वह मान-प्रतिष्ठा के लोभ में पड़ जाता है। जैसे एक व्यक्ति सोचता है कि अमुक के घर टी.वी., फ्रिज है तो मेरे घर भी होना चाहिये। इस प्रकार ईर्ष्या पैदा होती है। वह यह नहीं सोचता कि दूसरे की ओकात है, उसके पास सम्पत्ति है, पर स्वयं के पास कुछ नहीं है, यह नहीं विचारता और देखा देखी में पड़ जाता है। पर कहावत है- 'देखा देखी साधे जोग, छीजे काया बढ़े रोग।' अतः उसे शांति नहीं मिलती है। क्षमता देखी नहीं, दूसरा पैर पसार कर सो रहा है तो क्या तुम भी पैर पसारोगे ? पर पैर बाहर रहेंगे तो ठंडे मरोगे। भाई पैरों को थोड़ा सिकोड़ लो। पर नहीं सोचेगा ! क्यों सिकोड़ ? पैरे मेरे हैं। ऐसे में क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। प्रण-भंग करने वाले साधक का पतन ही होता है। पहले कहते थे- रघुकल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। पर आज प्राण भले जाये पर यह समझ लें कि एक बार प्रतिज्ञा टूटी तो फिर प्रतिज्ञा धारण करने की क्षमता नहीं रहेगी। दुर्भाग्य दूर हो गये तो कवि आनन्दघनजी मस्ती में आ गये। वे कह रहे हैं- मैं सुखी हो गया, सम्पदा भी मिल गई। सम्पदा नहीं तो सुखी नहीं हो पायेगा। परन्तु वैसी सम्पदा कब प्राप्त हो सकती हैं ? तब, जब वीतराग निर्देश के अनुसार चलें।

यथार्थ बने रहे तो वीतराग वाणी की अवज्ञा होगी। समाचारी मर्यादा का लोप होगा। ऐसा करने वाला दुःखी होगा। सिंह की भाँति निकला था पर सियार की तरह हो जायेगा। सियार में वीरता नहीं होती। शेर की बराबरी सियारवृत्ति नहीं कर सकती। व्यक्ति भले ही तिकड़म करता रहे, गोटिया फिट करता रहे, बुद्धि से चतुराई करके, छल-कपट करके भले आजीविका पूर्ति करे पर ज्ञान, दर्शन, चारित्रा एवं वीतराग देवों की वाणी की आराधना नहीं कर पायेगा। क्योंकि माया-कपट से आराधना नहीं होती। तीर्थकर के वचनों के अनुरूप जब भी आराधना होगी तो विमल जिनेश्वर के दर्शन हो जायेंगे। फिर आप और हम सब बोलने लगेंगे- 'विमल जिन दीठा

लोयण

आज'.....।

दिनांक 30.10.96

मंगल का मार्ग

सिद्धांश	णमो	किच्चा,	संज्याण	च	भावओ...।
उपर्युक्त मंगलाचरण में आप्त पुरुषों का स्मरण कर उन्हें नमन किया गया है और उनकी स्तुति की गई है। इसे भाव मंगल माना गया है। मंगल किसलिए ? मंगलाचरण के माध्यम से मंगल की कामना की जाती है, पर मंगल किसलिये ? मुख्य रूप से इसलिये कि किसी प्रकार की विघ्न-बाधा न आये, कार्य पूर्णता की दिशा में गतिशील हो जाये। आगमों में भी इस परम्परा का निर्वाह किया गया है और वहाँ एक नहीं, तीन रथानों पर मंगल करने की बात आती है। तीन रथानों पर मंगल क्यों ? कहा गया कि प्रथम मंगल है- शिष्य की बुद्धि परिमार्जित रहे अथवा जो अमृत दिया जा रहा है वह अमृत-रूप में ही परिणमन करे, विष-रूप में नहीं। हम जानते हैं कि स्वाति नक्षत्रा जब जाता है, तब चातक आकाश की ओर देखता है, कब मेघ बरसे और स्वाति नक्षत्रा में गिरी बूँद उसके मुँह में आये। वही बूँद सीप के मुँह में मोती बनती है। बाँस के बीच जावे तो वंशलोचन, केले में कपूर और सर्प के मुँह में जावे तो विष में परिणत होती है। वीतराग वाणी के लिए निर्देश किया गया कि योग्य पात्रा के अभाव में इसका रहस्य प्रकट नहीं किया जाना चाहिए अन्यथा सोचिये कि बंदर स्वभाव से ही चंचल, फिर उसे शराब पिला दी जाये तो क्या स्थिति होगी ? वैसी ही स्थिति अयोग्य पात्रा की होगी। वैसे ही पात्राता नहीं और अच्छी चीज दे दी तो वह अंहकारवर्द्धक होगी। मिट्टी की हंडिया, जिसमें आधा सेर रांधा जा सके उसमें यदि एक सेर डाल दें तो वह फूटेगी ही, सही नहीं रह पायेगी। इसलिए कहा गया है कि योग्य पात्रा देखकर ही आगम का मर्म देना चाहिये। इस कार्य में भी एक परम्परा का निर्वाह होता रहा है। आगमों का ज्ञान गुरु गम चलता रहा है। आगम संस्कृत-प्राकृत-निवद्ध होते हैं, जिनकी गुरु ही वाचना देते हैं। पहले छपाई की सुविधा न होने के कारण वे सहज उपलब्ध नहीं थे, परन्तु अब तो गाँव-गाँव में शास्त्रा उपलब्ध हैं। पहले हाथ से लिखी प्रतियाँ भी दुर्लभ थीं और उन्हीं के आधार पर अध्ययन-अध्यापन की परम्परा चलती थी। अब परिवर्तन हुआ है, अब अध्ययन-अध्यापन भी ज्यादा होता है, उस रूप में नहीं पर हिन्दी भाषा में, यद्यपि वह उतना प्रभावी नहीं होता। आदि मंगल इसलिए किया जाता है कि शिष्य में ज्ञान सही रूप में परिणत हो, विपरीत नहीं। योग्यता अनुरूप उसे अध्ययन कराने के लिये वाचनी का प्रसंग रहता था। आज कहा जाता है- हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है, शास्त्रा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। संस्कृत, प्राकृत हिन्दी आती है, गुरु से पढ़ने की आवश्यकता ही क्या ? लेकिन समझ लें कि अनुवाद में कभी भी मूल जैसी मार्मिकता, गहनता तथा अर्थ गांभीर्य आ ही नहीं सकता। शास्त्रा का हार्द अनुवाद में आ गया हो यह भी जरूरी नहीं है। बहुत-सी बातें ऐसी भी होती हैं, जो विनय सापेक्ष होती हैं। इसलिये ज्ञान-प्राप्ति के लिये गुरु के प्रति विनय भाव रखना, उनकी आज्ञा मानना, उनमें पूर्ण श्रद्धा रखना तथा उसे नमस्कार करना आवश्यक है। उत्तराध्ययन सूत्रा में कहा गया है--सिद्धांश णमो किच्चा, संज्याण च भावओ।' सिद्ध भगवतों को नमस्कार करके संयतियों को नमस्कार किया है। यह मंगल परम्परा का ही रूप है। मध्य मंगल का प्रयोजन है कि शास्त्रा निर्विघ्न पूर्णता पर पहुँचे और अंतिम मंगल इसलिए किया जाता है कि शास्त्रा का बीच में विच्छेद न हो, शिष्य-प्रशिष्य परम्परा तक चलता रहे। इसके साथ ही उपधान तप भी शास्त्रा-अध्ययन करते हुए करते हैं, ताकि विघ्न न आये तथा वह आगमवाणी शिष्य के लिये उपादेय हो। उपधान की भी अपनी महत्ता है। दशवैकालिक सूत्रा (9-1-1) में कहा गया है- 'थंभा व कोहा व भयप्पमाया' अहंकारी, क्रोधी, मायाचारी और प्रमादी साधक ज्ञान प्राप्ति के योग्य नहीं है, वह ज्ञान का उपयुक्त पात्रा भी नहीं है। क्रोध, अहंकार आदि दुर्गुण चारित्रा धर्म को वैसे					

ही नष्ट कर देते हैं, जैसे बांस का फल ही बांस को नष्ट कर देता है। पात्राता नहीं है तो न मंगल होगा, न कल्याण।

पात्रा कौन है ? इसकी भी विवेचना की गई है। पात्रा वह है जो सरलता से बात स्वीकार करे, मित्रों के प्रति अनुराग रखे, क्रोध नहीं करे। ऐसा पात्रा मिले तो उसे ज्ञान देना चाहिये। ज्ञान देते हुए परम्परा को अविच्छिन रूप में आगे बढ़ाये। बहती गंगा अनेक भवी जीवों को आहलादित करती है। तपस्या के बीच की विच्छ बाधाएँ दूर हो जाती हैं। जो व्यक्ति निरन्तर दुर्घट, दधि, घृतादि विग्रहों का सेवन करता रहेगा, वह अपनी इन्द्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पायेगा। उसका मन वश में नहीं रहेगा। मन पर अधिकार नहीं तो आत्मा तक पहुँचने का माध्यम भी विचलित हो जायेगा। माध्यम विचलित हो जायेगा तो केन्द्र तक पहुँचने की ऊर्जा भी प्रादुर्भूत नहीं होगी। इसलिये रसनेन्द्रिय पर विजय पाने के लिए आयम्बिल किया जाये। रुखा-सूखा भोजन पानी में चूर कर, सारा आहार मिलाकर एक कर लिया जाये तब भोजन का रूप परिवर्तित हो जाता है। गर्म रोटी और अलूणा साग खाकर भी मन में संतोष किया जाता है कि रोटी-साग से खा रहे हैं। परन्तु यह रूप आयम्बिल का नहीं है। आयम्बिल तो वह है कि जो कुछ मिला, उसे चूर कर मिला दें।

धन्ना अणगार कैसी आयम्बिल करते थे, इस पर विचार करें। 21 बार धोने की बात तो है ही, पर आहार भी कैसा होता था ? बचा-खुचा, जिसे सहसा कौए और कुत्ते भी नहीं खायें, वे भी छोड़कर अलग हो जायें ऐसा रुक्ष आहार। उसे भी पानी से निकाल कर निस्सार, सत्वहीन कर लें, उसमें जायका न रहे, तब उसे ग्रहण कर वही पानी पीकर तृप्त रहे। श्रेणिक महाराज प्रभु महावीर के दर्शन के लिए पहुँचे तो पूछा- “भगवन् आपके इतने साधुओं में कौन महानिर्जरा, महापर्यवसान करने वाला है ?” प्रभु ने कहा- “धन्ना अणगार।” आप भी कह देते हैं- धन्य है धन्ना अणगार। कैसी हो गई काया ? शरीर कृश हो गया पर तेजस्विता में निखार आ गया। शरीर दीप्त होने लगा, भीतर का प्रकाश बाहर झलकने लगा। जैसे चिमनी में कालिख नहीं हो तो प्रकाश बाहर दिखाई देता है। शरीर की हालत यह नहीं कि मन उठकर बाहर आ जाये। बाहर आ जाये तो ग्लानि होगी। धन्ना मुनि बोलने का प्रसंग आता तो भी सोचते, बोलना पड़ेगा। काफी कमजोरी आ गई थी। यहाँ तक बताया जाता है कि जैसे भंगार की गाड़ी जब ऊँची-नीच सड़क पर चलती है, उसमें भरे हुए बर्तनों से खड़-खड़ की आवाज आती है, वैसी ही ध्वनि उठने-बैठने पर उनके हाड़ों से निकलती थी। जीवनपर्यन्त वैसा ही तप किया। आयम्बिल तप जिसे वर्धमान तप भी कहते हैं। यदि अध्यवसयों में उर्ध्वरोहण होता रहे तो शीघ्र ही भीतर रूपान्तरण का प्रसंग बनता है। उपवास में तो भाव हो जाता है कि खाना ही नहीं है, पर जहाँ स्वादिष्ट खाने की तैयारी हो वहाँ मन को रोकना, नीरस आहार, बेरस्वाद आहार ग्रहण करना कितना चल पायेगा ? कठिनाई से व्यक्ति थोड़ा बहुत ही ले पायेगा। वहाँ स्वाद न ढूँढें, शरीर को खुराक दें। इन्द्रियों की दौड़ औदारिक शरीर से रोकें, पुद्गलों की ओर से रोकें तो वह ज्ञान में सहयोगी हो सकती है। यही इनका सही उपयोग होगा। यदि दुरुपयोग किया तो ये संसार में भटकाती है। इन्हें सही दिशा में नियोजित कर दिया जाये, आयम्बिल तप के माध्यम से तथा अध्ययन-अध्यापन में इन्हें नियोजित करके आँखों को पढ़ने में लगा दें। इस प्रकार जब ज्ञान प्राप्त किया जाता है तब आगे बढ़ता है और मंगल रूप में परिणत होता है। ज्ञान को जीवन का अंग बनायें, नहीं तो वह ऊपर-ऊपर ही रह जायेगा, जैसे पोशाक। अव्रत दूर नहीं होगा। ज्ञान के फल के बारे में कहा है- ‘णाणस फलं विरई’ विरक्ति नहीं तो वह ज्ञान यथार्थ नहीं होगा। ज्ञान के लिए पुरुषार्थ इस रूप में किया जाये कि दुःख-दुर्भाग्य दूर हों तथा वह सुख-सम्पद में सहयोगी बने। कवि ने विमल जिनेश्वर को देखा, एकार्थ साधना नहीं की। अजितनाथ भगवान की प्रार्थना करते हुए कवि ने कहा है-
नयणा ते दिव्य विचार....,
पंथडो निहालूं रे बीजा जिण तणा रे....।

चमड़े की आँखें नहीं, दिव्य विचार रूप नेत्रा खुलने पर देख पायेंगे। पर वे नेत्रा कहाँ से प्राप्त होंगे ? कहा गया

है- आगम चक्र्खू साहू'। हमारे ये चक्षु तो हैं ही पर एक आँख और है- आगम। आगम अर्थात् दिव्य विचार-सागर उसे भर लेते हैं तो उसे भीतर के नेत्रा प्रकट होना भी कहते हैं। उनसे विमल जिनेश्वर का चिन्तन ध्यान करें तो उस मार्ग पर चलते हुए, जब गहराई में पहुँचेंगे तब रत्न प्राप्त हो सकते हैं। विमल जिनेश्वर के पथ का लाभ प्राप्त कर सकते हैं परन्तु इसके लिए बुद्धि का निर्मल होना आवश्यक है। एक राजा से कहा गया कि अमुक व्यक्ति व्यापार-धर्म में इतना प्रवीण है कि इसके सामने कोई भी चीज आये तो यह उसकी कीमत आँक सकता है। किसी व्यक्ति ने परिचय कराया तो राजा को कौतूहल हुआ। उसने आगन्तुक व्यापारी पूछा- किसी भी चीज का मूल्य आँक सकते हो ? " देखे बिना कैसे आँक सकता हैं। राजा ने आस-पास निगाह डाली तो देखा- राजकुमार खड़ा था। राजा ने कहा- इसका ही मूल्य आँक दीजिये। व्यापारी चक्कर में पड़ गया। मनुष्य का मूल्य, वह भी राजकुमार का, कैसे आँका जाये ? उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह सोचने लगा- कैसा दुर्भाग्य पल्ले पड़ा राजा के दर्शन से। इससे अच्छा था कि राजा के दर्शन ही नहीं करता। अब यदि कुछ उत्तर दूं तो राजा पूछेगे- "क्या आधार है ?" दुविधा में पड़ गया। क्या करूँ, कैसे करूँ ? किर भी व्यापारी वाली बुद्धि थी, सोचा और कहने लगा- "मैं चिन्तन में हूँ, राजन् ! मूल्य आँकना है तो समय चाहिये।" राजा ने कहा- ठीक है। एक माह का समय दिया जाता है। व्यापारी घर आया, काफी माथा-पच्ची की पर मूल्य नहीं आँक सका। भणा था पर गुणा नहीं था। गुरुगम ज्ञान के बिना निर्णायक बुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, गइराई नहीं आ सकती। दूसरें शब्दों में जीवन का मंगलाचरण नहीं हो सकता। मंगल में प्रविष्टि नहीं हो सकती। आत्मसात् नहीं हुआ तो प्रज्ञा/बुद्धि निर्मल नहीं हो सकती। आप आज कंकर-पत्थर का मूल्य आँक सकते हैं- 25 हजार, 5 लाख आदि। इसमें भी बुद्धि लगानी पड़ती है, पर यथार्थ में एक व्यक्ति का मूल्य आँकना कठिन है। आज ऊपर की रौनक से, पोशाक से कह देंगे- पधारो सा, पधारो सा। पूज्य गुरुदेव फरमाया करते थे- 'माया से माया मिले, कर कर लम्बे हाथ। यह इंसान की पहचान नहीं है। यदि भगवान् भी फटे-पुराने चिथड़ों में आये तो क्या कहोगे पधारो सा ? उजली पोशाक देखी तो भले ही रिश्ते नहीं हों, पर गाड़ी आकर खड़ी हुई तो इर्द-गिर्द कैसे मँडराने लगेंगे ? ये किसकी परख है ? कल तक जो सङ्क पर थे, आज मिनिस्टर बना तो क्या होने लग गया ? सम्मानित होने लग गया। हो गई परख ? इतनी जनता ने उन्हें तोक लिया, तो हमने भी तोक लिया। मनुष्य की पहचान कठिन है। कल वापस 5 वर्ष में सङ्क पर आ जाये तो कितनी कदर करोगे ? आपको अनुभव ही है।

बधुओं ! राजनीतिक झांसा यही है- हाँ सा, हाँ सा ! हाँ करके, कहके टरकाते रहते हैं। एक विधायक बनता है, तो वह बेचारा किस-किस का काम करे। मान लो डेढ़ लाख वोटरों ने चुना है। 5 वर्ष में डेढ़ लाख का समाधान, डेढ़ लाख व्यक्तियों का दुःख-दर्द कैसे दूर किया जाये ? व्यक्तिगत दुःख के लिए वह कभी-कभी सांत्वना देते हैं। स्वयं को हमने व्याख्यान सुनकर सांत्वना दी, परन्तु सुनकर जीवन में परिवर्तन किया या नहीं ? एक बात भी अमल में लायें तो परिवर्तन हो सकता है। केवल सांत्वना न दें कि चौमासा करा लिया। जैसे बाढ़ आई तब तो ऊपर पानी ही पानी दिखा किन्तु बाढ़ गई कि सूखा। पानी का उपयोग हमने क्या किया ? राजनेता दूसरों को भुलावा देते हैं.. और हम स्वयं तो अनादिकाल से अपने आप को ही भुलावा ही देते आ रहे हैं। अमल के नाम पर णमो अरिहन्ताएं। ज्ञान को जीवन का अंग अथवा साथी नहीं बनाया तो रूपान्तरण नहीं होगा। हम सुन लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा कान से सुन लिया, मुँह से निकाल दिया, पर हृदय में उतारने के लिए कुछ करना-धरना नहीं। ऐसे क्रांति घटित नहीं होगी। ऊनी की क्रांति तो सिर्फ भ्रान्ति है। जीवन में रूपान्तरण नहीं तो हम अपनी आत्मा को ठग रहे हैं, स्वयं को छलावा दे रहे हैं। वह व्यापारी कीमत आँक नहीं पाया, चिन्ता में शरीर सूखने लगा। किसी ने पूछा- सूख क्यों रहे हैं ? व्यापारी ने कहा- राजा ने दर्शन को गया था, रोजे गले पड़ गये। घटना कह सुनाई। सुनने वाले ने कहा- देखो भाई, यहाँ एक बुजुर्ग हैं, उनकी बुद्धि निर्मल है। क्योंकि उन्होंने बुजुर्गों की सेवा से अनुभव प्राप्त किया है। उनके स्वयं के अनुभव भी उसमें जुड़ते गये हैं। आप उनसे मिलिये।" कहते हैं- गरज पड़े तो गधे को बाप करे। यूँ तो बुजुर्गों के पास जाते या नहीं; पता नहीं, पर प्रसंग आया तो पहुँचे। अपनी समस्या कह सुनाई। बुजुर्ग ने कहा- यह तो हल्की-फुल्की बात है। उसने कहा- मेरे तो प्राण सूख रहे हैं और आप हल्की-फुल्की कहते हैं। एक माह का समय दिया गया है, दिन दो रह गये हैं। बुजुर्ग ने उत्तर दिया- तुम खाओ-पीओ, मस्त रहो। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, समाधान हो जायेगा। मन में संतोष हुआ, सच्चा हितैषी दुःख में बंटवारा कर देता है। 'धीरज, धर्म, मित्रा, अरु नारी, आपतकाल परखिये चारी।' एक व्यक्ति सोचता है मैं धैर्यशाली हूँ। धैर्यशाली तो वह है जो तूफान के क्षणों में भी धैर्य रखे। मित्रा को अच्छा खाने-पीने को मिले तब तक तो मेरा मित्रा, मेरा मित्रा ! आँख-मिचौनी का खेल है, पैसे नहीं रहे तो सभी पराये।

कोई मित्रा नहीं, दुःख में अकेले रह गये। लेकिन सच्चा मित्रा वह है जो विपत्ति में भी साथ दे। नारी वही जो दुःख में भी सहयोगी बनी रहे। नहीं तो एक तो पहले ही अन्तराय कर्म से दुःखी, फिर भोजन करने बैठे तो दस चीजों के साथ और क्या परासेगी ? दस बातें सुनायेगी। यदि यह स्थिति है तो समझिए उसने धन से विवाह किया है, पति से नहीं। धन-सम्पत्ति हो तो पति भी प्यारा, नहीं तो वह भी पराया लगता है। लेकिन जब विपत्ति की स्थिति बनती है, तब वह भी चाहता है कि मुझे सहारा मिले और कोई हितकारी बने। यह बोध हो जाये कि उपकारी का उपकार मानना चाहिए तब भी ज्ञान प्राप्ति का स्वरूप उजागर हो सकता है। नहीं तो आज व्यक्ति माता-पिता के प्रति भी कर्तव्य भूल जाता है।

स्थानांग सूत्रा में कहा गया है कि तीन के ऋण से कभी भी उऋण नहीं हुआ जा सकता। ये तीन हैं- माता-पिता, गुरु एवं वृत्तिकान्तार में सहयोगी बनने वाला। यदि जीते जी इस शरीर की चमड़ी इन्हें समर्पित कर दें तो भी इनसे उऋण नहीं हुआ जा सकता। माता-पिता ने बीज दिया, जिनकी बदौलत यह शरीर खड़ा है, उनका उपकार भूलना क्या उपयुक्त है ? गुरु ने आगम चक्षु दिये, तीसरा नैत्रा खोला है। कोई कहे गुरु ने कौनसा उपकार किया तो समझ लेना चाहिये कि वह ज्ञान के योग्य नहीं है। तीसरा उपकारी जो जंगल में मरणासन्न अवस्था में सहयोग दे। उससे भी उऋण नहीं हुआ जा सकता। उसके प्रति उपकार नहीं मानने वाला कृतघ्नी होता है। उपकारी के प्रति उपकार्य भाव रखने वाला कभी गलत मार्ग पर नहीं जायेगा। यदि चला भी गया तो सही समय पर मार्ग पर भी आ सकता है। क्योंकि उसमें प्रत्युपकार का भाव बना रहता है। यदि यह भाव उसने गौण कर दिया हो तो वह कृतघ्नी है।

वह व्यापारी बुजुर्ग के पास पहुँचा, राहत मिली। वह उनकी सेवा करके अनुभव लेता, उनकी विनय-भवित्ति करता। बुजुर्ग ने कहा- “यह मत समझना कि तुम विनय-भवित्ति करोगे, तभी सहयोगी बनूंगा, यह तो मेरा कर्तव्य है। जिस दिन चलना है, मैं चलूंगा।” वह समय भी आ गया। दोनों राजसभा में उपस्थित हुए। राजा ने कहा- महिना पूर्ण हो गया, राजकुमार की कीमत आँकिये। उस बुजुर्ग ने कहा- आप फरमा रहे हैं तो कीमत आँकी जा सकती है। पर मैं पहले राजकुमार को देखना चाहूँगा। आप भी पहले देखते होंगे। पैसों से ही संबंध नहीं हो जाता। राजकुमार को उपस्थित किया गया। बुजुर्ग ने खड़े होकर चारों ओर से राजकुमार को निरखा। उसके पश्चात् उसने राजकुमार के मरत्तक पर हाथ रखते हुए कहा- “हुजूर, मैं कीमत आँकू पर आप नाराज तो नहीं होगे ?” राजा ने बुजुर्ग को आश्वस्त कर दिया। हम जानते हैं कि जिसकी बुद्धि निर्मल होती है उसके लिये कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। मार्ग निकल ही आता है। बुजुर्ग ने राजकुमार के ललाट पर हाथ रखकर कहा- “हुजूर इसका तो मैं कह नहीं सकता, पर इसे छोड़कर इसकी दो आने से अधिक कीमत नहीं है।” राजा विचार में पड़ गया। किन्तु फिर समझगया कि इसके भाग्य की कौन कह सकता है ? गुदड़ी का लाल, जिसके भाग्य में जो होता है, वही मिलता है। ‘अच्छा भाग्य होता है तो सड़क पर घूमने वाला भी करोड़पति बन जाता है। इसलिए भाग्य का कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी शरीर तो दो आने का है, क्योंकि यदि वह रोजगारी करे तो दो आने से ज्यादा का कार्य नहीं कर पायेगा। थक जायेगा। पसीना आने लगेगा। बुजुर्ग ने यह कार्य कर लिया। जब विमल जिनेश्वर के दर्शन हो जाये तो न जाने किसे ज्ञान मिल जाये। कभी छोटा बालक भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, कभी बुजुर्ग भी बैठा रह जाता है।

एवन्तामुनि छोटे बालक ही थे, ध्रुव छोटा बालक ही था। जा रहा था, नारद ने पूछा- “कहाँ जा रहे हो ?” प्रत्युत्तर मिला- “परमात्मा की खोज में ?” प्रश्न किया गया- तुम क्या जानो ? बच्चे हो, जाओ खेलो। ध्रुव ने जवाब दिया- “मुझसे माता ने कहा है तो परमात्मा की गोद मिलेगी ही। पिता की गोद से विमाता ने हटा दिया तो परमात्मा की गोद में बैठूँगा।” रामायण का प्रसंग आता है- जटायु को रावण ने पकड़ लिया, उसके पंख काट डाले, वह गिर पड़ा। राम ने उसे देखा, हाथ फिराया, गोद में लेकर राम कहने लगे- जटायु ! तुम चाहो तो तुम्हारे स्वर्ण के पंख लगा दूँ। जटायु ने कहा- “भगवन् ! ये मौत तो एक दिन आने वाली है। मरना तो निश्चित है, पर आपकी गोद कहाँ मिलेगी ? मुझे तो गोद चाहिए।” कहते हैं, उसने श्रीराम की गोद में ही प्राणोत्सर्ग कर दिये। स्वर्ण के पंख लगवा लेता तो बहेलिया जल्दी पकड़ लेता। क्योंकि वह उड़ नहीं पाता, मारा जाता। जिन्दगी ही नहीं रहती, पर श्रीराम की गोद कब मिलती ? कवि कह गये- “धीर्ण धणी माथे किया रे” स्वामी का धारण नहीं किया तो गोद कैसे मिले ? मंगल नहीं किया, बुद्धि निर्मल नहीं की तो परमात्मा की गोद नहीं मिल पायेगी। मन विचलित हो जायेगा- सोने में, परिवार में। पर जटायु के मन में यह आकांक्षा नहीं थी। गजसुकुमाल से माता ने कहा- राजा बन जाओ, पर वे गद्दी के आर्कषण में लिप्त नहीं हुए। कहने लगे- ‘लेऊँ-लेऊँ संयम भार माता मोरी ए, आज्ञा तो देओ जी म्हांने मोद सूँ’। आज्ञा तो

मिल सकती है, पर मन में विरक्ति के भाव तो जगायें। गोद में बैठने की तैयारी हो तो वह आयेगी तो जीवन में रंग आ जायेगा, जीवनचर्या ही बदल जायेगी। उस बुजुर्ग ने ज्ञान के साथ अनुभव को जोड़ा। व्यापारी ने बुजुर्ग से अनुभव लिया। निरन्तर सेवा-सुश्रुषा की। उपकार्य भाव से अनुभव का भागी बना तब जीवन में मंगल का स्वरूप बना। मंगल के बीज प्रारंभ से ही हों, खाद भी मिले तो फल भी मिलेंगे। अतः प्रभु की स्तुति से जीवन को मंगलमय बनायें। जीवन का आमूलचूल परिवर्तन होगा। वीतराग वाणी तो उपलब्ध है पर उसे जीवन में दिनांक 31.10.96

समर्पण और सिद्धि

यह व्यवहार का सत्य है कि प्रयोजन के बिना मंद से मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी प्रवृत्ति नहीं करता। जो भी प्रवृत्ति होती है वह सहेतुक होती है, निर्हेतुक नहीं। सहेतुक अर्थात् उसके पीछे कोई न कोई कारण अथवा उद्देश्य अवश्य होता है। उसी के आधार पर कार्य की निष्पत्ति होती है। कवि आनंदघनजी कहते हैं- विमल जिनश्वर के दर्शनों के साथ- ‘म्हारा सिध्या वांछित काज’ मेरी कामना के अनुसार आज मेरा कार्य सफल हो गया। प्रश्न होगा- उनकी कामना क्या थी ? कामनाएँ अभिलाषाएँ अनेक होती हैं। उनका अन्त नहीं है। ‘इच्छा हु आगास समांतित्या’ (उत्तराध्ययन सूत्रा 9/48) इच्छा का छोर नहीं, उनकी सीमा नहीं। एक इच्छा पूर्ण होते-होते तत्काल दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। सिलसिला ऐसा बढ़ता है कि उनका कहीं अंत ही नहीं आता। पर आश्चर्य है कि ‘विमल जिनेश्वर’ के दर्शन होते ही कवि कहते हैं- ‘म्हारा सिध्या वांछित काज’। कैसे सिद्ध हो गया ? किसी की कोई कामना पूर्ण हो तो वह प्रफुल्लता से झूम उठता है। भावना सफल हो जाती है।

‘सिद्धांण णमो किच्चा’ अत्यंत अर्थगम्भीर सूत्रा है। यहाँ कामना नहीं है, यहाँ समर्पण है। कवि जो कह रहे हैं कि कार्य सिद्ध हुआ, तो वह कैसे व कब सिद्ध हुआ ? इस सम्बन्ध में वे कहते हैं- ‘धींग धणी माथे कियो रे।’ दुःखों से झुलस रहा था, दुर्भाग्य की काली छाया पीछा नहीं छोड़ रही थी। बड़ी तमन्ना थी कि मुझे सुख-सम्पत्ति मिल जाये। कितना मैं उसके पीछे भागे, वह छाया बन आगे-आगे भागती रही। मैंने पकड़ने की कोशिश की पर छाया हाथ नहीं लगी। हाथ लगा दुःख-दुर्भाग्य। मैं हैरान-परेशान हो गया। सोचने लगा- कब तक पीछे भागता रहेगा। ये छाया है, हाथ नहीं आयेगी। जैसे ही यह बोध हुआ, मैंने उधर पीठ कर दी। चारों ओर से थककर परेशान हुआ तो मैंने स्वयं को समर्पित कर दिया। व्यक्ति पहले स्वयं की सुरक्षा का प्रबंध करता है। हम जानते हैं कि इस दुनिया में सभी देश शांति की बात करते हैं। प्रत्येक देश शांति की कामना करता है। पर शांति कैसे प्राप्त हो ? बात तो करते हैं- शांति की, पर सुरक्षा के नाम पर बारूद के ढेर पर शांति का नारा बुलन्द किया तो क्या शांति प्राप्त हो सकती है ? सुरक्षा के नाम पर युद्ध के लिए विस्फोटक पदार्थों का संग्रह करते हैं और चाहते हैं शांति। इस रिथ्ति में शांति-सुख कैसे मिलेगी ?

कवि भी कह रहे हैं- पहले मैंने बारूद इकट्ठी कर ली कि प्रसंग आया तो इससे सुरक्षा प्राप्त होगी। पर देखा जितनी व्यवस्था सुरक्षा के लिये की, दुःख-दुर्भाग्य उतना ही बढ़ता गया और सुख की छाया उतनी ही दूर होती गई। मैं हताश हो गया। मैंने इतना इकट्ठा किया पर शांति नहीं मिली तो इस तैयारी का क्या मतलब ? मैंने स्वयं को शिथिल कर दिया, समर्पित कर दिया। धींग धणी कौन ? धींग मेवाड़ में तो गोत्रा है, पर कवि कहते हैं मैंने निराश होकर एक बलिष्ठ को अपने सिर पर आरोपित कर लिया अर्थात् मैंने सर्वस्व उनको समर्पित कर दिया। ‘त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव।’ तुम्हीं मेरे माता-पिता-बंधु और सखा हो। फिर मैं झूम उठा, देखा दुःख दूर हो गया। सुख का संचार हुआ। जिसके पीछे भागा, वह सम्पदा मिल गई। अब मुझे भरा-भरा लग रहा है। रिक्तता और हताशा दूर हो गई। हमें लग सकता है कि ये कथाओं, आगमों, कविताओं की कल्पनाएँ हैं, यथार्थ में घटित नहीं होती। पर हमारा सोचना गलत है। हम केवल सुनने की इच्छा ज्यादा रखते हैं, खोज नहीं करते। गहरे में पैठे बिना, बोध-संतोष प्राप्त नहीं होता। गहरे में उतरे बिना मोती नहीं मिलते। एक दृष्टांत है। गुरु और शिष्य टहलते हुए समुद्र के किनारे पहुँचे। शिष्य ने सुन रखा था, सागर गंभीर और गहरा होता है, पर उसकी दृष्टि पड़ी तो गुरुदेव से कहने लगा- “गुरुदेव ! ये क्या पानी में आग लग गई ? मतलब अब तक सुना था, सागर गंभीर होता है। तीर्थकरों को उपमा दी गई है- “सागरवर गंभीर” पर मैं देख रहा हूँ कि सागर में तरंगें उठ रही हैं। सागर में गंभीर होता है पर यह तो छलक रहा है। फिर गंभीर कैसे ? तीर्थकर को इससे उपमित कैसे किया गया ? गुरुदेव हल्की-सी मुस्कान के साथ कहने लगे- वत्स ! तुम

केवल ऊपर-ऊपर ही देख रहे हो, समुद्र के हार्द को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। केवल शब्दों को पकड़ रहे हो गहराई में नहीं उत्तर पा रहे हो। समुद्र में तरंगों का आना आवश्यक है, तरंगे न हों तो वह गहराई, श्रेष्ठ गहराई का रूप नहीं ले सकती। तरंगों का होना आवश्यक है। शिष्य कुछ समझा नहीं। गुरु कहने लगे- वत्स! ये भी निरर्थक नहीं हैं, आवश्यक हैं। यदि तरंगे न हों तो हर व्यक्ति गहराई में पहुँचकर उसके अंचल में रत्न ला सकता है, इसे खाली कर सकता है। तरंगों के होते जो गहरे में पैठेगा, वही रत्न प्राप्त कर पायेगा। गहरे में जाने के लिए परिश्रम करना होगा। उत्ताल तरंगों से संघर्ष करना पड़ेगा। फिर गहरे में उत्तर गया तो अक्षय निधि प्राप्त हो जावेगी। ये तरंगें कोष की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। ये समुद्र का स्वभाव नहीं है, ये तो सुरक्षा के लिए हैं। इन्हें देखकर व्यक्ति विचलित होता है। हमारे भीतर भी भाव तरंगें उठती हैं, यदि व्यक्ति इनमें झूलता रहे तो गहरे में नहीं उत्तर पायेगा।

गीता में कहा गया है- 'सर्व धर्मान् परित्यज्य, मामेकं शरणं व्रज'। प्रभु महावीर ने कहा- 'अरिहंते सरणं पवज्जामि'। बुद्ध या उनके उपासकों ने कहा है- 'बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि'। श्रीकृष्ण कह रहे हैं- सबको छोड़ मेरी शरण में आ जाओ। वहाँ बुलावा है। प्रभु महावीर बुलावा नहीं दे रहे हैं बल्कि उसके भीतर ही पैदा कर रहे हैं कि अरिहंत की शरण प्राप्त करो। एक बुलावा है, एक भीतर की आवाज। एक रस्सी का प्रथम छोर है तो दूसरा अंतिम छोर। यदि समाधान में पहुँचे तो उन्हीं में ग्रहीत हैं। दोनों में अंतर नहीं है। आप विचार करेंगे- हम साक्षात् देख रहे हैं फिर अंतर कैसे नहीं है। जहाँ से ये स्वर उद्धृत हुए हैं- द्रव्य, क्षेत्रा, काल और भाव से, आज वे चारों नहीं हैं।

यदि श्रीकृष्ण को त्रिाखंडाधिपति न मानकर तीर्थकर या परमात्मा के रूप में लें कि वे कह रहे हैं- सारे धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आओ', पर साधक कह रहा है मैं आपकी शरण में आता हूँ। हम बोलते हैं- 'अरिहंते सरणं पवज्जामि- 'मैं अरिहंत की शरण स्वीकार करता हूँ' पर क्या वे तुम्हें स्वीकार करते हैं? क्या वे कभी कहते हैं कि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, वही समाधान होगा। क्यों नहीं कहा अरिहंतों ने कि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ? क्योंकि द्रव्य-क्षेत्रा-काल और भाव चतुष्टय नहीं था। जिस समय प्रभु ने बात कही, वह श्रद्धा का युग था, भोली जनता दाँव-पेच नहीं जानती थी। जैसा कहा, वैसा कर लिया। प्रभु ऋषभदेव के शिष्यों से कहा जाता कि ऐसा करना है तो वे वैसा ही करते, उससे आगे प्रज्ञा कार्यरत नहीं होती। जैसे कहा गया- "नट का नृत्य नहीं देखना" तो आज्ञा पालन करते हुए नटनी का नृत्य देखने खड़े हो गये। इतना तर्क नहीं किया कि नट का नहीं देखना तो नटनी का तो देखना ही नहीं। यह बताया तो कहने लगे- तहति। अन्नदाता बड़ी कृपा की। यह थी सरलता, भोलापन। दूसरा युग आया- नट का खेल नहीं देखना, नटी का देख लिया। पूछा गया तो कहने लगे- आपने तो बताया ही नहीं। कितना अंतर है- द्रव्य, क्षेत्रा, काल और भाव में? इसलिए कहना पड़ा- 'अरिहंते सरणं पवज्जामि'। साधक कहता है- "स्वीकार करता हूँ।" यदि कोई कहे मेरी शरण में आ जाओ तो कहेंगे, क्यों चले आयें, क्या यही सबकुछ है? तर्क विकसित होगा। इसलिए साधक कहता है- अरिहंत की शरण ग्रहण करता हूँ। यदि अरिहंत कह दें, मेरी शरण में आओ तो उसे शंका होगी कि यह कह रहा है- 'आ जाओ' तो कहीं इसमें अहं की गंध तो नहीं है। इसलिए तीर्थकर मौन रहते हैं। साधक ही कहता है- मैं शरण स्वीकार करता हूँ। यथार्थ में स्वीकार हो तो वहाँ रूपान्तरण होगा। हम जानते हैं कि विज्ञान शोध करता है और सूत्रों को लेकर आगे बढ़ता है। इसमें मर्म क्या है? धर्म ग्रंथों में उसे महत्ता क्यों दी गई? धर्म गुरु या धार्मिक कहलाने वाले वहाँ नहीं पहुँचे पर जो पहुँचे उन्होंने खोज की है। रॉबर्ट पावलिय ने गहरी खोज की। उन्होंने समझ लिया कि सबसे पहले काया का प्रयोग करें, फिर आगे सूत्रा पकड़ पायेंगे। सीधे आत्मा या मन तक पहुँचना कठिन है। उन्होंने देखा- एक व्यक्ति खड़ा है, एक व्यक्ति बैठा है। उनके भीतर जो विचार चलने लगे- उनमें अंतर है। उन्होंने प्रयोग किया, प्रयोग विवित्रा था। कोई व्यक्ति यदि तनाव में है तो उसे दूर कैसे करें? कोई व्यक्ति यदि मानसिक रोग से रुग्ण है तो उसे कैसे ठीक करें? वे एक-एक सूत्रा पकड़कर खोज करते-करते पहुँचे तो एक फार्मूला ईजाद किया- जो रोगी तनाव से ग्रस्त हैं, उसे एक स्वरूप गाय के नीचे सुला दिया जाता। चित लिटाने के पश्चात् उससे कहा जाता- सारे शरीर को शिथिल कर दो। यह वही क्रिया है जिसे योग शास्त्रा की दृष्टि से योग निद्रा कह सकते हैं। फिर उसके भीतर भावना का संचार किया जाता। रॉबर्ट पावलिय ने कहा- तुम अपने में यह भावना करो कि मैं स्वरूप हूँ, मैं स्वरूप हूँ। गाय की ऊर्जा मेरे भीतर प्रविष्ट हो रही है, मेरा रोग दूर हो रहा है, मैं निरोग हो रहा हूँ। प्रयोग करके 5 मिनट बाद यंत्रा में परीक्षण किया गया तो पता चला कि 5 मिनट पूर्व जो मानसिक तनाव था, वह समाप्त हो गया था। किसी को तेज ज्वर हो तो वह बर्फ-शिला के प्रयोग से नॉर्मल स्थिति में आ जाता है, स्वरूप हो जाता

है। कई ऐसे व्यक्ति जिनमें इतनी थकान होती है कि उठना नहीं, पड़े रहना चाहते हैं, उन पर प्रयोग किया गया तो देखा गया कि 5 मिनटों में उनमें स्फूर्ति आ गई। किसी व्यक्ति ने रॉबर्ट पावलिय से कहा- आप सुलाकर प्रयोग करते हैं, क्या बैठे-बैठे भी किया जा सकता है ? उसने कहा- हाँ, हो सकता है। पर जो कार्य सोने में 5 मिनट में हो सकता है वह बैठने पर उठना शीघ्र नहीं होगा। जब तक उसके चारों ओर सुरक्षा की दीवार या विश्वास न बने, स्वरथ नहीं किया जा सकता है। विचारों की दीवार को एक महात्मा उपदेश दे रहे थे। परमात्मा पर विश्वास की बात कह रहे थे। दूसरे दिन एक बहिन दूध लेकर देर से पहुँची, माहात्मा ने पूछा- क्या बात है ? बहिन ने कहा- नदी में पूर था, नौका नहीं मिली, इसलिए विलम्ब हो गया। महात्मा ने कहा- “परमात्मा के नाम का विश्वास रखकर चली आती। उसने विश्वास कर लिया। दूसरे दिन भी पूर था परमात्मा का नाम लेकर चली और जल्दी पहुँच गई। महात्मा ने पूछा- आज जल्दी कैसे आ गई ? उसने बताया- मुझे परमात्मा के नाम से मार्ग मिल गया।

जन्माष्टमी के प्रसंग की बात हम सब जानते हैं- वासुदेव, कृष्ण को लेकर पहुँचे, यमुना में उफान आ रहा था, लेकिन कृष्ण के अंगूठे का स्पर्श हुआ तो मार्ग मिल गया। कथा का यह प्रसंग हमें अतिरेक लगता है, पर वर्तमान काल में भी कहते हैं कि चन्द्रकान्त मणि से मार्ग मिल जाता है। हम उस प्रसंग को चाहे जिस रूप में लें पर वह बात अर्थ, देश, काल के अनुसार है। यदि विश्वास हो तो कार्य सम्पन्न होता है। कवि आनन्दधनजी कह रहे हैं- जब तक मैंने सुरक्षा की दीवार बना रखी, छाया बना रखी तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। जब मैंने परमात्मा को स्वामी बना लिया, मैंने उनकी शरण स्वीकार कर ली, तब वे दुःख-दुर्भाग्य उल्टे पाँव भागे, टिके ही नहीं। सुख-सम्पद का स्रोत प्रवाहित हो गया। अब कोई चिन्ता नहीं रही। क्योंकि धीर्घ धणी को अपने माथे पर कर लिया तो उनकी क्षमता-शक्ति से दुःख-दुर्भाग्य स्वतः दूर हो गये। इकट्ठी की हुई बारूद को बाहर फेंका तो परमात्मा ने सहारा दिया। जैसे डूबते को नौका का सहारा मिल गया। सहारा नहीं मिले तो वह कितने ही हाथ-पाँव मारे पर तैरेगा नहीं। व्यक्ति सोचता है दीवारों से मेरी सुरक्षा होगी, पर यह विचार ही भूल है। शरण स्वीकार करना है तो दीवार ढहानी पड़ेगी। रॉबर्ट पावलिय ने सुलाने की बात कही है। यह शवासन की प्रक्रिया भारतीयों की है, पर हमने उसका लाभ नहीं उठाया। लाभ उठाया उन पाश्चात्य विद्वानों ने। फ्रॉयड मनोचिकित्सा करते हैं। वे कहते हैं- जब पहले मैं सामने बैठा तो भी खुल नहीं पाता था। लेकिन जब बीच में पर्दा लगाकर मैं स्वयं ओट में बैठ गया और जैसे ही व्यक्ति ने सारे अंगों को शिथिल किया, मुँह से सारे अपराध स्वीकार कर लिये। रोगी की यह क्रिया ऐसी थी जैसे वह अकेले स्वयं से बात कर रहा था। अपने सामने अपराध स्वीकार कर लेने में किसी को संकोच नहीं होता। यहाँ फ्रायड पर्दे के पीछे था। व्यक्ति के बीच यदि उसकी उपरिथिति का दायरा होता तो वह संकोच की दीवार गिरा नहीं पाता। लेकिन जब दिखा कोई नहीं है तो उसने सारी दीवारें गिरा दी, शांत हो गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि समर्पण के सूत्रा का प्रथम चरण शवासन है। तनाव शांत करना है तो व्यक्ति आनंद केन्द्र में ध्यान लगावें। व्यक्ति शिथिल हुआ कि सारे तनाव भी शांत। वैज्ञानिकों ने यह प्रयोग किया तो हमने भी माना कि शरण स्वीकार करने में, दीवार ढहाने में बहुत तत्व है अन्यथा ‘अरिहंते सरणं पवज्जामि’ तो हम कब से कहते आ रहे हैं। महात्मा से बहिन ने कहा- आपके कथनानुसार मैं परमात्मा पर विश्वास करके चली आई। महात्मा के एक शिष्य ने सुना, उसके मन में प्रयोग करने का विचार आया। वह कुछ कहे बिना चल पड़ा। ‘णमो अरिहंताणं’ कहकर नदी में पैर रखा। णमो अरिहंताणं का उच्चारण कर कदम बढ़ाता गया। आगे बढ़ता गया। पानी कंठ तक आ गया, उसे लगा, अब मैं मरा। अरे, वह बहिन तो कुछ और कह रही थी, पर मैं बैठूंगा नहीं, वापस लौट गया। महात्मा के पास पहुँचा, कहने लगा- आप कहते हैं परमात्मा के नाम में इतनी शक्ति है कि नदी पार की जा सकती है। महात्मा ने कहा- बात सही है। नाम- स्मरण कर जब भवसागर से पार हो सकते हैं तो नदी क्या चीज है। शिष्य ने पूछा- फिर मैं क्यों तिर नहीं पाया। महात्मा ने प्रश्न किया- तुमने क्या उपाय किया था ? उत्तर मिला- मैं जैसे ही नदी के निकट पहुँचा- ‘णमो अरिहंताणं’ का उच्चारण किया, णमो अरिहंताणं कहता हुआ बढ़ता गया। महात्मा ने उत्तर दिया- यही तो कमी थी। तुम्हारे मन में संदेह था। एक-एक पग पर णमो अरिहंताणं बोलते गये। पर ‘अरिहंते सरणं पवज्जामि’ या ‘सिद्धाणं णमो किच्चा’ से भाव-समर्पण कर दिया होता तो यह नौबत नहीं आती। बहिन से पूछा गया- तुमने क्या किया ? उसने कहा- परमात्मा तो भवसागर से तिराते हैं तो नदी से क्यों नहीं तिराएंगे। नाम लिया और धड़ल्ले से बढ़ती गई। आगे-पीछे नहीं देखा। सोचिये, आगे-पीछे देखते रहें तो काम कैसे होगा ? परमात्मा सहयोगी कैसे बनेंगे ? सिद्ध प्रभु को नमस्कार करना है- भाव से ये नहीं कि ऊपर से नाम लेते रहें। नाम हृदय की गहराई से लें। नाम तो महात्मा के शिष्य ने भी लिया था, पर

लाभ नहीं हुआ। बहिन ने एक बार समर्पण भाव से नाम लिया तो पार हो गई। हमारे यहाँ जंघाचरण, विद्याचरण मुनि का वर्णन आता है। वे एक बार 'णमो अरिहंताणं' बोले कि कार्य हो गया। जब भीतर ऐसा विश्वास बनता है तब ही सफलता मिलती है। मुख्य वस्तु आस्था, विश्वास और समर्पण है। एक धावक नदी किनारे जाकर सोचे कूटूं या नहीं, तो क्या पायेगा? लगा दी छलांग, तभी तिरने की कला सीख पायेगा। उसी प्रकार जब तक समर्पण की छलांग नहीं तब तक परमात्मा तक नहीं पहुँचा जा सकता। समुद्र में लहरें उठ रही हैं, पर गहराई में नहीं उतरे तो क्या मिलेगा? वैसे ही ऊपर-ऊपर से देखकर कहें- नमस्कार मंत्रा में क्या चमत्कार है तो चमत्कार कैसे घटित होगा? सुदर्शन, सीता आदि की कथाओं में आप सुन चुके हैं कि कैसे शूली का सिंहासन बन गया और अग्नि शीतल हो गई। आप विश्वास नहीं करेंगे, सोचेंगे कि पहले ऐसा होता था तो आज क्यों नहीं होता? आज विश्वास नहीं है, गहरे में नहीं उत्तरते। तरंगों में झूलते रहे तो कुछ नहीं मिलेगा। 'धीर्ज' अर्थात् समर्थ स्वामी की किरणों से कवि के दर्द मिट गये। वहाँ शस्त्रा-अस्त्रा उठाने की जरूरत नहीं, चाहे कुछ भी सामने आये, विजय मिलेगी ही। कौण गंजे याने माथा और खेट का तात्पर्य है दुर्जन अर्थात् फिर कोई खल नहीं आयेगा, फिर उसकी क्या हिम्मत कि आँख उठा ले। ये क्रोध, मान, माया और लोभादि खल हैं। समर्थ स्वामी नहीं तो ये सजग हो जाते हैं। जब तक बारूद इकट्ठा करने में समय गंवाया तब तक सुरक्षा नहीं हुई। पर जब समर्थ को स्वामी रूप में स्वीकार कर लिया, स्वयं को समर्पित कर दिया, तब उकसाते और बुरी नजर डालते क्रोध आदि खल परास्त हो गये। पास आने से घबराने लगे, दूर से ही भाग गये। समर्पण के सही तौर-तरीकों से इलाज करें, तभी स्वरथ होंगे। दुःख-द्वंद्व नहीं रहेंगे। हम जो भी कार्य करते हैं, उसके पीछे कोई हेतु होता है। कवि ने भी कहा है, मेरी सफलता में हेतु था। मैंने आश्रय लिया तो चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। ऐसा परिवर्तन हमारे भीतर भी हो सकता है। अहमदाबाद वाले रोशनलालजी मेहता ऐसे ही परिवर्तन के कारण डाकुओं के बीच फँसकर भी सुरक्षित बच गये। ये अवस्थाएँ ऐसी हैं कि जब तक हम इनमें गहराई से न उतरें, लाभ नहीं मिलेगा। तरंगों में ही झूलते रहेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। कभी-कभी कहा जाता है- गुरु के भीतर भी ऐसा प्रसंग उपस्थित हो सकता है किन्तु वह भी शिष्य के हित के लिए होता है।

उत्तराध्ययन-सूत्रा में कहा गया है- गुरु शीतल या कठोर, कैसी भी शिक्षा दे, उसमें भी हित निहीत होता है। हम उसे समझ नहीं पाते। हमने जब समर्पण कर दिया है तब यह उनका कर्तव्य है कि वे हमारा हित देखें। यद्यपि परमात्मा हमारा कुछ नहीं करेंगे, पर उनकी करुणा का आभामंडल ही ऐसा है कि उसमें किसी भी खल-दृष्ट आदि का प्रवेश नहीं हो सकेगा। गुरु का आभामण्डल साढ़े तीन हाथ का बताया गया है। उसमें प्रवेश से पूर्व अनुमति लेकर विधि को जान लें, फिर प्रवेश करें तो बात हितकर होगी। समर्पण के पश्चात् सुरक्षा का दायित्व उन पर आ जाता है। वे ही मात-पिता, बन्धु और सखा रूप हैं। ऐसे भाव बनें तो फिर वहाँ अजस्त्र शक्ति का स्रोत प्रवाहित होगा। ये भाव हमारी सुरक्षा में कारणभूत होंगे। जैसे समुद्र की गहराई से रत्न प्राप्त होते हैं, वैसे ही अपने भीतर की गहराई में श्रद्धा और समर्पण का प्रस्फुटन होगा, तभी सच्चे आनंद की अनुभूति होगी। कवि आनंदघनजी कह गये हैं- 'धीर्ज धणी मथे कियो रे। हम भी कहते हैं- अरिहंते सरणं पवज्जामि। कृष्ण का उद्घोष है- सर्वधर्मान् परित्यज्य, मामेकं शरण व्रज। इसी गहराई में पहुँचे- यह शरण, यह समर्पण, यह आस्था ही समुद्र की गहराई है। ऊपर की उत्ताल तरंगों से भयभीत न हों। गहराई में गति करें। गति करेंगे तो 'स्व' स्वरूप में स्थापित होकर आनंदित हो पाएंगे।

दि. 1.11.96

दृष्ट पदार्थ में निर्वेद का महत्व

देवाधिदेव श्रमण भगवान महावीर भव्य आत्माओं के कल्याणार्थ दिव्य देशना का सौभाग्य प्रदान करते रहते थे। अनेक श्रोता देशना का अमृतपान कर देशना की समाप्ति के उपरान्त अपने-अपने गंतव्य स्थलों की ओर गतिशील हो जाते थे। किन्तु कई जिज्ञासु एवं कई मुमुक्षु लौटते नहीं, वहीं स्थिर हो जाते थे। मन में विचार बनता था कि प्रभु की देशना तो जीवन का उद्धार करने वाली है। अतः उसका लाभ निरन्तर लिया जाये। वहाँ ऐसी ही भावना वाला एक साधक भी पहुँचा। उसने उपदेश सुना- वह दुःख से आर्त था। बार-बार दुर्भाग्य को कोसता था। मेरी जिन्दगी भी कैसी है! लोग कहते हैं- मनुष्य देह दुर्लभ है। 'बहु पुण्य केरा पुँज थी, शुभ देह मानव नो मल्यो' पर मैंने क्या फायदा उठाया? दिनभर कड़ी मेहनत करके दो जून की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाता हूँ। एक

दिन काम न करूँ तो दूसरे दिन खाली पेट सोना पड़ता है। यह भी कोई जीवन है ? दूसरी ओर देखता हूँ, कोई मेहनत नहीं, परिश्रम नहीं, गाड़ी में दौड़ते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, कितनी सम्पन्नता ! ऐसी स्थिति में मेरा जीवन तो भारभूत है।

वह जीवन को कोसता रहता, परन्तु कोसते रहने से तो कोई सुखी नहीं हो सकता। जब तक सुख का स्रोत न मिले, व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। वह स्रोत पाना भी कठिन काम है। इतनी बातों, अनुष्ठानों का ध्यान कैसे रखें। गूढ़ आगम, उनके भी 11 अंग, उनके भी अनेक भाग- मूलपाठ, अर्थ, टीका, टब्बा, भाष्य, चूर्णि आदि पढ़ते-पढ़ते ही जिन्दगी पूरी हो जाये। सुख कब मिलेगा ? सुख आगमों में खोजें तो भी नहीं मिलेगा। क्या करें, कैसे करें ? वह व्यक्ति दुःख से व्यथित था, प्रभु की देशना सुनी। भगवान ने कहा- 'भव्य प्राणियों ! सुख का स्रोत प्राप्त हो सकता है। ऐसा स्रोत, जो न कभी अवरुद्ध हो, न सूखे। उस भाई के कान खड़े हो गये। अरे वाह ! मेरे मन की मुराद पूरी होगी, मनोरथ सफल होंगे। प्रभु कह रहे हैं तो स्रोत मिल जायेगा। वह फिर सूखेगा नहीं, विलीन नहीं होगा। मैं तो यही ढूँढ रहा था। मारा-मारा फिर रहा था। कभी किसी व्यापार में तो कभी किसी व्यापार में, पर सुख मिला नहीं। भगवान कह रहे हैं- प्राप्त हो सकता है तो मैं भी सुनूँ। अगर मुझे स्रोत मिल जाये फिर कहना ही क्या ? बस, वह ध्यान से देशना सुनने लगा।

प्रभु महावीर ने कहा- "दिट्ठेहिं निव्ययं गच्छेज्जा" केवल तीन शब्द हैं। यह है, सुख का स्रोत। किसे चाहिए ? तात्पर्य है "दृष्ट पदार्थ में निर्वेद को प्राप्त हो जाये।" ईर्ष्या, राग, द्वेष छोड़ने की बात भी नहीं है। केवल दृष्ट से निर्वेद की बात है। उस व्यक्ति ने सोचा- यह तो सरल है। जिसे देखो, उससे उदासीन हो जाओ। जो-जो सामने आये, उससे उदासीन होना है। संयोग से वह घर गया। भगवान की वाणी से रोटी का जुगाड़ तो होना नहीं था। घर में पत्नी के तेवर तेज देखे। पत्नी ने देखा- खाली हाथ आये हैं, आज भी भूखे पेट सोना पड़ेगा। "ऐसा क्यों बोल रही हो ?" "क्या लाये हो ?" उत्तर मिला- जो आज लाया हूँ, वह पहले कभी नहीं लाया था। मैं आज सुख का स्रोत लाया हूँ। उसने कहा- पहेलियाँ तो नहीं बुझा रहे हो ? खाने का तो पता नहीं, सुख का स्रोत कहाँ से आ गया ? उस भाई ने कहा- मैंने भगवान से सुना है। भगवान ने कहा- "दिट्ठेहिं निव्ययं गच्छेज्जा" मैं जो खोज रहा था, मुझे आज मिल गया। अब कुछ नहीं चाहिए। पत्नी ने कहा- आज उपदेश सुन आये। कल भी उपदेश सुनने चले जाना। ये स्रोत तो हवाई किले ही हैं। कितने दिन हो गए, कभी पेट भर रोटी नहीं खाई। साग नहीं तो नमक मिर्च से काम चलाया। संतों के उपदेश में पड़ गये तो खुद भी भूखे रहोगे, मुझे भी भूखा रखोगे। उसने फिर कहा- अरे ! तू विचार मत कर। भगवान ने कहा है तो विश्वास रख। क्या विश्वास रखूँ। उसने सोचा- अब ये बोल रही है तो मुझे इससे उदासीन हो जाना चाहिए। प्रभु ने निर्वेद की बात कही है। मैं नहीं बोलूँ, जबाब नहीं दूँ। नहीं बोलूँगा तो क्लेश नहीं बढ़ेगा। चुप हो गया। बात समाप्त हो गई। उसने देखा- सूत्रा तो जोरदार है। यह सूत्रा ज्ञात नहीं होता तो वह दो बात बोलती, मैं भी चार बोलता, चुप क्यों रहता ? खंड करता। इस प्रकार बातों की श्रृंखला बढ़ती जाती। पर आज जो सूत्रा मिला है, वह वास्तव में सुख का स्रोत है। भगवान ने कहा है- जो भी झागड़ा है, वह है पुद्गलों के कारण। किसी को जो मनोज्ञ है, उसे प्राप्त करने की चाहत है, ख्वाहिश है। यदि प्राप्त नहीं, जिसे हम चाहते हैं, उसे कोई दूसरा चाहता है तो संघर्ष पैदा होगा। संघर्ष से वह चाहेगा मेरी बात नीची न हो। बात नीचे गई तो मामला बिगड़ जायेगा।

सब्जी मंडी में दो व्यक्ति सब्जी खरीदने गये, दोनों नौकर थे। बड़े सेठों के घर नौकरी करते थे। दोनों एक ही दुकान पर पहुँच गये। ताजी भिंडी आई हुई थी। दोनों ने एक साथ ही भाव पूछे। विक्रेता ने कहा- 5 रुपये, 7

रुपये किलो- जो भी रहा हो। जितनी टोकरी में थी, उसे पूरे का भाव पूछा गया। भाव बता दिया। पहला कहने लगा- ये लो 5 रुपया, माल मुझे दे दो। दूसरे ने कहा- भाव मैंने पूछा है, मुझे दो। पहले ने 7 रुपये निकाले। दूसरा भी कम नहीं था- 10 रुपया। बोली चढ़ने लगी। आखिर में एक नौकर 3800/- रुपया में खरीद कर ले गया। आप कहेंगे, कपोल कल्पना है। पर यह कपोल कल्पना नहीं है, ऐसी बातें कई बार घट जाती हैं। भिंडी वाले का दुःख-दुर्भाग्य दूर हो गया। उसे तो ऐसा संयोग मिला पर 'दिटेठहिं निव्वेयं गच्छेज्जा' यदि दोनों इस दृष्टि से निर्वेद प्राप्त कर लेते तो बात नहीं बढ़ती। निर्वेद नहीं था इसलिए संघर्ष बढ़ा। एक महात्मा चले जा रहे थे, मार्ग भूल गये। विचार करने लगे, किस रास्ते पर जाऊँ ? अचानक दूर खेत में एक किसान दिखा। किसान खेत में हल जोत रहा था। महात्मा ने पुकारा तो किसान निकट आया। महात्मा ने पूछा- भाई ! अमुक गाँव का मार्ग किस दिशा में है ? मुझे बता दो। किसान ने कहा- महाराज ! आप तो भटक गये हैं, खैर चलिये। मैं सही मार्ग तक पहुँचा देता हूँ। किसान महात्मा के साथ हो गया। जहाँ से सही मार्ग का संयोग था, वहाँ तक पहुँचाकर कहने लगा- आप थोड़ा आगे बढ़कर बाँयें मोड़ पर मुड़ जाना अपने गंतव्य तक पहुँच जाओगे। महात्मा ने कहा- दया पालो और वे आगे बढ़ने के लिए कदम रखने लगे। कृषक ने कहा- ठहरो महाराज ! मुझे भी मार्ग बता दो। महाराज ने सोचा, देर तो हो रही है पर जब कह रहा है तो कुछ बता दूँ। देखो भाई ! मार्ग लम्बा है, मुझे भी आगे बढ़ना है, तुम्हें भी काम है। पर एक बात कहता हूँ कि 'मन का जाणिया नहीं करना' अर्थात् जिसकी जानकारी मन को मिल जाये, वह कार्य नहीं करना। वाह महाराज ! आपने ठीक मार्ग बताया। महात्मा आगे बढ़ गये। कृषक कुछ देर तक महात्मा को देखता रहा फिर उसने विचार किया, अब मैं चलूँ। पैर उठाने वाला ही था कि रुक गया। महाराज ने कहा है- मन का जाणिया नहीं करना। यह बात तो मन ने जान ली, लौट जाऊँ। पर मन ने जान लिया तो यह तो करना ही नहीं। सूत्रा छोटा है। हँसी आ सकती है कि उसने बात पकड़ ली। पर यदि गहराई में पहुँचें तो ही तत्त्व को प्राप्त कर पायेंगे। वह उस सूत्रा में रमते-रमते इतना गहरा उत्तरा कि वहीं केवलज्ञान की प्राप्ति हो गई। वह साधक विचार करने लगा- प्रभु ने कितना सुन्दर स्रोत बताया है- 'दिटेठहिं निव्वेयं गच्छेज्जा' भोजन के लिये जा रहे हैं, भोजन नहीं मिला या सामग्री सही नहीं है और कोई कड़वी बात कह दे तो वहाँ निर्वेद प्राप्त कर लो। उदासीन हो जाओ। उदासीनता का तात्पर्य यह नहीं जो कुछ करना है उसका निरोध करो, बल्कि उदासीन हो जाओ। क्रोध से उदासीन हो जाओ तो वह भड़केगा नहीं। यदि व्यक्ति विषयों से उदासीन हो जाये तो कर्मबंध नहीं होगा। वह भाई विचार करने लगा, सुन्दर मार्ग है। उस पर चलते हुए प्रभु के पास गया। भगवन् ! आपने मुझे निहाल कर दिया। मैं दुःखी था। आपकी देशना सुनी, सुखी हो गया। मैंने सुना था- निर्गन्ध का उपदेश असरकारक होता है। सुख की टोह में घूमता रहा। आपने कहा- सुख का स्रोत प्राप्त हो सकता है। मुझे जिज्ञासा थी। मैं एकाग्र होकर सुनने लगा। आपने जो फरमाया, यथार्थ में मेरे जीवन में यह महत्वपूर्ण रहा है, मैं निहाल हो गया। मेरे जीवन में परिवर्तन हो गया। अब मुझे संसार में रुचि नहीं रही है। अब तक जिनके पीछे मेरी दौड़ थी वह रुक गई है। अब किसके लिए दौड़ूँ? अब तक बच्चों की चिन्ता रहती थी, पर अब वह स्थिति नहीं रही। आपके एक वचन में इतना सुख मिला तो अब मैं चाहता हूँ पूर्ण रूप से आपके चरणों में अपित हो जाऊँ। उसने साधु जीवन स्वीकार कर लिया। साधु जीवन स्वीकार करके चल रहा था। अब तक जो सङ्क पर था, अब मुनि परिवेश में आ गया। कई लोगों ने प्रशंसा की। धन्य है, अपने जीवन को कृतार्थ कर लिया है। उसे प्रशंसा से प्रमोद आने लगा। वैसे ही वे शब्द कान में उद्घोषित ध्वनित हुए 'दिटेठहिं निव्वेयं गच्छेज्जा' निर्वेद को प्राप्त हो जा। उलझना मत। प्रशंसा में फूलना मत। शब्दों में निर्वेद नहीं किया तो फिर दुःख में पड़ जाओगे, गति ठीक नहीं रहेगी। प्रभु का सूत्रा ध्यान में रखकर थोड़ी दूर आगे बढ़ा कि शब्द आये कानों में, अरे देखो तो सही। खाने-पीने के लाले पड़ रहे थे। भगवान के पास दीक्षित हुआ तो पाँचों अंगुलियाँ धी में हो गई। गोचरी लायेगा, बहुत-से बहराने वाले मिल जाएंगे, मस्ती से खायेगा। सभी प्रकार के लोग मिलते हैं। थोड़ा विचार आया पर फिर सावधान हो गया। सामान्यतः हम सूत्रों को सुनते हैं, पर अपनी आत्मा में नहीं उतार पाते। जब तक जीवन में उतारें नहीं, वह कानों का विषय तो बन सकता है पर संबंध नहीं जुड़े तो स्वाद, माधुर्य आदि उससे नहीं ले पायेंगे। साधक-साधना में गहरा उत्तर गया, विषयों से लगाव नहीं रहा, आत्मकल्याण के पथ पर

आगे

बढ़ने

लगा।

कथा के अभ्यकुमार के चिंतन पर ध्यान दें। वह जानता था कि महात्मा, महात्मा होते हैं, त्याग बड़ा होता है। ये बात अलग है कि वह त्याग करके पुनः प्रपंच में पड़ जाये। त्याग मार्ग पर चलने वाला हिंसा, असत्य आदि का त्याग करता है, यह मामूली बात नहीं। अभ्यकुमार ने रत्नों के ढेर लगाये और घोषणा करवाई, जो जीवनपर्यन्त

के लिए तीन करण, तीन योग से हिंसा का त्याग, असत्य का त्याग करे, वह एक-एक ढेरी ले जा सकता है। बहुत से व्यक्तियों ने सुना, विचार करने लगे- यदि अहिंसा का पालन करना है तो फिर धन किस काम का ? क्योंकि जहाँ आरंभ है, वहाँ हिंसा सुनिश्चित होगी। चाहे एक कदम बढ़ाएँ, वहाँ भी हिंसा का संबंध जुड़ेगा। हमारे संत भी, तीर्थकर भी गति करते हैं। इर्यापथिकी क्रिया वहाँ भी होती है, आरंभ वहाँ भी है, किन्तु संकलेश नहीं होने से कर्मबंध नहीं होता है। पहले समय में बंध, दूसरे समय में वेदन और तीसरे समय में निर्जरा होती है। परन्तु जो कषाय युक्त हैं, प्रगाढ़ भावों से युक्त हैं, जहाँ यतना नहीं है, वहाँ पग-पग पर आरंभ होता है। आरंभ के रूप में एक प्रकार की हिंसा ही होती है। इसलिये संतों की वाणी का अनुसरण करना चाहिए। उनके वचनों को जीवन में उत्तारने का प्रयास करना चाहिये। क्योंकि कहा गया है- 'एक वचन जो सद्गुरु केरो, जो पैठे दिल माँय रे रे प्राणी...'।

अधिक नहीं, यदि प्रतिदिन एक वचन भी व्यवहार में उत्तर जाये तो हमारा उद्घार हो सकता है। माषतुषमुनि ने क्या किया ? साधु बन गये, ज्ञान-ध्यान नहीं आता था। दूसरों ने मजाक किया- कैसा ठोठी राम है। ज्ञान-ध्यान नहीं, खा लिया-पी लिया और आराम कर दिया। लोगों के ऐसे वचन सुनकर उन्हें दुःख होता था। उन्होंने एक दिन गुरुदेव से निवेदन किया कि मुझे लोग ऐसा कहते हैं। गुरुदेव ने कहा- एक सूत्रा याद कर लो, 'मा रुष, मा तुष'। याद करते-करते मुनिजी को जंगल की हाजत हुई। वे बाहर गये, निवृत्त होकर लौटे तब तक सूत्रा भूल गये थे। विचार करने लगे- गुरुदेव ने कौनसा सूत्रा बताया था ? लौट रहे थे, रास्ते में एक किसान अनाज साफ कर रहा था, हवा में उड़ाकर फूस और अनाज अलग-अलग कर रहा था। मुनि ने पूछा- 'तुम क्या कर रहे हो ?' वहाँ उड़द थे। उड़द को माष भी कहते हैं। किसान ने कहा- ये माष है और ये तुष है। उन्हें लगा, गुरुदेव ने शायद यही सूत्रा मुझे बताया था। अहो ! गुरुदेव ने कितना गहरा सूत्रा दिया है कि माष अलग है, तुष अलग है। इसी प्रकार मेरी आत्मा अलग है, शरीर अलग है। भूसे को अलग करके सार प्राप्त किया जाता है। मेरी आत्मा स्वच्छ निर्मल स्वरूप है। दुनिया में ऐसा कौन-सा पदार्थ है, जिससे वैराग्य उत्पन्न न हो। वैराग्य उत्पन्न हो सकता है, बशर्ते हमारा चिन्तन उस दिशा में चले। निर्वेद चिन्तन से पैदा होगा। इसीलिए भावनाएँ हैं- राजा, राणा, छत्रापति हथियन के असवार...। इन्हें अनुप्रेक्षा भी कहा है- ये चिन्तन से जुड़ी तो जीवन में निर्वेद आ जाएगा। केवल किताब में पढ़ी गई स्थिति से नहीं, बल्कि स्वयं खोज में गहरे उतरें। फिर देखिये उस नुस्खे का प्रभावशाली असर होगा। कभी-कभी कहते हैं- आज वीतराग वाणी का प्रभाव नहीं होता। होता है, अगर अनुप्रेक्षा को जीवन का अंग बना लें। फिर घटित होगा असर। एक सूत्रा है- 'मन का जाणिया नहीं करना, 'दिट्ठिहिं निवेयं गच्छेज्जा' कवि आनन्दघनजी ने भी कहा है- दुःख दोहग दूरा टल्या रे.....। सुख प्राप्त होगा। ऐसा सुख जो फिर बिछुड़े नहीं। उस सुख को बंद करके न रखें अन्यथा स्रोत सूख जायेगा। कहा जाता है- धर्म और समाज बैलगाड़ी है, धक्का लगाओ तो चलेगी। पर जरुरी नहीं है कि धर्म धक्के से ही चले। तीर्थकरों की वाणी को सही रूप में ग्रहण करें। धर्म एवं अध्यात्म में रमण करते हुए जीवन में दिट्ठिहिं निवेयं गच्छेज्जा- सूत्रा को स्थान देंगे तो जीवन में सर्वत्रा मंगल का प्रसंग उपस्थित होगा।'

दि. 2.11.96

शुद्ध वैतन्य स्वरूप की प्राप्ति का उपाय

शासनेश प्रभु महावीर ने भव्यात्माओं को जो उद्बोधन दिया, जो देशना दी, उसका महत्वपूर्ण सूत्रा है- 'जे गुणे से मूल ठाणे, जे मूल ठाणे से गुणे।'

शब्द सीमित हैं किन्तु गहन भावों से सम्पृक्त हैं। कवि आनन्दघनजी जैसे भक्तों ने भी कविता के माध्यम से इसी प्रकार परमात्मा के चरणों में अपनी भावनाएँ व्यक्त की हैं। भक्ति भावना के आवेग में ही उन्हें विमल जिनेश्वर के दर्शन हो गये और वे गा उठे- 'विमन जिन दीठा लोयण आज' और वे तृप्त हो गये। वे ही क्यों, सभी की यही भावना रहती है कि उन्हें परमात्मा के दर्शन तथा परमात्मा का चरणश्रय प्राप्त हो। पर यह प्राप्त कैसे हो ? इसका ज्ञान भी आवश्यक है। हम विचार करें कि परमात्मा कौन बन सकता है ? कैसे बन सकता है ? क्योंकि जब तक यह ज्ञान न हो जाये, तब तक परमात्मा के चरण प्राप्त नहीं हो सकते। प्रभु महावीर ने कहा- 'अप्पा सो परमप्पा।' यह एक सूत्रा है। भाव यह है कि जब आत्मा यात्रा करता है और अत्यंत विशाल तथा व्यापक बन जाता है, तभी वह 'परमात्मा' की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। इस प्रकार

स्पष्ट है कि परमात्मा कहीं दूर नहीं है। हमारा ही शुद्ध चैतन्य निश्चयनय की दृष्टि से परमात्मा है, जबकि जिसे हम बाहर देख रहे होते हैं वह चेतना का शुद्ध स्वरूप नहीं होता। भगवती सूत्रा में आया है- रूपी वि आया अरूपी वि.....। अभी जिसके दर्शन हम कर रहे हैं, वह रूपी आत्मा है। रूपी आत्मा अर्थात् जो योग आत्मा, कषाय आत्मा से संयुक्त है। खदान से निकाल कर लाये गये पत्थरों में हीरे भी होते हैं, जिन्हें तराशा नहीं गया है। खदान से मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण भी निकलता है। स्वर्ण होता है अवश्य, पर उसके साथ मिट्टी का संयोग होता है। उन्हीं पत्थर में पड़े हीरे तराशे न होने के कारण न शुद्ध होते हैं, न मूल्यवान। वैसे ही आत्मा शरीर में योग और कषाय से संयुक्त होता है। आत्मा के आठ भेद कहे गये हैं- (1) द्रव्यात्मा, (2) कषायात्मा, (3) योगात्मा (4) उपयोगात्मा (5) ज्ञानात्मा (6) दर्शनात्मा (7) चरित्रात्मा (8) वीर्यात्मा। ये आत्मा के शुद्ध स्वरूप नहीं हैं। यद्यपि उपचार से ऐसा कह दिया जाता है, जैसे स्वर्ण युक्त मिट्टी को भी स्वर्ण कह दिया जाता है। तप्त लोहे के गोले में अणु-अणु अग्नि व्याप्त हो जाती है तो कहा जाता है यह आग है। वैसे ही निश्चयनय से तो जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है तथा जिसकी अवाप्ति आत्मा में है वही परमात्मा है। यह स्वरूप ही जब प्रकट अथवा व्यापक होता है, तब वह परमात्मा होता है। इसे जब साधक या भव्य आत्मा जान लेता है तो विचार बनता है कि उस परमात्मा या शुद्ध चैतन्य को जागृत करूँ, जिससे अनिर्वचनीय आनंद उपलब्ध होता है और जो अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। उस आनंद को शब्दों में अभिव्यक्त कर पाना कठिन है। शब्द कुछ भाव अवश्य व्यक्त कर देते हैं, पर उनके पीछे छिपी अनुभूति किसी को प्रकट करके नहीं दिखाई जा सकती वह तो स्वाद के क्षणों में ही हो सकती है। इसे ही कबीर ने गूंगे का गुड़ कहा है। जिस व्यक्ति ने जिंदगी ने कभी खीर न खाई हो, उससे स्वाद पूछें तो क्या वह बता पाएगा ? यदि उसे भिन्न-भिन्न तौर-तरीकों से बताएँ तो भी वह अनुभूति नहीं कर पायेगा। एक अन्धे व्यक्ति के सामने दूध का बर्तन ले जायें और कहें- ग्रहण करो, उसने कभी दूध देखा नहीं है, अतः वह पूछे दूध कैसा होता है ? हम कहें- हंस की तरह स्वच्छ। अतः वह पूछे- हंस कैसा होता है ? तब उसके सामने हंस लाया जाय। वह हाथों से स्पर्श कर, गर्दन ऊँची तथा मुड़ी हुई देखकर अनुमान लगाये कि दूध ऐसा है तो वह कहेगा- मुझे नहीं चाहिए ऐसा दूध। यह मेरे गले में अटक जायेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि शब्दों में कुछ भी बता दें पर उसकी अनुभूति नहीं कराई जा सकती हैं। शुद्ध चैतन्य की जानकारी जिन क्षणों में अनुभूति में आती है उन क्षणों को ज्ञानीजन अपूर्वकरण कहते हैं। अपूर्वकरण अर्थात् जो पहले नहीं आये, अब आये हैं। उस क्षण जो आनंदानुभूति होगी वह विस्मृत नहीं होगी, उसका स्मरण बना रहेगा। इसके उपरान्त व्यक्ति चाहता है कि वह साधना में गति करे। यदि वह सजग एवं सावधान है तो निरन्तर अनुभूति होती रहेगी। पर यदि वह लापरवाह बन जाये तो जो प्राप्त है वह तो रह जायेगी, पर पुनः उसकी प्राप्ति कठिन है। यही बात प्रभु महावीर ने आचारांग-सूत्रा में कही है- 'जे गुण से मूल ठाणे'।

गुण क्या है ? गुण में सप्तमी विभक्ति का संयोग है। सप्तमी का प्रयोग है तो 'मैं या पर' होना चाहिए अर्थात् आधार-अधेय भाव है। जो गुण मैं है, वह मूल के स्थान मैं है। आगे आया जो मूल के स्थान मैं है वह गुण मैं है। मूल अलग है, मूल का स्थान अलग है। आज हम मूल को जान रहे हैं, पर जहाँ वह स्थापित है उस मूल स्थान को जान नहीं पा रहे हैं। मूल क्या है ? लोग चतुर्गति को मूल समझ लेते हैं परन्तु चतुर्गति तो फल है। कर्म परिणाम से चतुर्गति- नरक, देव, तिर्यच, मनुष्य की पर्याय, ये फल रूप मैं हैं, जो गुण मैं स्थित हैं और जो मूल स्थान है। मूल माना है कषाय को। इन्द्रियों के जो विषय हैं, इनमें जो आसक्त हैं- 'इड से गुणट्ठी मध्या परियासेण' वह गुणार्थी अर्थात् गुण को चाहने वाला है। गुण रस्सी को भी कहते हैं। आत्मा का उत्कर्ष भी गुण कहलाता है। जैसे-जैसे आत्मा विकास करता जाता है, गुणस्थानों पर आरूढ़ होता जाता है। यहाँ गुण मूल स्थान से जुड़ा है। मूल का तात्पर्य है- कषाय। चार गति मैं परिभ्रमण मैं विषय के साथ कषाय भी जुड़ा हुआ है। कषाय नहीं है तो विषयों में आसक्ति नहीं होगी। दूसरों शब्दों मैं विषय मैं आसक्त है तो कषाय मैं आसक्त होगा। पाँच इन्द्रिय के तेझेस विषयों मैं आसक्त नहीं हैं। तो कर्मबन्ध रुक जायेगा, पाप बंध नहीं होगा। विषयों के साथ ही राग-द्वेष, शुभाशुभ भाव आदि की कल्पना जुड़ती है। 'ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं, इसमें दुर्गन्ध आती है, यह दिखने में अच्छा नहीं है', ये सुनने में कर्कश हैं, ऐसे अशुभ भाव आने के साथ द्वेष पैदा होता है। गुण मैं अर्थात् विषयों मैं आसक्त है तो वहाँ राग-द्वेष की प्रवृत्ति होगी। जहाँ राग-द्वेष है, वहाँ वह मूल बन जाता है- उसका वह स्थान है, जिस पर वह टिका है। यदि मूल मोहकर्म है तो मूल स्थान तृष्णा है। दुरवं हथं जर्स न होयं मोहो, मोहो हओ जर्स न होइ तण्हा। (उत्तराध्ययन सूत्रा-32/8) अर्थात् तृष्णा मोह का

आविर्भाव कराती है। हम मूल तक पहुँचते हैं पर रथान तक नहीं। जड़ें न हटाई तो वह समाप्त नहीं होगा। समाप्त नहीं तो आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्राप्त नहीं हो सकता। यदि शुद्ध चैतन्य को जागृत करना है तो इन मूल स्थानों को समझना होगा। मेरा मूल स्थान कितना गहरा है, कैसे बना है, कौनसा मार्ग है? एक दीवान किसी आरोप में पकड़ा गया। राजा ने दंडित किया। अपराध भारी नहीं था, पर राजा ने ऐसा दंड दिया कि वह स्वतः तड़फड़ा कर मर जाये। मारने के अलग-अलग तरीके होते हैं। खंधक अणगार का नाम सभी ने सुना होगा। राजा के मन में वहम हुआ। महारानी ने थोड़े से विचार रखे- साधु जा रहा है। राजा ने सोचा- महारानी का संबंध होगा। जल्लाद को आदेश दिया- खाल उतार दो। कोल्ह में पील कर मारा जाता है, गोली से उड़ा देते हैं, सड़क पर लिटा कर रौंदा जाता है। अनेक तरह से प्राण-दंड दिया जाता है। इसका मुख्य कारण यह था कि भीषण दण्ड से भयभीत होकर लोग अपराध न करें। 'भय बिनु होइ न प्रीति' अपनी यह शासन प्रणाली नहीं है। स्वतंत्रा होना अलग बात है, लेकिन स्वच्छता बढ़ती है तो व्यवस्था बन नहीं पाती। उसे कारगर करना है तो सुदृढ़ अनुशासन में रहना चाहिए। वह भंग हो जाये, फिर भी चाहें कि व्यवस्था सुदृढ़ रहे तो नहीं रह पायेगी। चाहे समाज हो, चाहे राजकीय या धार्मिक क्षेत्र हो, जहाँ व्यवस्था या शासन का प्रसंग है वहाँ अनुशासन की बात आती है। अनुशासन है वहाँ शास्य-शासक भाव होते हैं। शास्य-शासक यह कोई हीन भावना नहीं है। धर्म क्षेत्र में इस भावना का सूत्रापात प्रभु महावीर ने चार तीर्थों की स्थापना से किया। यदि ये चारतीर्थ स्थापित नहीं होते तो क्या प्रभु महावीर का मोक्ष रुक जाता? ऐसा कभी नहीं होता। वैसे भी वे सर्वज्ञ थे। उन्हें जरूरत भी नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने स्थापना की। क्योंकि वे जानते थे कि यदि अलग-अलग व्यवस्था होगी तो फिर तीर्थकर की शासन-परम्परा सुरक्षित नहीं रह पायेगी। केवली उद्बोधन देते हैं पर तीर्थ की स्थापना नहीं करते। तीर्थकर तीर्थ की स्थापना, सारणा, वारणा, धारण करते हैं ताकि साधकों की उत्कांति हो और यदि वे विपरीत दिशा में जा रहे हों तो उन्हें रोका जा सके। आप सोचेंगे, प्रभु महावीर ने भी किसी को बढ़ाने या रोकने का कार्य किया? हम देखे तो पाते हैं कि मेघकुमार की मनःस्थिति डावाडोल थी। वे गृहस्थ में चले जाना चाहते थे, तब क्या प्रभु ने बोध नहीं दिया? और अंतिम समय में देवशर्मा को बोध देने हेतु गौतम ने कहा- जाओ, उसे बोध देना है, उत्थान करना है। यदि गलत प्रवृत्ति से रोकना है तो अनुशासन की प्रवृत्ति अपनानी होगी। तीर्थ की स्थापना, सारणा, वारणा, धारणा के लिए ग्यारह गणधर बनाये। जब वे मोक्षगमन की स्थिति में पहुँचे तो संघ व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसलिए उन्होंने गणधर सुधर्मास्वामी को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया और व्यवस्था दी कि एक आचार्य चतुर्विध संघ की सारणा, वारणा, धारणा करे ताकि कोई भी व्यक्ति संघ से गुण मकरंद प्राप्त कर सके और प्रत्येक सदस्य संबल प्राप्त कर सके। हम जानते हैं कि भय और आंतक के वातावरण में आराधना नहीं हो सकती। आंतकवादी गुजर रहे हो, दनादन गोली-गोलों की आवाज आ रही हो और वहाँ आप बैठे तो मन सध नहीं पायेगा। इसीलिये द्रव्य, क्षेत्रा और काल, भाव की दृष्टि से संघ स्थापना आवश्यक है। जैसे संघ की बात है, वैसे ही समाज, परिवार, राष्ट्र व्यवस्था की बात भी है। नहीं तो वहाँ भी अराजकता की स्थिति होगी, फिर प्रेम-वात्सल्य नहीं बढ़ेगा। व्यक्ति शुद्ध चैतन्य को जागृत करने में सक्षम नहीं होगा। दीवान को दंड देने के पीछे भी मूल कारण था- व्यवस्था बनी रहे। निश्चय में कोई दण्ड का भागी नहीं है, पर व्यवहार में दिख रहा है। निश्चय में कैसे नहीं? एक प्रसंग आता है। साधी आ रही है, उधर से साधु आ रहा है, नदी का प्रसंग है। यदि साधी का पैर फिसल जाये, वह नदी में डूब रही हो, उसे बचाने के लिये अन्य कोई नहीं हो तो साधक उसे सहारा देकर उठा सकता है। डूब रही है परन्तु पास में वृक्ष है, तो वृक्ष पकड़ सकती है, वहाँ हिंसा के भाव नहीं होंगे। निश्चय में वहाँ प्रायश्चित्त का प्रसंग भी नहीं होगा पर व्यवहार शुद्धि के लिए वैसा प्रसंग होता है।

प्रभु महावीर विहार कर रहे थे, संत प्यासे थे, पास में तालाब था। प्रभु महावीर जानते थे कि पानी अचित है पर आज्ञा नहीं दी। आज आज्ञा दी तो भविष्य में कोई जानेगा नहीं, निराकरण नहीं हो पायेगा। व्यवहार सुरक्षा के लिए है। निश्चय के लिए व्यवहार को जोड़ा जाता है। शुद्ध चैतन्य को जागृत करने तथा चार तीर्थों की व्यवस्था सुरक्षा हेतु कर दी। दीवान का अपराध रहा हो या नहीं, पर राजा ने उसे दंडित कर दिया। एक बहुत ऊँचे बुर्ज पर दीवान को खुला छोड़ दिया गया। जेल के सीप खंचों से तो वह फिर भी निकल जाता है यदि बुर्ज से छलांग लगाये तो मर जाये। ऊपर कोई पहुँच भी नहीं सकेगा, अतः वह भूख-प्यास से तड़फ कर मर जायेगा। दीवान का मित्रा उधर से निकल रहा था, उसने पूछा- आप तो इतने चतुर हैं फिर अपराध में कैसे फँस गये? आपने मुक्त होने का कोई उपाय नहीं सोचा? दीवान ने कहा- मुक्त होने में कोई बाधा नहीं है, उपाय है। मित्रा

ने पूछा क्या उपाय है ? उत्तर मिला- एक रेशम के धागे से मैं सारा काम निकाल लूँगा। मित्रा समझ नहीं पाया। यदि लोगों के बीच मैंने कोई प्रयास किया और पकड़ा गया तो मैं भी अपराधी को सहयोग देने के कारण अपराधी माना जाऊँगा। श्रावक के तीसरे अणुव्रत में भी कहा गया है- 'चोर को सहायता देना, यह भी अपराध है।' कभी-कभी कह दिया जाता है कि वह भी तो मानव है। हम तो पैसे देकर खरीदते हैं, लेकिन यह उसकी वृत्ति को प्रोत्साहन देना है। यदि अराजकता फैलती है तो उसमें आपकी भागीदारी भी जुड़ेगी। राज व्यवस्था में भी दंड दिया जाता है। यदि श्रावक के जीवन में ऐसी स्थिति पनपती है तो उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। वहाँ शुद्ध वैतन्य की बात तो दूर रहेगी बल्कि मूल स्थान की जड़ ही गहरी होंगी। प्रभु ने निर्देश दिया है कि राजकीय व्यवस्था में भी विधान है कि अपराधी का सहयोगी न बनें। दीवान का मित्रा घर पहुँचा। सोच रहा था मुक्त कराऊँ, पर कैसे ? काफी सोचने पर भी कुछ समझ में नहीं आया तो सोचा- बड़े बुजुर्गों से विचारणा कर लूँ। पर वहाँ भी समाधान नहीं मिला। फिर सोचा दीवान की पत्नी को तो सूचना दे दूँ। दीवान के घर पहुँचकर बात कह दी। दीवान के पुत्रा की बौद्धि अच्छी थी, चतुर भी था। पिताजी ने कहा है तो इसके पीछे अवश्य कोई राज है। उसने पिताजी की योजना भाँप ली कि वे कैसे मुक्त हो सकते हैं। उसने एक भौंरे को पकड़ लिया। उसके पैर से धागा बांध दिया और आगे के भाग में शहद की पट्टी लगा दी और बुर्ज के किनारे ले जाकर दीवार के सहारे छोड़ दिया। उस धागे के पीछे दूसरा धागा और उस धागे के पीछे मोटा रस्सा बांध दिया। भौंरा मकरंद की गंध के विषय में सोचने लगा कि वह ऊपर है और वह ऊपर चढ़ता-चढ़ता दीवान तक पहुँच गया। दीवान ने उसे अलग कर धागे के सहारे रस्सा र्खीचा और मुक्त हो गया। बंधुओं ! यथार्थ में दीवान का अपराध नहीं था, पर राजा ने उसकी बौद्धिक क्षमता ज्ञात करने के लिए ही यह उपक्रम किया था। देखना था कि यह मुक्त हो सकता है या वहीं तड़फ कर मरता है। दीवान परीक्षा में खरा उत्तरा। हमारी चेतना उन गुणों, मूल स्थानों में परिवद्ध है- 'जे गुणटटी मह्या परियावेण' जो परिताप पाता है- 'पुणो-पुणो वसे पमते' वह प्रमत्त पुनः पुनः संतप्त होता है। मनोज्ञ की अप्राप्ति या मनोज्ञ की प्राप्ति से वह संतप्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि विषयासक्त को परिताप-अनुताप होता है। गृद्धि के कारण जिसके पैर फिसलते हैं वह ऊपर नहीं उठ पाता। उसका उद्धार सुधार कठिन है। एक सेठजी को अपने पुत्रा को सुधारना था। पुत्रा से कहा- बेटे! ऑफिस में आया करो। उसे काम में लगाने का प्रयत्न किया। पुत्रा अल्हड़ मिजाजी था। एक दिन गाँव में एक नाटक मंडली आई। पुत्रा ने सोचा, आज मुझे नाटक देखने जाना है। वह ऑफिस में पहुँचा। अपना टोप उछाल कर टेबल पर फेंका। सेठ की प्रश्नवाचक नजर के उत्तर में लड़के ने कहा- "मैं आज नाटक देखने जाऊँगा।" पिता ने सोचा- भले देखे, बालक है। इच्छा हो जाती है, पर यह तमीज इसे अवश्य सिखानी चाहिए कि बात कैसे की जानी चाहिये। "जाना है तो जाओ, पर थोड़ी शिक्षा ले लो कि बात कैसे की जाती है।" सेठ कुर्सी से उठा, कहने लगा- कुर्सी पर बैठो, मैं तुम्हें सीखाता हूँ। पुत्रा कुर्सी पर बैठ गया। सेठ ने टोप लगाई। बाहर गया, फिर द्वार पर आकर कहने लगा- सर। क्या मैं भीतर आ सकता हूँ ? पुत्रा ने कहा- आ सकते हो। सेठ भीतर प्रविष्ट हुआ। हाथ जोड़कर कहले लगा- सर! आज नगर में नाटक मंडली आई है। आपकी इजाजत हो तो मैं नाटक देखने चला जाऊँ ? पुत्रा ने कहा- अच्छा बेटे ! जा सकते हो। ये लो पाँच रुपये टिकट के लिये। पिता ने सोचा कि शिक्षा दे दूँ पर क्या शिक्षा दे। पुत्रा तो पहले से ही सीखा हुआ था। उसे क्या शिक्षा दी जा सकती है ? हमें यदि शुद्ध वैतन्य को जागृत करना है तो जो प्रभु ने कहा है उसका ध्यान रखें- "जे गुण से मूल ठाणे, जो मूल ठाणे से गुण।" जहाँ गुण है, वहाँ शुद्ध वैतन्य का स्वरूप ज्ञात नहीं होगा। उसे तभी जगा पायेंगे, जब दीवान की भाँति आपने आपको निज गुण और कषायों में लिप्त हैं, उनसे स्वयं को मुक्त करा लें। अपराधों के कारण हम कैद हैं। शरीर रूपी जेल में आत्मा बैठा है। उससे तो 20,40,60,80 वर्ष बाद संभव है छूट भी जायें, पर दूसरी जेल से कैसे मुक्ति होगी ? कोई कहे 100 वर्ष में छुटकारा हो जायेगा, कोई कहे आपकी मृत्यु नजदीक है, पर भरोसा क्या और कौन चाहता है, मैं मर जाऊँ- 'सर्वे जीवा वि इच्छांति' (दशवैकालिक 6-10) सभी की जीवित रहने की इच्छा होती है। अपराधी जेल में जी रहा है, वहाँ भी सोचता है कि मौज से रोटियाँ मिल रही हैं, कम से कम कमाने की चिन्ता तो नहीं करनी पड़ती। वहाँ भी आनन्द मनाता है। हमारी यही दशा है। जेल में आनन्द मान रहे हैं, छूटने का प्रयत्न नहीं करते। मैं, मेरा परिवार इसी में आसक्त होते हुए परिताप पाते हैं। परन्तु इस जेल से छूटने का मानस नहीं बनता है। यदि इन्हीं विषय-कषायों में उलझे रहे तो पुनः पुनः चक्र में धूमते रहेंगे। मुक्त होना है तो- 'समियाए धर्मे'। गुरु उपदेश से इस सूत्रा को अपनाकर मुक्तिपथ पर बढ़ें। शुद्ध वैतन्य को

जगायेंगे तो फिर आनंद का पारावार उमड़ेगा। ऐसे ही आनंद में मगन होकर कवि आनन्दघनजी बोल उठे-
‘विमल जिन दीठा लोयण आज..।’

कवि को बोध हुआ। वैसे ही शुद्ध चैतन्य को जागृत करने के लिये प्रयासरत रहें। नीति, नियम, मर्यादा को
सुरक्षित रखें, तभी जीवन सुरक्षित होगा। अतः गुण और मूल स्थानों से उपरत होकर आनंद सरोवर में अवगाहन
का उपक्रम करें, यही इस जीवन की सार्थकता होगी।

दिनांक 3.11.96

णाणस्स सब्बस्स पगासणाए

व्यक्ति जब किसी दिशा में कदम बढ़ाता है और कुछ प्राप्त करना चाहता है तब यह आवश्यक है कि वह संबंधित विषय के ज्ञान से सम्पन्न हो अन्यथा उसके लिये सफलता प्राप्त करना दुष्कर होगा। उत्तराध्ययन-सूत्रा (32/2) में कहा गया है- ‘एंगंत सोक्खं समुवेऽ मोक्खं’- एकान्त सुख का स्थान मोक्ष है, जहाँ दुःख-दुर्भाग्य नहीं, अविद्या-अज्ञान नहीं, केवल शांत-प्रशांत, सुखद अवस्था है। कभी-कभी व्यक्ति विचार करता है कि यदि मोक्ष प्राप्त हो जायेगा तो वहाँ भूख-प्यास भी नहीं रहेगी। तब बिना खाये-पीये कैसे रहा जायेगा? वहाँ आनन्द-सुख कैसे मिलेगा ? क्योंकि आनन्द तो मनपसन्द वस्तु खाने-पीने से मिलता है ? तब यह समझ लेना चाहिये कि वस्तुतः मौज तो इन्द्रियों की होती है। भोजन सुख या आनन्द नहीं है। यदि वह सुख देने वाला ही होता तो भरपेट भोजन कर लेने के बाद वे ही पदार्थ और दे दिये जाने पर क्यों कहता- “नहीं-नहीं, अब नहीं चलता, उल्टी हो जायेगी, खाया-पिया व्यर्थ हो जायेगा। उसमें भोजनोपरान्त कोई रुचि नहीं है। कल्पना कीजिये कि आप कोई मनपसंद कार्य कर रहे हैं अथवा कोई प्रिय टी.वी. सीरियल देख रहे हैं, उस समय भोजन करना भी आप भूल जायेंगे। श्रीमती कहती जायेंगी कि भोजन ठंडा हो जायेगा, पर आपका मन नहीं करता कि उठकर जायें, क्योंकि आप उस समय उस कार्यक्रम से तृप्त हो रहे होते हैं, अतः उठने का मन नहीं होता। यह पदार्थों का लगाव है। जब वहाँ भी ऐसी अवस्था आ जाती है, तब मोक्ष में, जहाँ एकान्त सुख है वहाँ भूख-प्यास का कैसे ध्यान रहेगा ? ये भूख-प्यास की अवस्थाएँ शरीरजन्य हैं। जहाँ शरीर नहीं, वहाँ ये आयेंगी कैसे ? पर जब तक यह ज्ञान नहीं है, ऐसी अवस्थाएँ बनती रहेंगी। शास्त्राकार कहते हैं- णाणस्स सब्बस्स पगासणाए- ज्ञान आलोक प्रकाशित करें। सम्पूर्ण ज्ञान का आलोक प्रकाशित हो गया तो फिर वहाँ अज्ञान रहेगा ही नहीं, परन्तु किसी रूप में अज्ञान भी रह सकता है। यदि नहीं रहता तो शास्त्राकार क्यों कहते हैं ? ‘अण्णाण मोहस्स विवज्जनाय’। ये शब्द बता रहे हैं कि अज्ञान रह सकता है। बात अटपटी लगेगी- ज्ञान का सर्व प्रकाश फिर भी अज्ञान पड़ा रह जाये ? जिसे श्रुतज्ञान का, मतिज्ञान का, 14 पूर्व का, दृष्टिवाद का ज्ञान हो जाये तो उसे श्रुतकेवली कहा गया। इसके बावजूद वहाँ अज्ञान रह सकता है। इसे दो प्रकार से समझ सकते हैं- (1) जब तक मिथ्यात्व मोह है, वहाँ अज्ञान रहता है क्योंकि ज्ञान का विपरीत रूप में होना भी अज्ञान ही है। (2) दूसरी बात है कि जो बात हमारी जानकारी में ही नहीं है, वह भी एक प्रकार से अज्ञान ही है। मान लीजिए, एक व्यक्ति ने बी.ए. तक का अध्ययन कर लिया, पर एम.ए. की पढ़ाई नहीं की है तो यह उसका अज्ञान है। जितना जाना है वह तो ज्ञान है, जिसे नहीं जाना वह तो अज्ञान ही माना जायेगा। यह ज्ञानावरणीय का उदय है। दूसरी बात उसकी है जिसमें ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम है पर मिथ्यात्व मोह का पर्दा है। जैसे चन्द्र में प्रकाश है, पर जब राहु का विमान आँड़े आ जाता है तब ग्रहण हो जाता है, चन्द्र ढक जाता है। वैसे ही मिथ्यात्व मोह की छाया से ज्ञान का प्रकाश कि ज्ञान को सर्व रूप से प्रकाशित कैसे करें ? उत्तराध्ययन-सूत्रा में बताया गया है- ज्ञान प्राप्ति में पाँच बाधाएँ हैं, पाँच घाटियाँ हैं- मान क्रोध, प्रमाद, आलस्य और रोग। जहाँ ये घाटियाँ हैं तथा प्रयुक्त हो रही हैं, वहाँ ज्ञान प्रकट नहीं होता। मान के संबंध में बतलाया गया है कि मानी को अनुभव-ज्ञान का प्रसंग बन भी जाये तो भी मान उसे विषाक्त कर देता है। वैसे ही जैसे दूध भी यदि सर्प के मुँह में डालें तो परिणमन विष ही होगा। वैसे ही ज्ञान तो प्राप्त किया, पर साथ में अहं जुङा तो वह विषाक्त होगा। यहाँ ज्ञान से तात्पर्य सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान से नहीं है। ज्ञान का अर्थ है अनुभव-ज्ञान, जिसकी आत्मा अनुभूति करे। मिठाई के विषय में एक ने पढ़ा, एक ने मिठाई चखी। स्वाद की अनुभूति किसे होगी ? ऐसे ही पुस्तक से ज्ञान हुआ, पढ़ा पर स्वाद नहीं मिलेगा। लेकिन जब अनुभूति से संयुक्तिकरण हो जाये और बने अनुभव-दशा, वह होगा आत्मा का ज्ञान। किन्तु उसमें यदि अहं का पुट या विष का मिश्रण हो गया तो

फिर वह अज्ञान और मोह को दूर करने में सक्षम नहीं रहेगा, न ही ज्ञान को सर्व रूप से प्रकट कर पायेगा। ज्ञान वहीं रुक जायेगा, उसका प्रवाह आगे नहीं बढ़ पायेगा। एक अवस्था ऐसी भी आ सकती है कि वह धीरे-धीरे क्षीण होकर तिरोहित हो जाये।

दूसरी घाटी है क्रोध की। यह मान का सहचर है। मान ज्ञान के प्रकटीकरण में बाधक नहीं है, पर उसे विषाक्त बनाता है। लेकिन क्रोध अनुभव को जन्मने ही नहीं देता। जिस समय आवेश आता है, व्यक्ति भान भूल जाता है। अहं में व्यक्ति फूलता है, वहाँ भाव यह रहता है कि 'मैं' हूँ। यह तो वही बात हुई- सड़क संकरी और मैं चौड़ा। क्रोध अनुभव को जागृत नहीं होने देता वरन् उसे ढकता है। इसीलिये कहा गया है- 'कोहो य माणो य अणिगहिया, क्रोध, मान इनसे व्यक्ति ने बहुत दोस्ती कर ली है, इन्हें घर का रक्षक बना लिया पर ये रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। इन्हें इसलिए रखा था कि घर खाली न रहे, एक से दो भले। आश्रय दिया, पर फिर जल्दी घर खाली नहीं करते। इन्हें लिफ्ट दी तो ये हमारी अनुभव धरा को ही दबाकर बैठ जाते हैं, उसे विषाक्त कर देते हैं। हम घर में प्रविष्ट होना चाहते हैं पर ये रोड़ा अटकते हैं। व्यक्ति हताश हो जाता है, उसका हौसला पस्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति यथार्थ में ज्ञान नहीं कर पायेगा और यदि वह, यह सोच ले कि अब कुछ हो नहीं पायेगा और प्रमाद में पड़ जाये तो वह प्रमाद भी घाटी बन जाता है। यह अनुभव-दशा पर पर्दा डालने वाला है। मान तो विषाक्त करता है क्रोध जगने ही नहीं देता, यदि जग भी जायें तो प्रमाद पर्दा डाल देता है। प्रमाद से आया ज्ञान पुनः तिरोहित हो जाता है।

मान लीजिये, अवधिज्ञान प्रकट हुआ। देखा, लक्ष्मीजी के पैरों पर इन्द्र मुकुट रखकर पैरों को सहला रहा है। यदि ऐसा देखकर अवधिज्ञानी को हँसी आ जाये तो आया हुआ ज्ञान लुप्त हो जाता है। इतनी-सी बात से ज्ञान चला जाये, ये कैसे ? बात स्पष्ट है कि जिन शुभ अध्यवसायों से ज्ञान का प्रकटीकरण हुआ था, जागरण हुआ था, वहाँ हास्य या प्रमाद का जो प्रसंग बना, वह पर्दा डालने वाला बन गया। गुरु ने शिष्य से प्रश्न किया- पान सड़े, घोड़ा अड़े, विद्या बिसर जाय।

तबे पर रोटी बले, कहो चेला किण न्याय ॥
शिष्य ने तीनों प्रश्न का एक ही उत्तर दिया- फेरा नहीं गया। फेरने का अर्थ आपकी भाषा में कह दें- चितारा नहीं। शास्त्रीय भाषा में कहें- पर्यटना नहीं की। स्वाध्याय के पाँच भेद हैं- वाचना, पृच्छना, पर्यटना, अनुप्रेक्षा और धर्मकथा। फेरे नहीं तो ज्ञान लुप्त हो जाता है। पान की थप्पी पड़ी है, पनवाड़ी फेरे नहीं, संभाल न करे तो दो-चार दिन में पान सड़ जायेंगे। घोड़े को महीना-दो महीना घुमाओ मत, खूंटे से बांधे रखें तो वह अड़ जायेगा। विद्या भी विस्मृत हो जायेगी। स्मरण में प्रमाद किया तो पर्दा आ जायेगा। चौथी घाटी है- आलस्य। वह अनुभव दशा को सुलाये रखता है, सुषुप्ति में पड़ा रखता है। आलसी सोचता है- ठीक है, आज नहीं कल कर लूंगा। प्रमाद और आलस्य में अंतर है। प्रमाद में वह जगा हुआ है किन्तु इधर-उधर की बात में लगा है। आलस्य निष्क्रियता का सूचक है। प्रमाद में हाथ-पैर हिलाता है पर गुलचर्जे उड़ाता है। दूसरी बात यह है कि पुरुषार्थ तो करता है पर आत्मा की दिशा में नहीं। आलस्य में सुषुप्ति, शून्य चित्त, क्या कर्ल, क्या नहीं, ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं। आलसी हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाता है। आलस्य ज्ञान को जगने नहीं देता, सुलाये रखता है। रोग ज्ञान को बढ़ने नहीं देता। रोग हो गया, चलेंगे तो परेशानी होगी, थकान आ जायेगी। ज्ञान की दिशा में बढ़ नहीं पायेगा।

शास्त्राकारों ने ये पाँच घाटियाँ बताई हैं, जहाँ ज्ञान का प्रकटीकरण नहीं हो पाता। यदि ज्ञान का प्रकटीकरण नहीं तो क्या विमल जिनेश्वर के दर्शन हो पायेंगे ? अज्ञान दशा में दर्शन संभव नहीं है। जहाँ ये घाटियाँ मौजूद हैं, वहाँ ज्ञान का सर्वथा प्रकाश नहीं होगा।

"णाणस्स सव्वस्स पगासणाए" यह होने पर एक हेतु पूर्ण होता है। जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी, उपाय ज्ञात होने पर भी ज्ञान को जागृत नहीं किया जा सकेगा। अनेक बार चर्चा होती है- ज्ञान और आत्मा भिन्न-भिन्न हैं। यदि ज्ञान अलग नहीं हो तो आत्मा ही ज्ञान है, जिसके द्वारा जाना जाये। फिर ज्ञाता कौन होगा ? यदि दोनों भिन्न हैं तो भिन्नता कैसी ? यदि हम कहें दीपक और बाती के तुल्य हैं तो दीपक में से बाती चली जायेगी तो ज्ञान भी आत्मा से चला जायेगा। किसी-किसी की मान्यता है कि ज्ञान स्वाभाविक नहीं किन्तु आवर्जित गुण है। समवाय संबंध से संबंधित है। कोई दो पदार्थों को जोड़ता है, वैसे ही ज्ञान है। जैन दर्शन कहता है- ऐसा नहीं है कि दोनों अलग हैं, क्योंकि गुण गुणी से अलग रह सके ये हो नहीं सकता। तीर्थकरों ने ज्ञान को आत्मा का गुण कहा है-

"णाणं च दंसणं चेव, चरितं च तवो तहा ।

वीरियं उवओगो य, एयं जीवस्स लक्खणं।”
ज्ञान, दर्शन, चारित्रा, तप, वीर्य, उपयोग- ये जीव के लक्षण हैं। लक्षण वे होते हैं जो सदा विद्यमान रहें। लक्षण उसे अन्य द्रव्यों से भिन्न करते हैं। जब ज्ञान को आत्मा का गुण स्वीकार किया है तो आत्मा गुणी होगा। जैसे चादर के तन्तुओं से रंग जुड़ा होता है। अन्य कोई रंग चढ़ा लें, यह बात अलग है, पर तन्तु और रंग में गुण-गुणी संबंध है। इन्हें सर्वथा भिन्न नहीं किया जा सकता। चादर या रजोहरण को अलग किया जा सकता है, पर ज्ञान को अलग हटाकर नहीं रखा जा सकता। वह तो सदा विद्यमान है। उसे प्रकट करने की बात कही जाती। ये नहीं कहा कि ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान बाहर से नहीं लाना है, जो है उसे सर्वथा प्रकाशित करना है। वह ज्ञान आत्मस्वरूप ही है। कपड़े की तरह उसे अलग नहीं किया जा सकता। जब तक अनुभव-दशा का जागरण नहीं तब तक साधना में उतार-चढ़ाव आ सकता है। लेकिन जब अनुभव-दशा जागृत हो जाती है, शुद्ध चैतन्य जागृत हो जाता है, तब विमल जिनश्वर की अनुभूति होने लगती है। एक बार अनुभव दशा जग जाये तो वह आत्मा विशुद्ध रूप से कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न कर पायेगी। सम्पन्न करना चाहते हैं तो उसका ज्ञान आवश्यक है और मोक्ष प्राप्त करना है तो उसका भी ज्ञान प्राप्त करना ही होगा। जीवन में सफलता के लिए एक प्रसंग पर आचार्य श्री नानेश ने तीन सूत्रों की बात कही थी। प्रसंग थामहाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बसन्त दादा पाटिल का, उनके दर्शनार्थ पहुँचने का। आचार्यदेव ने कहा था- चाहे आप देश की बात करें, चाहे राष्ट्र की, चाहे प्रांत की, पर वहाँ सुधार के लिए तीन बातों का ध्यान रखना होगा। जन-जन में भी इन सूत्रों की प्रतिष्ठा अपेक्षित है। ये तीन बातें हैं- (1) सह-अस्तित्व (2) सहिष्णुता (3) समता। प्रथम दो की अनुपस्थिति में समता टिक नहीं पायेगी। समता के लिए पहले दोनों सूत्रों को भी अपनाना होगा। इन सूत्रों की किंचित् विवेचना उपयुक्त होगी। पहले सह-अस्तित्व को समझ लें। जैसे मैं अपना अस्तित्व चाहता हूँ उसी प्रकार मुझे भी सामने वाले का अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए। कोई सोचे- मेरा अस्तित्व तो बना रहे, पर सामने वाले का नहीं तो वहाँ समता नहीं रहेगी। ‘स्व’ की तरह दूसरों को भी स्वीकार करना आवश्यक है। सहिष्णुता से तात्पर्य है- सहनशीलता, तितिक्षा। यदि मैं कहता हूँ तो मुझमें सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए अन्यथा समता नहीं रहेगी। समता के ये दो सूत्र हैं, इन्हें अपनाया तो समता आ जायेगी। इन्हें छोड़ दिया जाये तो समता नहीं खिल पायेगी। मुख्यमंत्रीजी आचार्यश्रीजी के इन सूत्रों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने वक्तव्य में भी इनका उल्लेख किया।

हम भी घर के मुख्यमंत्री हैं। बहनें तो राष्ट्रपति है, उनके बिना पत्ता नहीं हिल सकता। मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति के बिना कुछ नहीं कर सकता। सभी को इन बातों का अनुभव होता है, परन्तु जहाँ, क्रोध, मान, प्रमाद जैसी बाधाएँ आ जायेगी वहाँ समता अनुभव की दशा नहीं बन पायेगी तथा उन बाधाओं के रहते ज्ञान को सर्वरूप से प्रकाशित नहीं किया जा सकेगा। ज्ञान-ज्योति का जागरण होने पर ही विमल जिनश्वर के दर्शन होंगे। बात चाहे विमल जिनश्वर के दर्शन की हो या प्रभु महावीर के दर्शन की अथवा अपने आत्मदर्शन की, जब अनुभव दशा तीक्ष्ण होगी तभी वहाँ विम्ब प्रतिविम्बत होगा। जिस क्षण यह अवस्था घटित होगी वह क्षण जीवन के लिए मंगल अवस्था का क्षण होगा। जीवन को मंगलमय बनाने के लिये ज्ञान को सर्वरूप में प्रकाशित करने की दिशा में हम अग्रसर हों।

दिनांक 4.11.96

ज्ञान-ज्योति का आलोक

ज्ञान को प्रकाश का पर्याय माना जाता है। ज्ञान का यह प्रकाश कैसे हो यह समझने की बात है। बाहर जो प्रकाश है वह सूर्य का, विद्युतजन्य या अग्निजन्य है। इस प्रकाश जो साधन हैं और जिनमें अग्नि का निमित्त जुड़ता है उनसे प्रकाश की प्राप्ति होती है। रत्न, मणि आदि से भी प्रकाश का प्रसंग बनता है, पर ज्ञान का प्रकाश इन सबसे भिन्न होता है। वह स्वयं में प्रकाशमान है। यह बात अलग है कि उस पर छाया या आवरण

आ जाये तो उसका प्रकाशित रूप प्रकट नहीं हो पाता। शास्त्रा वचन है- 'णाणरस्स सव्वस्स पगासणाए' इसमें जो निहितार्थ है वह यह है कि जहाँ-जहाँ ज्ञान पर आवरण आ गया है,

ज्ञान के चार प्रकार मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान तथा मनःपर्यवज्ञान भी अपने-अपने विषय की दृष्टि से पूर्ण हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि मतिज्ञान अपूर्ण है। यद्यपि सभी ज्ञान अपने द्रव्य, क्षेत्रा, काल और भाव से पूर्ण हैं तथापि भिन्न संदर्भों में इनके भावों में अंतर देखा जा सकता है। इस प्रकार जब हम इकाई की बात करते हैं तब अर्थ भिन्न हो जाता है। यदि वे अर्थ करें कि प्रथम चार ज्ञान में भेद नहीं है बल्कि वे आत्मा के साथ रहने वाली ज्ञान शक्तियाँ हैं, उन्हें पूर्ण रूप से प्रकाशित करना है तो उत्तरार्ध का अर्थात् आगे आने वाले पद का अर्थ होगा- अज्ञान मोह का नाश- 'अण्णाण मोहरस्स विवज्जणाय', उसके बिना ज्ञान सर्वरूप से प्रकाशित नहीं होगा। ज्ञान है तो अज्ञान मोह को नष्ट हो जाना चाहिए, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। कभी-कभी व्यक्ति सोचता है कि उसे ज्ञान हो गया है लेकिन वास्तव में पूर्ण ज्ञान नहीं होता, अज्ञान भी वहाँ जुड़ा रहता है। भगवती सूत्रा में शिवराजर्षि का कथन है। जब उन्होंने तापसी दीक्षा ली तब उन्हें अवधिज्ञान के विपरीत विभंगज्ञान हुआ। जितना वे देख रहे थे उसे ही मान लिया कि उससे आगे कुछ नहीं है, सारा विश्व उतने में ही सीमित है। इस प्रकार ज्ञान तो हुआ पर साथ में अज्ञान भी रह गया। ऐसी स्थिति में ज्ञान-ज्योति पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं होगी। उसे प्रकाशित करना है तो अज्ञान और मोह को दूर करना होगा। अज्ञान और मोह पड़े रहेंगे तो ज्ञान पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं होगा। यह भी होता है कि अज्ञान का स्वरूप क्या है इसे व्यक्ति जान नहीं पाता। अज्ञान का एक स्वरूप तो है अभाव, दूसरा है विपरीतता। वह किन-किन रूपों में व्यक्त होता है, इसे समझ लें।

गंगा और गोमती नाम की दो गायें थीं। हम जानते हैं कि लोग कभी-कभी पशुओं के भी नाम रख देते हैं। नाम लेने से ये पशु उस ओर दृष्टि कर लेते हैं। आज तो घर में गायें कम ही मिलेंगी। हाँ कुत्तों के व्यवहार से हम भली-भाँति परिचित हैं। कोई आवाज लगाये- टॉनी, तो वह इस प्रकार से पुकारे जाने का अभ्यस्त होने के कारण उछलकर पास आ जाता है और मुँह ऊँचा करके देखने लगता है या भौंकने लगता है। तात्पर्य यह है कि नाम पुकारने के साथ ही वह अपनी हर्ष ध्वनि व्यक्त करता है। हम उसे समझ पायें या नहीं यह अलग बात है। गंगा और गोमती दोनों गायें साथ-साथ चरने जाती और वापस साथ-साथ लौटती थी। दोनों में इतना स्नेह हो गया था कि एक साथ चरने जाती और सायंकाल वापस साथ-साथ अपने-अपने घर लौटती। घटना शोखपुरा रियासत के राजगढ़ गाँव की है। गाँव में एक किसान था- दीनू। उसी की गाय थी- गंगा। धनाढ़ी सेठ हस्तीमल की गाय थी गोमती। एक बार गंगा ने बछड़े को जन्म दिया। दीनू और उसकी पत्नी प्रसन्न हुए। सोचा अभी तक हमने इसे सूखा घास खिलाया है हरी घास नहीं दी है, पर इसने बछड़ा दिया है तो इसे गुड़-दलिया खाने को दिया जाये। पर मन में उदासी आ गई। सोचा, स्वयं का ही पेट पालना कठिन है। पास में पैसे नहीं हैं, दलिया-गुड़ का जुगाड़ कैसे किया जाये ? सहसा दीनू की पत्नी ने कहा- “सेठ हस्तीमल से उधार मांग लाओ।” दीनू दौड़ा हुआ गया और गुड़-दलिया ले आया।

इधर गंगा कुछ दिन से बाहर चरने नहीं जा रही थी। इधर गोमती चरने जाती तो दीनू के घर के सामने निकलती और रंभाती। गंगा भी भीतर से रंभाती। यह बात सेठ को अच्छी नहीं लगती। उसके मन में द्वेष-भाव पैदा हो गया। यह भी अज्ञान ही था। सेठ को यह नहीं सुहाया कि बड़े घर की गाय छोटे घर की गाय से दोस्ती करे। गोमती को जंगल भेजने की कोशिश की गई, पर वह इधर-उधर घूमकर वर्ही आ जाती। सेठ विचार में पड़ गया क्या करूँ ? कैसे करूँ ? गोमती को खूब मारा-पीटा गया, पर ज्योंहीं उसे छोड़ा जाता, वह दीनू के घर के सामने पहुँच जाती और रंभाने लगती। सेठ ने देखा और वह बहुत क्रूद्ध हुआ। हताशा में अब वह गाय के बदले दीनू से ईर्ष्या करने लगा। यह था अज्ञान का प्रकटीकरण। गाय रंभाती थी तो सेठ का क्या बिगाड़ हो रहा था। पर अहं एवं अज्ञान बीच में आ रहा था- मैं बड़ा सेठ हूँ। उस गरीब के घर के सामने मेरी गाय रंभाये, यह ठीक नहीं। गाय के कारण दीनू से ईर्ष्या करने वाला सेठ सोचने लगा कि इसे कैसे दबाया जाये ? तभी उसे ध्यान आया कि दीनू ने गुड़-दलिया लिया था, जिसका चुकारा नहीं हुआ था। बस, उसे कारण मिल गया, वही निकालना है दीनू से। एक दिन दीनू के घर वह पहुँचा और कहने लगा- “तुमने अभी तक पैसे नहीं चुकाये। देखों तुम्हें सात दिन की मोहलत देता हूँ अन्यथा दुगुनी रकम वसूली करूँगा और यदि एक माह में भी नहीं चुकाये तो चौगुनी वसूली करूँगा। यह था अज्ञान के प्रकटीकरण का रूप। ऐसे अज्ञान को प्रोत्साहन देते रहें तो ज्ञान प्रकाशन की स्थिति

ही नहीं बनेगी। यही है 'मन-मंदिर में धुप्प है अंधेरा' वाली बात। मन-मंदिर में यह अंधेरा है अज्ञान का, अहं का। 'अहं' का ही एक रूप ईर्ष्या है। उसी से डाह, मत्सर आदि भाव पनपते हैं, जिनकी भिन्न-भिन्न रूपों में अभिव्यक्ति होती है। आपने देखा होगा कि पानी उछलता है। खूब गरम कर दिया जाये और ढक्कन उघाड़ा जाये तो वहाँ से भाप निकलेगी। कोई चाहे उस भाप में मुँह देख लूं तो मुँह झुलस जायेगा। यदि वहीं ठंडे पानी का बर्तन हो तो उसमें मुँह देखा जा सकेगा। इसी प्रकार हमारे भीतर के दर्पण की बात हैं। जब उसमें अहं का या क्रोध का उबाला आ जाता है, भाप निकलने लगती है तब वहाँ आत्मा के भाव तिरोहित हो जाते हैं और ज्ञान का

प्रकाश लुप्त हो जाता है।

बात छोटी-सी थी, पर सेठ के मन में फिरूत आ गया। गरीब किसान के साथ खेल-खेलने लगा। अत्याचार और शोषण की प्रवृत्ति उसमें उत्पन्न हो गई- "यदि सात दिनों में नहीं चुका सकते तो अपनी गंगा को बेच दो।" उसकी आँख में गंगा किरकिरी बनकर खटकने लगी थी। गंगा के कारण वह गोमती रंभाती है। वह चाहता था कि यदि वह निकल जायेगी तो फिर गोमती नहीं रंभाएगी। इसलिए वह दबाव डालने लगा। आजकल कुछ नीतियाँ ऐसी ही हैं। चाहे पारिवारिक क्षेत्रा हो, सामाजिक या धार्मिक हो अथवा राजनीतिक क्षेत्रा, सभी जगह दबाव की नीति अपनाई जाती है। कहाँ, कैसे, किसे दबाया जाये, यहीं ध्यान रखा जाता है। कभी-कभी कहते हैं- भारत पर ऋण है, अन्य देशों का दबाव पड़ रहा है, किन कारणों से ? कारणों पर तो विचार नहीं किया जाता। कारण है भारतीय नागरिकों की संग्रह-वृत्ति। वे चाहते हैं, अपनी पूर्ति कर लूं। पूर्ति तक कोई बात नहीं, पर जोड़-तोड़ कर रखना चाहे भारत पर कितना ही कर्ज हो, यह तो अनुचित है। कर्जा है तो फिर दबाने का प्रसंग बनेगा, कर्जदार ऊँचा माथा नहीं कर सकेगा। संसार में ऐसे तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जो किसी के सामने माथा ऊँचा नहीं कर सकते- (1) जिसके घर से लक्ष्मी विदा हो चुकी है। वह सोचता है, समाज में मेरी प्रतिष्ठा नहीं रही, लोग मेरी हँसी उड़ायेंगे। (2) जो कर्जदार है, वह सिर उठाकर नहीं चल सकता। (3) जो किसी के उपकारों से बहुत दबा है, वह सिर उठाकर नहीं चल सकता। दीनू ने कहा- मेरे पास जैसे ही पैसे आयेंगे, मैं कर्ज चुका दूँगा। सेठ ने सोचा- कहीं इसने सात दिन में चुकारा कर दिया तो बात नहीं बनेगी। मेरी योजना तो इसे फँसाने की है, ताकि गंगा यहाँ से निकल जाये। दिलिये-गुड़ के कितने पैसे रहे होंगे ? पर गंगा का कोप दीनू पर था। वह सोता था तब भी चैन नहीं पड़ता था। गंगा आँखों में झूलने लगती थी। सोता तो रंभाने की आवाज कानों में गूँजती। चिन्तन दौड़ा- कैसे उसे अलग करूँ ? संयोग बना- एक शाम दीनू ने देखा, गंगा के आने का समय हो गया था पर वह तब तक लौटी नहीं थी। काफी देर हो गई थी। छोटा बछड़ा बा-बा रंभा रहा था, भूख से व्याकुल जो था। पर गंगा नहीं आई। दीनू ने सोचा- कहीं वह सेठ के घर तो नहीं चली गई। सेठ के घर पहुँचा तो सेठ भी बैचेन था- मेरी गोमती भी नहीं आई है। चलो दीनू देखें, पता नहीं आज दोनों को क्या हो गया ? दोनों निकले, जिधर से कुछ आवाज आती उधर बढ़ने लगते। जंगल और अंधेरी रात, कैसे खोजें ? दीनू और सेठ दोनों गायों का नाम पुकारते हुए आगे बढ़ रहे थे। सहसा गंगा की आवाज सुनाई पड़ी। आगे बढ़े तो देखा- गंगा एक भेड़िये का मुकाबला कर रही थी। भेड़िया खतरनाक जन्तु होता है, छोटे पशुओं को मारकर खा जाता है। गंगा उस पर बार-बार रींगों से प्रहार कर रही थी। वह थोड़ी दूर जाता है पर किर गोमती की ओर लौटने का प्रयास करता, गंगा फिर उसे हटाने की कोशिश करती। दीनू को देखते ही गंगा जोर-जोर से रंभाने लगी। भेड़िये को मौका मिला, वह फिर उधर बढ़ने लगा। गोमती ने एक बछड़े का प्रसव किया था। भेड़िया उसे अपना आहार बनाना चाहता था। गंगा उसे बचाने के लिए भेड़िये से जूझ रही थी। यह दृश्य देखकर सेठ की आँखें खुल गईं। वह तो गंगा का बुरा सोच रहा था, पर गंगा ने तो गोमती के बछड़े को बचाया था। सेठ ने दीनू का हाथ पकड़ा- भाई ! मित्राता हो तो ऐसी हो, जैसे इन दोनों की। इसने तुम्हारा कर्ज ही नहीं उतारा, मुझ पर कर्ज बढ़ा भी दिया है। भाई, अब ध्यान रखना इसको सूखी धास मत खिलाना मैं अपने घर से धास की व्यवस्था करवा दूँगा। क्योंकि मुझ पर जो ऋण चढ़ा है उसका भुगतान मुझे करना है। तो हम समझें कि बात घटना की नहीं, उस संदेश की है जो घटना से मिलता है। मन-मंदिर के धुप्प अंधेरे में ज्ञान-ज्योति प्रकट हो जाये, आलोक भर जाये, ऐसी स्थिति बने इस हेतु प्रयत्नशील रहना चाहिये। ऐसा आलोक प्रकट करने के लिए प्रभु ने कहा है- 'अण्णाण मोहस्स विवज्जणाय' अज्ञान-मोह पड़ा रहा तो ज्ञान प्रकट नहीं होगा। अज्ञान के भिन्न-भिन्न रूप हैं। कभी वह किसी रूप में प्रभावित करता है तो कभी किसी अन्य रूप में। जैसे क्रोध, मान, माया, ईर्ष्या, लोभ, डाह, मत्सर आदि। ये अज्ञान की पर्यायें हैं। पुत्रा हैं, जिन्हें वह अपने अनुचरों के साथ भेजता है। सेठ हस्तीमल के अन्दर भी अज्ञान पैदा हुआ था, पर गंगा की कार्यशैली ने उसे ज्ञान में परिवर्तित कर दिया। व्यक्ति की कार्यशैली, किसी भी संशय का समाधान कर देती है।

कहा गया है- “गुर्वस्तु मौनः संशयः छिन्न” गुरु का मौन भी शिष्य के संशय को छिन्न करने वाला है। कार्यशैली तथा मौन से संशय छिन्न होता है। ऐसा नहीं है कि बोलने से ही समाधान होता हो। मौन आचरण भी उत्तम समाधान है। हस्तीमल सेठ में अज्ञान पनपा था, पर जड़ें गहरी नहीं हुई थी। यदि वह ज्यादा समय रहता, जड़ें गहराई में चली जाती तो निकालना कठिन होता। पर वे सुटूढ़ नहीं हुई थी। ऐसी गाठें खोलने में अधिक दिक्कत नहीं होती। गंगा के उत्तम कार्य से सेठ के ज्ञानचक्षु खुल गये। ज्ञानचक्षु खुले, अज्ञान तिरोहित हुआ तो आत्मीयता और मित्राता का वातावरण बन गया।

व्यक्ति के भीतर अलग-अलग वृत्तियाँ पनपती रहती हैं। ये तीन प्रकार की वृत्तियाँ कही गई हैं- सात्त्विक, राजसी, तामसिक। तामसिक वृत्ति अज्ञान का ही प्रतीक है। तामसी का भावों से सम्बन्ध होता है। जहाँ चिंगारी है, वहाँ तपन बढ़ेगी। वैर से वैर की परम्परा बढ़ेगी। अज्ञान का पर्दा सघन होगा। राजसी वृत्ति, राजसी या तामसी वृत्ति से टकरायेगी तो वहाँ भी अशान्ति उत्पन्न होगी। पर यदि सात्त्विक वृत्ति उभर आई तो शांति का वातावरण बन जायेगा। अर्जुन माली में तामसी वृत्ति थी, पर जब सेठ सुदर्शन की सात्त्विक वृत्ति से उसकी टकराहट हुई तो सात्त्विक वृत्ति के सामने तामसिक वृत्ति टिक नहीं पाई। उसे मिटना ही पड़ा। दया-करुणा का प्रादुर्भाव अनोखा आलोक बिखेर देता है। कौरवों-पांडवों के बीच युद्ध हुआ। राजसी से तामसी वृत्ति टकराई तो दुर्योधन का नाश हुआ, पर वृत्ति शांत नहीं हुई। तामसी वृत्ति से कंस, जरासंध की टकराहट हुई पर सुधार नहीं हुआ बल्कि वैरानुबंधी वैर की परम्परा जुड़ती चली गई। अज्ञान की घनी अंधेरी रात्रि में जुगनु की चमक कितना प्रकाश करेगी ? कभी-कभी किरणें फैल नहीं पाती। यदि ज्ञान का सम्पूर्ण रूप से आलोक करना है तो तामसी और राजसी वृत्तियों का शमन करना होगा, तभी ज्ञान-ज्योति का प्रकटीकरण होगा अन्यथा जुगनू की भाँति टिमटिमाते प्रकाश को तामसी वृत्ति दबोच लेगी। सात्त्विक वृत्ति से ज्ञान की किरण को बढ़ाया जाना चाहिये, क्योंकि यदि अनुरूप सहयोग न मिला तो ज्ञान का प्रकाश अहं से विषाक्त हो जायेगा। जैसे दीप में तेल, बाती तो हो पर प्रकाश की लौ न मिले तो आलोक नहीं फैलेगा यदि उस तेल में पानी मिल जाये तो भी ज्योति लड़खड़ायेगी। वैसे ही अहं का पानी ज्ञान की ज्योति को दुर्बल बनाता है। अतः अज्ञान और मोह को दूर करें तभी ज्ञान-ज्योति प्रकट होगी तथा आलोक विकीर्ण करेगी। ज्ञान-ज्योति को सही तरीके से आलोकित करने के लिये सात्त्विक वृत्ति का विकास करें, गहनता से आत्म-निरीक्षण करें तभी राजसी, तामसी वृत्ति का उभार होगा। जब ऐसा होगा तभी विमल जिनेश्वर के दर्शन होंगे और सभी आत्मप्रदेश ज्ञान से आलोकित हो जायेंगे।

दि. 5.11.96

ज्ञान की खोज का मार्ग

प्रत्येक पदार्थ श्रेय है क्योंकि उसमें प्रमेयत्व गुण होता है। प्रमेयत्व का गुण न हो तो वह ज्ञेय नहीं हो सकता। जिसमें वर्ण हो- वह आँखों का, जिसमें गंध हो- वह नासिका का, जिसमें रस हो- वह जिहवा का तथा जिसमें स्पर्श हो- वह त्वचा का विषय बन सकता है। उसी प्रकार जिसमें प्रमेयत्व गुण है, वह ज्ञान का विषय बन सकता है। आत्मा उसे जान सकती है। जगत् में जितने भी पदार्थ हैं, वे सत् रूप हैं। असत् कभी पदार्थ की स्थिति नहीं होती। उत्पाद, व्यय और धौव्य युक्त सत् है। सत् पदार्थों को ही ज्ञान अपना विषय बनाता है। चाह वे सत् पदार्थ जीव रूप हो या अजीव रूप हों, वे ज्ञेय होते हैं, ज्ञान के विषय होते हैं। सम्पूर्ण द्रव्यों का ज्ञान किया जा सकता है। कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है जो हमसे अज्ञात रह जाये। जहाँ सम्पूर्ण ज्ञान का प्रकाश हो जाये अथवा हो गया हो, वहाँ कोई भी सत् पदार्थ अदृष्ट नहीं रह सकता। यदि अदृष्ट रह भी जाये तो समझना चाहिये कि आँखों की रोशनी ही खराब है। ज्ञान के प्रकाश की सूर्य के प्रकाश से उपमा दी जाती है, जिसमें सबकुछ दिखाई देता है। तो यहाँ तक कहा गया है कि ‘सूर्यातिशायि महिमाऽसि मुनीन्द्र! लोके।’ सम्पूर्ण ज्ञान का प्रकाश अनंत-अनंत सूर्यों के प्रकाश को भी मंद करने वाला होगा। ऐसा इसलिये कहा गया है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में भी जो पदार्थ देखे नहीं जा सकते, वे आत्मा के ज्ञान-प्रकाश से मूर्त रूप में देखे जा सकते हैं। हमारी आँखें तो रूपी पदार्थों को और उनमें भी जिनका नैकट्य है उन सीमित पदार्थों को ही देख पाती हैं, जबकि सम्पूर्ण ज्ञान के प्रकाश में सम्पूर्ण रूपी-अरूपी पदार्थों को देखा जा सकता है। प्रश्न होगा अरूपी को कैसे देखा जा सकता है ? अरूपी का अर्थ यह नहीं कि उसका कोई रूप है ही नहीं। उसमें वर्णादि चतुष्क न हो वह अरूपी जरूर है, पर अपने स्वरूप से वह रूपवान है। इस प्रकार प्रथम चार ज्ञान से भले अरूपी पदार्थ अदृश्य हो, पर केवलज्ञान से वे भी देखे जा सकते हैं। यह भी सही है कि चार ज्ञान स्वयं

अरुपी हैं पर उनका विषय रूपी को जानना है, जबकि केवलज्ञान का विषय रूपी-अरुपी दोनों को जानना है। सम्पूर्ण ज्ञान का प्रकटीकरण केवलज्ञान में होता है और वही उसे प्रकट करने के लिए आवश्यक है। ज्ञान और मोह का विवर्जन होना भी आवश्यक है। यह प्रश्न भी उत्पन्न होता है कि यदि अज्ञान और मोह का वर्जन हो गया हो तो क्या सम्पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जायेगा ? यदि हाँ तो फिर आगे यह पद क्यों रखा गया है-'रागस्स दोसर्स्स य संखणं'।

ग्यारहवें गुणस्थान-उपशान्त मोह गुणस्थान में अज्ञान और मोह दोनों का उदय नहीं है लेकिन सम्पूर्ण ज्ञान का प्रकाश वहाँ नहीं होता। बारहवें गुणस्थान में राग-द्वेष का सम्पूर्ण क्षय हो गया, पर वहाँ भी सम्पूर्ण ज्ञान का प्रकटीकरण नहीं होता। चूंकि ज्ञानावरणीय कर्म की सत्ता मौजूद होती है। 13वें गुणस्थान में ज्ञानावरणीय कर्म की सत्ता भी समाप्त हो जाती है, तब सम्पूर्ण ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है। अज्ञान और मोह तो 11वें गुणस्थान में उपशान्त हो गये फिर राग-द्वेष को कैसे छोड़ा जाये ? छोड़ना भारी नहीं है, पर छोड़ नहीं पाते। इसका भी कारण है क्योंकि हमने इनको ठीक से जाना भी नहीं है। यदि कोई चीज महत्वपूर्ण हो और उसका मूल्य भी कम हो तो अनेक लोग उसे लेने को तैयार हो जायेंगे। मान लीजिए किसी प्रसिद्ध कॉलोनी में सस्ते मकान मिल रहे हों फिर तो लोग लेने के लिए तैयार हो जायेंगे, भले ही वह शहर में रह रहे हों। क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी कीमत बढ़ेगी। किन्तु राग भाव हट गया तो 13वें गुणस्थान में जाने के बाद, वह भटकेगा नहीं। क्योंकि उसने वहाँ का स्वाद ले लिया है। हम जानते हैं कि भ्रमर फूलों का मकरन्द लेने के बाद स्वयं को वहाँ से अलग करना नहीं चाहता। उसी प्रकार 13वें गुणस्थान से वह लौटता नहीं है, जबकि 11वें गुणस्थान से तो लौट सकता है। जिस आत्मा में ज्ञान सम्पूर्ण प्रकाश हो गया होता है, वह आत्मा मोक्ष के सुख को प्रत्यक्ष देख लेती है। एक बार वह उस सुख को देख लेती है फिर वह उसे छोड़ नहीं सकती। क्योंकि वहाँ एकान्त सुख होता है तथा दुःख का लेश भी नहीं होता। ऐसा सुख वह आत्मा प्राप्त कर लेता है, तब वह क्यों उस सुख को छोड़ेगा ? एक बात और समझ लीजिये ? कर्तव्य के प्रति जागरुकता आवश्यक है। धर्म साधना भी कर्तव्य है, जिसे हमने रूठीन बना लिया है। महाराज के व्याख्यान में समय पर पहुँचे, वहाँ उपयुक्त पोशाक भी पहन ली, समय पर लौट गये, लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति सजगता नहीं है तो समझ लीजिये कि सम्पूर्ण ज्ञान का प्रकाश नहीं हो पायेगा।

पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं- संतों के पास आकर कोरी बातें करना मीठा कचरा है। व्यक्ति को इसमें रस आता है, पर इससे प्राप्त क्या होने वाला है ? यदि जीवन को सार्थक करना है तो ज्ञान का वह प्रकाश जो भीतर है, उसे प्रकट करना आवश्यक है। यदि जीवन को सार्थक करना है तो हम जिस पोशाक में हैं तदनुरूप अपना कर्तव्य अदा करें। यदि सामायिक में है तो समभाव की आराधना करें। यदि पौष्टि व्रत में हैं तो समझें कि पौष्टि का तात्पर्य है क्या है ? वस्तुतः पौष्टि का तात्पर्य है- आत्मा का पोषण करना। उपवास कर रहे हैं तो हम आत्मा के समीप रहें- 'उप समीपे' निकट पहुँचे। कषाय वृत्ति को उपशांत करें। तपस्या में कषाय उत्तेजित होते हैं। गुरस्सा आता है तो उपवास सार्थक नहीं होता। सामायिक की साधना इसीलिए है कि अंतर में जितनी सहिष्णुता है, जितनी समता है उसे और आगे बढ़ाया जाये। सामायिक-साधना शरीर की बैठती चार्ज करने का उपकरण है। एक सामायिक पूरे दिन के लिये समभाव वृत्ति उत्पन्न करती है। अतः सहिष्णुता के भावों को भरने के लिए सामायिक करें। यदि सहिष्णुता का तार टूट रहा है तो ठीक प्रकार से पुनः जोड़ें अन्यथा ऑफिस में समय पर पहुँचने पर भी शिकायत होगी। यदि कर्तव्य के प्रति सजगता आ गई तो फिर शिकायत नहीं सुननी पड़ेगी। फिर समभाव में बाधा नहीं आयेगी। शब्द भी आ गये तो विचार बनेंगे। कह दिया तो कोई बात नहीं। यह उनका अज्ञान था। सामायिक की पोशाक खोज की दिशा में अग्रसर करती है। खोज किसकी करनी होती है ? अनुसंधान किसका करना होता है ? आत्मा का अनुसंधान करना होता है, किन्तु कर नहीं पाते हैं। सामायिक करना है अतः औपचारिकता के रूप में कर लेते हैं, पर जो लाभ लेना है वह लिया या नहीं, यह सोचने की बात होती है। सामायिक में बैठकर स्वाध्याय कर लिया, इससे पुण्य-बंध तो हो जायेगा पर मात्रा औपचारिकता से जितना चाहिए उतना लाभ नहीं मिल पायेगा। पूणिया श्रावक सिर्फ कपड़े बदलकर नहीं बैठता था, उसके भीतर हृदय में मंथन चलता रहता था। इस मंथन में वह इतना लीन हो जाता था कि पड़ौस में क्या हो रहा है इसकी उसे खबर ही नहीं होती थी। सम्राट श्रेणिक आये तो भी उसे पता नहीं चला। उठकर उनका आदर नहीं किया। सम्राट के आने की खबर भी उसे कैसे पड़ती, क्योंकि वह तो अपने भीतर के सम्राट की खोज में लगा था। उसे बाहर के सम्राट के आने का पता कैसे

चलता ? हमने कह दिया कि उसने राजा का आदर-सत्कार नहीं किया, पर वस्तुतः श्रेणिक तो अनाथ था। पूणिया श्रावक नाथ की खोज में था फिर उसका ध्यान अनाथ की ओर कैसे जाता ? उसकी गति, उसकी खोज अन्य दिशा में चल रही थी। उसे जब पता ही नहीं चला तो आदर-सत्कार किसका करता ? अतः हमारी नाथ की खोज जारी रहनी चाहिए। यदि रुकावट आती है तो उसे उपदेश श्रवण कर तथा अभ्यास से दूर करने का प्रयास

करिये।

कहावत

भी

है-

करत	करत	अभ्यास	के,	जड़मति	होत	सुजान।
रसरी	आवत	जात	ही,	सिल	पर	परत

आजकल तो रसरी का काम ही नहीं पड़ता, कुँए से पानी कौन निकाले ? आज तो नल चालू किया और पानी प्राप्त हो गया। लेकिन जहाँ पर नल चल रहा है, वहाँ भी पानी पड़ते-पड़ते पत्थर में छेद हो जाता है। जैसे पानी में इतनी शक्ति है कि यदि बार-बार वह पड़ता रहे तो पत्थर को भी काट देता है, वैसे ही हमारे भीतर भी अनन्त गुणी शक्ति विद्यमान है, पर हम राग-द्वेष की परतों को हटाकर उस शक्ति को उद्घाटित नहीं कर पाते हैं। अज्ञान और मोह का वर्जन नहीं कर पाते हैं। सूर्य की किरणें भी प्रहार करती हुई बादलों को चीरकर सूर्य को प्रकट कर देती हैं और प्रकाश बाहर आ जाता है। वैसे ही हम अपनी आध्यात्मिक साधना के प्रयोग द्वारा समीक्षण प्रज्ञा को जागृत करें। अज्ञान और मोह को जानकर उनके वर्जन का प्रयास करें। राग और द्वेष का क्षय करें तो हमारे भीतर सम्पूर्ण ज्ञान प्रकाशित हो जायेगा। श्रेणिक राजा अकेला नहीं आया होगा। उनके साथ और भी लोग आये थे। पर पूणिया श्रावक को पता नहीं चला। कितनी तन्मयता रही होगी उसकी साधना में। उसका आत्म-अनुसंधान गहन था। उसका जीवन सधता चला गया। जहाँ सर्वांगीण ज्ञान नहीं होता, एकांगी ज्ञान होता है, वहाँ कभी-कभी डूबने की स्थिति भी बन जाती है। आलस्य और प्रमाद को त्यागकर अनुसंधान में लगे रहें तथा पुरुषार्थ करते रहें तो ज्ञान की प्राप्ति संभव है। आलस्य और प्रमाद ज्ञान को प्रकाशित नहीं होने देते। यह भी आवश्यक है कि अज्ञान और मोह को त्यागा जाये। पुद्गलों की आसक्ति से बचा जाये। क्योंकि यदि जीवन पुद्गलमय बन गया तो ज्ञान का प्रकाश नहीं हो पायेगा। अतः हम राग-द्वेष का क्षय कर सम्पूर्ण ज्ञान का आलोक प्रकट करने की दिशा में अग्रसर हों।

दि. 6.11.96

विवेक जागरण की आवश्यकता

प्रभु महावीर ने भव्यात्माओं को संबोधित करते हुए कहा था- ‘णाणरस सव्वस्स पगासणाए’ उनका यह कथन कितना अर्थपूर्ण है, यह समझ पाना कठिन नहीं है। ज्ञान के प्रकाश के बिना जीवन अंधकार से परिपूर्ण अवश्था में रहता है और यह भी ज्ञात नहीं होता कि क्या कर्त्तव्य है, क्या अकर्त्तव्य है ? ऐसी स्थिति में मनुष्य समझ ही नहीं सकता कि उसे क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये ? इस विवेक का जागृत होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब तक विवेक जागृत नहीं होता तब तक व्यक्ति अपने जीवन की दिशा व दशा बदल नहीं पाता। दिशा बदलने के पूर्व दशा को बदलना होता है और दशा बदलने के लिए आवश्यक है कि हमें हेय, झेय, उपादेय का बोध हो ताकि हम छंटनी कर सकें और समझ सकें कि क्या हेय है, क्या उपादेय है। हम आस्रव की बात भी करते हैं, जो पाँच प्रकार के कहे गये हैं तथा जिनमें योग को भी आस्रव कहा गया है। योग का जो परिणमन होता है वह है आस्रव। इस संदर्भ में यह भी समझना होगा कि क्या योग का परिणमन मात्रा ही आस्रव है ? क्योंकि हम कहते हैं कि अशुभ योग आस्रव, शुभ योग संवर। योगों की प्रवृत्ति चाहे किसी भी व्यक्ति में हो, चाहे तीर्थकरों में ही हो, पर जहाँ योग है अर्थात् प्रवृत्ति है वहाँ आस्रव होता है, आदान होता है, प्रवृत्ति मात्रा से कर्मों का ग्रहण होता है।

कहा	भी	गया	है-		
जा	जा	क्रिया	सा	सा	फलवती।
जब योग प्रवृत्ति कर्मों का आदान करने वाली है तो व्यक्ति सोचेगा- तीर्थकरों के भी बंध होता है, फिर हमारी तो बात ही क्या है हमारे तो बंध होगा ही... तो चले सो चलने दो बंध तो होगा ही, पर ऐसी बात नहीं है। यदि विवेक का जागरण हो गया तो अंतर स्पष्ट हो जायेगा। शुभ योग संवर है, यह पाप बंध कराने वाला नहीं होगा, कर्जा	नहीं	बढ़ायेगा।			

एक व्यक्ति एक हजार रुपये का कर्जा लेता है और दूसरा व्यक्ति एक हजार की आय घर में संग्रहित करता है। लेकिन जब दोनों को भुगतान करना होगा तब सोचिये पहले कौन भुगतान करेगा? निश्चय ही जिसके पास बैंक बैलेन्स है, धन है, उसे छोड़ने में कितनी देर लगेगी? 'इदं न मम' उसका स्वामित्व, ममत्व हट जायेगा। पर जिस पर कर्जा है, उसे अलग करने हेतु भुगतान करना पड़ेगा। वैसे ही जिन आसवों से पाप का बाहुल्य है उन्हें भी भुगतान करना होगा। शुभ योग जैसे सराग संयम की अवस्था है। जो साधु जीवन लेकर चल रहा है पर सरागता विद्यमान है, वहाँ योग प्रवृत्ति भी है, राग भी है। छठे गुणस्थान में संज्वलन क्रोध का भी उदय है तो मान का, माया का व लोभ का भी उदय रहा हुआ है। यहाँ काषायिक भाव मौजूद हैं, इसलिए जो संयम क्रिया हो रही है उसमें राग-भाव होने से शुभ योग से देव गति का आयुष्य बंध होता है। नहीं तो संयम बंधन करने वाला नहीं है, मुक्ति दिलाने वाला है। संवर अशुभ कर्मों को रोकने वाला तथा पापकर्म में रुकावट पैदा करने वाला है। जो बंध हो रहा था वहाँ दीवार खड़ी कर देते हैं तो फिर वे पापकर्म प्रविष्ट नहीं हो पाते। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय आदि ये पापकर्म हैं, इनका भी छठे गुणस्थान में बंध होता है। फिर कैसे कहें कि वहाँ पापकर्म का बंध नहीं होता? यहाँ जो बात है, वह मुख्यता के आधार पर है। जहाँ एक कर्म का बंध हेतु है, वहाँ नौरें गुणस्थान तक आयुकर्म के सिवाय शेष सात कर्मों का बंध होता है। ज्ञानावरणीय आदि भी बंधते हैं पर मूल कारण जिस कर्म का हेतु विद्यमान होता है, वहाँ उसकी प्रधानता होती है। दूसरे कर्मों को भी हिस्सा मिलता है, पर वहाँ प्रधानता नहीं है एवं काषायिक भाव तीव्र नहीं होने से स्थिति बंध प्रगाढ़ नहीं होता। इसलिए शुभ योग को संवर की परिभाषा दी गई है। क्योंकि जो बंध हुआ है उसकी अवधि गहन नहीं होती तथा पुनः शुभ अध्यवसायों से उन्हें साफ भी किया जा सकता है। पर यदि योग प्रवृत्ति में विवेक बन जाये कि अशुभ का वर्जन करें

एवं शुभ का अर्जन करें।

33 बोल के 32वें बोल में कहा गया है- शुभ योग का संग्रह करें ताकि हममें अशुभ का प्रवेश नहीं हो। यदि हो भी जाये तो उसका सफाया कर सकें और हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश पैदा हो जाये। वैज्ञानिकों ने इसे 'रीजनिंग माइण्ड' की सज्जा दी है। यह ऐसी मशीनरी है, जिसमें छंटनी होती है। देखा जाता है कि कौन योग्य है, किसकी-किसकी प्रधानता है आदि। 'न्याय' की भाषा में इसे 'एयाति' कहते हैं। यह विवेक एयाति, ज्ञान-ज्योति जिसमें प्रकट हो जाये, वह सही निर्णय ले सकता है। एक दृष्टांत लें। शीत ऋतु के दिन थे, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सेठ देवीचन्द की हवेली वैसी ही बिल्डिंग थी, जैसी बड़े लोग बनाते हैं। वह हवेली भी हवादार थी। जबरदस्त कोहरा पड़ रहा था, शीतलहर चल रही थी। उस लहर की चपेट में सेठ देवीलाल को भी ज्वर हो गया। उनकी पत्नी ने देखा कि बाहर तो ठंड पड़ रही है पर शरीर भयंकर रूप से तप रहा है। शायद 105 डिग्री बुखार आ गया हो। घर में लड़का था ज्ञानचंद, जो सोया हुआ था। माता ने कहा- बेटे! उठो, पिताजी को ज्वर है। पास में ही वैद्यजी के घर से दवा ला दो। ज्ञानचंद को उठना सुहा नहीं रहा था। सर्दी के कारण रजाई में दुबका पड़ा था। सोच रहा था क्या जल्दी उठना सर्दी में? गर्मी में भी आठ बज जाते हैं तो फिर सर्दी का तो कहना ही क्या! जगने का मन ही नहीं हो रहा था। पर जब माँ ने कहा तो फिर रजाई से निकला। उसे लगा कि उसका सारा शरीर प्रकम्पित हो रहा था। दरवाजा खोला था तो हवा का ठण्डा झाँका आया। उससे उसका हौंसला पस्त हो गया- कैसे जाऊँ? कड़ाके की सर्दी है, नहीं जा पाऊँगा। पर माँ ने कहा है कि पिताजी बीमार है, कैसे कहूँ? वह असमजंस में पड़ा था। इतने में ही दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने झट दरवाजा खोला तो देखा एक युवक द्वारा पर खड़ा था। शरीर पर फटे-पुराने कपड़े थे। कंधे पर मात्रा एक तौलिया था। न गरम कम्बल, न पूरे कपड़े। ज्ञानचंद की आँखों में कुछ चमक आ गई। पूछा- क्या बात है? आंगतुक युवक ने कहा- मैं दो दिनों से भूखा हूँ, भोजन नहीं किया है। भोजन की आशा से आया हूँ। ज्ञानचंद ने देखा- मौका अच्छा है। मैं तो ठंड में जा नहीं सकता और इसे भूख लगी है, क्यों न इससे दवा मंगवाकर फिर भोजन दे दूँ। इसे भूख की गरज है और मेरा काम निकल जायेगा। उसने कहा- भाई! तुम्हें भर पेट भोजन देंगे पर जो मैं कहता हूँ वह काम कर दो। पास में ही वैद्यजी का घर है, वहाँ से दवाई ला दो। उस फटेहाल युवक ने कहा- मैं भूखा हूँ, मेरी जान निकल रही है। पहले भोजन करा दो। ज्ञानचंद ने कहा- पिताजी बीमार हैं, ज्वर से शरीर तप रहा है। उन्हें दवाई देनी है, पहले दवाई ला दो, फिर भोजन देंगे। क्या ऐसा होता है? यह तो लाचार की लाचारी से लाभ उठाने की बात हुई। हम जानते हैं कि मौके का फायदा उठाने की कोशिश की जाती है, पर क्या उचित हैं?

कवि आनन्दघनजी कह रहे हैं-

चरण कमल कमल बस रे, निर्मल स्थिर पद देख।

व्यक्ति लक्ष्मी की आकांक्षा करते हैं। पूज्य गुरुदेव कई बार फरमाया करते हैं कि लोगों की आदत है, लक्ष्मीजी की तस्वीर ले आयेंगे या काँच में मढ़ी हुई तस्वीर ले आयेंगे। अगरबत्ती आदि जलाकर उसके सामने आरती उतारेंगे- “ओम जय लक्ष्मी मैया” आरती गायेंगे और सोच लेंगे अब हमारे घर सम्पत्ति आ जायेगी। यदि ऐसे लक्ष्मी आती होती तो भारत को गरीब देश की संज्ञा क्यों दी जाती ? न जाने कितने लोग इस महालक्ष्मी की मनोतियाँ करते हैं, पर वह रुठी ही रहती है, आती ही नहीं। वह आती है, पर कहाँ- ‘देवावि तं नमं संति, जस्स धर्मे सयामणो’ जहाँ धर्म रहता है, वहाँ तीर्थकरों की सेवा में ‘लक्ष्मीपति’ देव भी तत्पर रहते हैं, फिर वह तो पीछे-पीछे

स्वयं चली आती है।

प्रभु महावीर की सेवा में स्वयं इन्द्र पहुँचे, निवेदन किया- भगवन्! आपको परीषह-उपसर्ग आते हैं। कोई कोड़े मारकर तो कोई कीलें ठोककर उपसर्ग पहुँचाता है। ये अनाड़ी समझते नहीं हैं। आप आदेश करें, हम सेवा में प्रस्तुत हैं। प्रभु ने कहा- शक्रेन्द्र ! तुम्हारा धर्म के प्रति, शासन के प्रति अनुराग है, इसलिए तुम यह बात कर रहे हो। तुम्हारी भावना शुभ है, इसका तुम्हें लाभ मिलेगा। पर तीर्थकर स्वावलम्बी होते हैं। स्वयं कर्म काटने के लिए परीषहों का आह्वान करते हैं। जितना भी परीषह, उपसर्ग देना है, खूब दे दो ताकि जल्दी कर्म कट जायें। इसलिए वे सहारा लेकर नहीं चलते। जहाँ धर्म का निवास है, वहाँ देव भी तत्पर हैं। फिर लक्ष्मी की तो बात ही क्या ? तब हम समझ लें कि यदि उस लक्ष्मी की आराधना करना है तो विवेकपूर्वक की जाये। यह आराधना भी भाव लक्ष्मी की करनी चाहिये। आप स्वयं अपने हिसाब से सोचें कि भाव लक्ष्मी को कैसे प्राप्त करना है। मैं तो कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति इस हेतु प्रयास करे तो अच्छी बात। सामर्थ्य है तो प्रयासरत रहना चाहिए। आमोद-प्रमोद से तो धन लक्ष्मी की दीपावली बहुत मनाई जाती है, पर प्रभु के पद्धिन्हों पर चलकर भाव लक्ष्मी, आध्यात्मिक दीपमालिका का भी अनुभव करें कि उससे कैसे आनन्द की अनुभूति होती है। कवि कह रहे हैं- लक्ष्मी को पाने के लिए लोग उसके पीछे दौड़ते हैं, पर प्रभु वह लक्ष्मी तो आपके चरणों में लौटती है और आपको छोड़कर जाना ही नहीं चाहती।

प्रभु के अन्तराय कर्म का समूल नाश होने से पाँच शक्तियाँ प्रकट होती हैं- दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य की शक्तियाँ। ये शक्तियाँ जागृत होने पर दुनिया का कोई भी पदार्थ अप्राप्य नहीं रहता। पर प्रभु को उसकी आवश्यकता नहीं होती। जब तक व्यक्ति उसके पीछे दौड़ता है, लक्ष्मी की अपेक्षा रखता है, तब तक वह भी भागती जाती है। पर जैसे ही व्यक्ति मुड़ता है कवि कह रहे हैं- ‘चरण कमल कमला बसे रे’ वह रुक जाती है। वह तो वहीं रहती है जहाँ निर्मलता देखती है। यदि मन में मलीनता है, कलुषित विचार हैं, अशुभ योग हैं तो वह वहाँ नहीं आयेगी, टिकेगी नहीं। उसे चाहिए निर्मलता, स्थिरता।

आराधना कैसे करें, यह भी समझ लेने की बात है। आप कैसे करते हैं नहीं मालूम, पर जहाँ प्रभु के समवशरण में प्रभु स्वयं विराजमान हैं। अंतिम समवशरण में नवमलवी, नवलच्छवी नरेश बेले की तपस्या करके आध्यात्मिक लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। वह लक्ष्मी कठोर तपस्या से प्राप्त होती है। तीर्थकरों ने उसे प्राप्त किया ‘णाणस्स सव्वस्स पगासणाए’ वह प्रकाश बाहर से नहीं आता। वह भीतर है, उसे सिर्फ प्रगट करना होता है। वे नरेश 48 घंटे के प्रतिपूर्ण पौष्टि से प्रभु के सानिध्य में आध्यात्मिक लक्ष्मी की आराधना करते हैं। प्रभु की अंतिम देशना का रसपान करते हुए बैठे हैं। देखते ही देखते प्रभु निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। वैसी आराधना होती है भाव लक्ष्मी की। आज व्यक्ति सम्पन्नता का प्रदर्शन करता है- खूब पटाखे छोड़ता है। अरबों रुपयों के पटाखे छोड़े जाते हैं, पर क्या फायदा ? इससे तो लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती।

ज्ञानचंदजी ने युवक की लाचारी का लाभ उठाया। यद्यपि वह कह रहा था कि मेरे पैर नहीं उठ रहे हैं, पर वे नहीं पसीजे। भूखे को सर्दी भी ज्यादा लगती है। पेट में भोजन हो तो उसका आधार होता है, पर क्या करें। मन मसोस कर वह गया, दवा लेकर आया और ज्ञानचंद ने भी इंसानियत बरती और उसे भोजन करवाया। ज्ञानचंद व उसकी माता देख रहे थे कि यह गाँव का लड़का है। इसे ठंड भी नहीं लगती। मात्रा एक तौलिया डाले हुए है। बलिष्ठ शरीर वाला है। यदि इसे नौकर रखें तो सर्दी में बाहर निकलना भी नहीं पड़ेगा। भोजन के पश्चात् पूछा- क्या तुम्हें नौकरी करनी है ? उसने उत्तर दिया- हाँ ! मैं तो नौकरी की तलाश में ही निकला था। एक दिन तो अपने साथ के साधनों से गुजारा किया था। साधन समाप्त हो गये, नौकरी नहीं मिली। वैसे मैं कोई भिखरिया नहीं हूँ, पर पेट की ज्वाला बढ़ गई और मैं यहाँ भोजन की आशा से चला आया। यदि नौकरी मिल गई तो जरूर करूँगा। उसे रख लिया गया। शाम को उससे कहा गया- जाओ कुँए पर गाय-भैंस को दुहकर आ जाओ। वह तत्परता से गया और दूध लेकर आ गया। रात्रि के समय सभी लोग कमरे बंद करने सोने लगे। ज्ञानचंद की माँ ने युवक से कहा- यहाँ बरामदे में सो जाओ। उसने कहा- बाहर मुझे ठंड लगेगी, एक कम्बल दे

दो तो मैं बाहर रात बिता लूँगा, नहीं तो किसी कमरे में, ताकि कम्बल नहीं भी हो तो भी रात बिता लूँ। उस सेठ की क्या बात करें, कई घरों में ऐसा प्रसंग उत्पन्न होता है। पर आज युग बदला है। आज तो कहते हैं- नौकर नहीं मिलता। कैसे मिलेगा ? आपने उसकी लाचारी का खूब लाभ उठाया है तो अब वह आपकी लाचारी का लाभ उठाता है। शास्त्राओं में वर्णन आता है कि पहले राजा व सेठ नौकर को कौटुम्बिक पुरुष कहते थे अर्थात् अपने ही परिवार का सदस्य मानते थे। इसलिये जो आदेश वे देते तो नौकर भी दौड़कर उसे पूरा करते थे। व्यवहार क्षेत्रों में यह जरूरी है। अस्तु, ज्ञानचंद ने कहा- जब सुबह तुम मेरे पास आये थे, उस समय तुम्हें ठंड नहीं लग रही थी, केवल एक टावेल तुम्हारे पास था ? उसने कहा- ठंड तो उस समय भी लग रही थी, पर जाना पड़ा। क्योंकि मुझे पेट की ज्वाला को शांत करना था। पेट की आग बुझाने के पश्चात् दिन में तो धूप निकल गई थी, समय निकल गया। ज्ञानचंद ने कहा- शाम को भी तुम गाय-भेंस दुहने गये तब क्या ठंड नहीं लग रही थी। उसने उत्तर दिया- ठंड तो मुझे उस समय भी लग रही थी, पर उस समय कृतज्ञता का भाव था कि इन्होंने मुझे भोजन कराया है, अन्न से मेरे पेट की आग को बुझाया है तो मेरा भी नैतिक कर्तव्य है कि मैं इनका कार्य करूँ और मैं दूध निकालने चला गया। उस समय मैंने ठंड को नजरअंदाज कर दिया। इस समय भूख लगी है न किसी प्रकार के प्रत्युपकार के भाव हैं। ऐसे समय में बाहर सोने पर ठंड लगेगी। ज्ञानचंद ने देखा- भले यह आफत का मारा है पर इसकी बुद्धि निर्मल है। यदि इसे थोड़ा-सा सहयोग मिल जाये तो यह आगे उत्थान भी कर सकता है। ज्ञानचंद के मन में करुणा जगी। वह कहने लगा- गोपाल ! घबराओ मत, यह लो कमरे की चाबी और उसमें सो जाओ। ज्योंहीं उसने कदम बढ़ाये, ज्ञानचंद की माँ ने एक गरम कम्बल देते हुए कहा- लो गोपाल यह कम्बल ओढ़ लेना। यह विवेक का जागरण था। हम भी ज्ञान रूपी लक्ष्मी से भीतर के विवेक को जागृत करें फिर वह विवेक जीवन को उत्थान की ओर बढ़ायेगा। गोपाल को थोड़ा-सा सहयोग, स्नेह, वात्सल्य, प्यार मिला, वह सदा-सदा के लिए उस घर का सदस्य बन गया। जहाँ जान-पहचान नहीं थी पर इंसानियत का तकाजा था; वह अपनत्व से जुड़ गया। प्रेम व कर्तव्य इस प्रकार आगे बढ़ाते हैं। लक्ष्मी को पाना है तो पहले कर्तव्य पर दृष्टिपात करें। दृढ़ता से आरुढ़ हों, विकट परिस्थितियों में भी विचलित नहीं हो तो पथभ्रष्ट नहीं होंगे, सफलता प्राप्त हो सकेगी। हो सकता है, उस समय आपकी परीक्षा भी हो जाये। थोड़ी कठिनाई भी हो सकती है लेकिन तभी व्यक्ति की पहचान होती है। कहा गया है- 'दुःख है ज्ञान की खान, मनवा दुःख है ज्ञान की खान'। जिसने जीवन में दुःख नहीं देखा है, उसे सुख का स्वाद भी नहीं आ सकता। जिसने भूख का दर्द नहीं सहा, उसे सुख का स्वाद भी नहीं मिलेगा। शांत-क्रांति के अग्रदूत स्वर्गीय गणेशाचार्य के जीवन का प्रसंग है। पाँच साथु विहार करके जा रहे थे। एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ शाकाहारी घर नहीं थे, गोचरी नहीं हुई। दूसरे व तीसरे दिन भी योग नहीं बैठा। शायद चौथा दिन हो, संत दो गाँवों में गोचरी हेतु पधारे और इस संदर्भ में दीपमालिका की बात भी कह दूँ। आध्यात्मिक भाव लक्ष्मी को पाने के लिए प्रभु के चरणों को पकड़ लें। प्रभु के चरणों में तो वह लक्ष्मी लोट ही रही है। साथ ही विवेक को जागृत करें, जिससे सुन्दर समन्वय बने। इस प्रकार निर्मलता आयेगी और तब सुख-सम्पत्ति स्वयंसेव चली आयेगी। पर पहले अज्ञान व मोह का विवर्जन आवश्यक है तभी वहाँ निर्मलता व स्थिरता आयेगी। डांवाड़ोल स्थिति में विवेक का जागरण नहीं होगा। लक्ष्मी भी परीक्षा लेती है कि यह कच्चा है या पक्का। दृढ़ता को धारण करें। कर्तव्य-अकर्तव्य को समझकर आगे बढ़ें तो ज्ञान का वह आलोक भीतर प्रस्फुटित होगा, जो जीवन को प्रकाश से परिपूर्ण कर लेता है।

दि. 7.11.96

विवेक जागरण की आवश्यकता

प्रभु महावीर ने भव्यात्माओं को संबोधित करते हुए कहा था- ‘णाणरस्स सव्वस्स पगासणाए’ उनका यह कथन कितना अर्थपूर्ण है, यह समझ पाना कठिन नहीं है। ज्ञान के प्रकाश के बिना जीवन अंधकार से परिपूर्ण अवस्था में रहता है और यह भी ज्ञात नहीं होता कि क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है? ऐसी स्थिति में मनुष्य समझ ही नहीं सकता कि उसे क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये? इस विवेक का जागृत होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब तक विवेक जागृत नहीं होता तब तक व्यक्ति अपने जीवन की दिशा व दशा बदल नहीं पाता। दिशा बदलने के पूर्व दशा को बदलना होता है और दशा बदलने के लिए आवश्यक है कि हमें हेय, झेय, उपादेय का बोध हो ताकि हम छंटनी कर सकें और समझ सकें कि क्या हेय है, क्या उपादेय है। हम आस्रव की बात भी करते हैं, जो पाँच प्रकार के कहे गये हैं तथा जिनमें योग को भी आस्रव कहा गया है। योग का जो परिणमन होता है वह है आस्रव। इस संदर्भ में यह भी समझना होगा कि क्या योग का परिणमन मात्रा ही आस्रव है? क्योंकि हम कहते हैं कि अशुभ योग आस्रव, शुभ योग संवर। योगों की प्रवृत्ति चाहे किसी भी व्यक्ति में हो, चाहे तीर्थकरों में ही हो, पर जहाँ योग है अर्थात् प्रवृत्ति है वहाँ आस्रव होता है, आदान होता है, प्रवृत्ति मात्रा से कर्मों का ग्रहण होता है। तीर्थकर भी विहार करते हैं, बोलते हैं, उनमें भी ईर्यापथिकी क्रिया होती है, उससे कर्मों का आदान भी होता है कहा भी गया है-

जा	जा	क्रिया	सा	सा	फलवती।
जब योग प्रवृत्ति कर्मों का आदान करने वाली है तो व्यक्ति सोचेगा- तीर्थकरों के भी बंध होता है, फिर हमारी तो बात ही क्या है हमारे तो बंध होगा ही... तो चले सो चलने दो बंध तो होगा ही, पर ऐसी बात नहीं हैं। यदि विवेक का जागरण हो गया तो अंतर स्पष्ट हो जायेगा। शुभ योग संवर है, यह पाप बंध कराने वाला नहीं होगा, कर्जा नहीं बढ़ायेगा।					

एक व्यक्ति एक हजार रुपये का कर्जा लेता है और दूसरा व्यक्ति एक हजार की आय घर में संग्रहित करता है। लेकिन जब दोनों को भुगतान करना होगा तब सोचिये पहले कौन भुगतान करेगा? निश्चय ही जिसके पास बैंक बैलेन्स है, धन है, उसे छोड़ने में कितनी देर लगेगी? ‘इदं न मम’ उसका स्वामित्व, ममत्व हट जायेगा। पर जिस पर कर्जा है, उसे अलग करने हेतु भुगतान करना पड़ेगा। वैसे ही जिन आस्रवों से पाप का बाहुल्य है उन्हें भी भुगतान करना होगा। शुभ योग जैसे सराग संयम की अवस्था है। जो साधु जीवन लेकर चल रहा है पर सरागता विद्यमान है, वहाँ योग प्रवृत्ति भी है, राग भी है। छठे गुणस्थान में संज्वलन क्रोध का भी उदय है तो मान का, माया का व लोभ का भी उदय रहा हुआ है। यहाँ काषायिक भाव मौजूद हैं, इसलिए जो संयम क्रिया हो रही है उसमें राग-भाव होने से शुभ योग से देव गति का आयुष्य बंध होता है। नहीं तो संयम बंधन कराने वाला नहीं है, मुक्ति दिलाने वाला है। संवर अशुभ कर्मों को रोकने वाला तथा पापकर्म में रुकावट पैदा करने वाला है। जो बंध हो रहा था वहाँ दीवार खड़ी कर देते हैं तो फिर वे पापकर्म प्रविष्ट नहीं हो पाते। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय आदि ये पापकर्म हैं, इनका भी छठे गुणस्थान में बंध होता है। फिर कैसे कहें कि वहाँ पापकर्म का बंध नहीं होता? यहाँ जो बात है, वह मुख्यता के आधार पर है। जहाँ एक कर्म का बंध हेतु है, वहाँ नौंवें गुणस्थान तक आयुकर्म के सिवाय शेष सात कर्मों का बंध होता है। ज्ञानावरणीय आदि भी बंधते हैं पर मूल कारण जिस कर्म का हेतु विद्यमान होता है, वहाँ उसकी प्रधानता होती है। दूसरे कर्मों को भी हिस्सा मिलता है, पर वहाँ प्रधानता नहीं है एवं काषायिक भाव तीव्र नहीं होने से स्थिति बंध प्रगाढ़ नहीं होता। इसलिए शुभ योग को संवर की परिभाषा दी गई है। क्योंकि जो बंध हुआ है उसकी अवधि गहन नहीं होती तथा पुनः शुभ अध्यवसायों से उन्हें साफ भी किया जा सकता है। पर यदि योग प्रवृत्ति में विवेक बन जाये कि अशुभ का वर्जन करें एवं शुभ का अर्जन करें।

33 बोल के 32वें बोल में कहा गया है- शुभ योग का संग्रह करें ताकि हमें अशुभ का प्रवेश नहीं हो। यदि हो भी जाये तो उसका सफाया कर सकें और हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश पैदा हो जाये। वैज्ञानिकों ने इसे

'रीजनिंग माइण्ड' की सज्जा दी है। यह ऐसी मशीनरी है, जिसमें छँटनी होती है। देखा जाता है कि कौन योग्य है, किसकी-किसकी प्रधानता है आदि। 'न्याय' की भाषा में इसे 'एयाति' कहते हैं। यह विवेक एयाति, ज्ञान-ज्योति जिसमें प्रकट हो जाये, वह सही निर्णय ले सकता है। एक दृष्टांत लें। शीत ऋतु के दिन थे, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सेठ देवीचन्द की हवेली वैसी ही बिल्डिंग थी, जैसी बड़े लोग बनाते हैं। वह हवेली भी हवादार थी। जबरदस्त कोहरा पड़ रहा था, शीतलहर चल रही थी। उस लहर की चपेट में सेठ देवीलाल को भी ज्वर हो गया। उनकी पत्नी ने देखा कि बाहर तो ठंड पड़ रही है पर शरीर भयंकर रूप से तप रहा है। शायद 105 डिग्री बुखार आ गया हो। घर में लड़का था ज्ञानचंद, जो सोया हुआ था। माता ने कहा- बेटे ! उठो, पिताजी को ज्वर है। पास में ही वैद्यजी के घर से दवा ला दो। ज्ञानचंद को उठना सुहा नहीं रहा था। सर्दी के कारण रजाई में दुबका पड़ा था। सोच रहा था क्या जल्दी उठना सर्दी में ? गर्मी में भी आठ बज जाते हैं तो फिर सर्दी का तो कहना ही क्या ! जगने का मन ही नहीं हो रहा था। पर जब माँ ने कहा तो फिर रजाई से निकला। उसे लगा कि उसका सारा शरीर प्रकम्पित हो रहा था। दरवाजा खोला था तो हवा का ठण्डा झाँका आया। उससे उसका हौंसला पस्त हो गया- कैसे जाऊँ ? कड़ाके की सर्दी है, नहीं जा पाऊँगा। पर माँ ने कहा है कि पिताजी बीमार है, कैसे कहूँ ? वह असमजंस में पड़ा था। इतने में ही दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने झट दरवाजा खोला तो देखा एक युवक द्वारा पर खड़ा था। शरीर पर फटे-पुराने कपड़े थे। कंधे पर मात्रा एक तौलिया था। न गरम कम्बल, न पूरे कपड़े। ज्ञानचंद की आँखों में कुछ चमक आ गई। पूछा- क्या बात है ? आंगतुक युवक ने कहा- मैं दो दिनों से भूखा हूँ, भोजन नहीं किया है। भोजन की आशा से आया हूँ। ज्ञानचंद ने देखा- मौका अच्छा है। मैं तो ठंड में जा नहीं सकता और इसे भूख लगी है, क्यों न इससे दवा मंगवाकर फिर भोजन दे दूँ। इसे भूख की गरज है और मेरा काम निकल जायेगा। उसने कहा- भाई ! तुम्हें भर पेट भोजन देंगे पर जो मैं कहता हूँ वह काम कर दो। पास में ही वैद्यजी का घर है, वहाँ से दवाई ला दो। उस फटेहाल युवक ने कहा- मैं भूखा हूँ, मेरी जान निकल रही है। पहले भोजन करा दो। ज्ञानचंद ने कहा- पिताजी बीमार हैं, ज्वर से शरीर तप रहा है। उन्हें दवाई देनी है, पहले दवाई ला दो, फिर भोजन देंगे। क्या ऐसा होता है ? यह तो लाचार की लाचारी से लाभ उठाने की बात हुई। हम जानते हैं कि मौके का फायदा उठाने की कोशिश की जाती है, पर क्या उचित हैं ?

कवि	आनन्दघनजी	कह	रहे	हैं-				
चरण	कमल	कमला	बस	रे,	निर्मल	स्थिर	पद	देख।
व्यक्ति लक्ष्मी की आकांक्षा करते हैं। पूज्य गुरुदेव कई बार फरमाया करते हैं कि लोगों की आदत है, लक्ष्मीजी की तस्वीर ले आयेंगे या काँच में मढ़ी हुई तस्वीर ले आयेंगे। अगरबत्ती आदि जलाकर उसके सामने आरती उतारेंगे- "ओम जय लक्ष्मी मैया" आरती गायेंगे और सोच लेंगे अब हमारे घर सम्पत्ति आ जायेगी। यदि ऐसे लक्ष्मी आती होती तो भारत को गरीब देश की संज्ञा क्यों दी जाती ? न जाने कितने लोग इस महालक्ष्मी की मनोतियाँ करते हैं, पर वह रुठी ही रहती है, आती ही नहीं। वह आती है, पर कहाँ- 'देवावि तं नमं संति, जस्स धम्मे सर्यामणो' जहाँ धर्म रहता है, वहाँ तीर्थकरों की सेवा में 'लक्ष्मीपति' देव भी तत्पर रहते हैं, फिर वह तो पीछे-पीछे स्वयं चली आती है।								
प्रभु महावीर की सेवा में स्वयं इन्द्र पहुँचे, निवेदन किया- भगवन्! आपको परीष्ठ-उपसर्ग आते हैं। कोई कोडे मारकर तो कोई कीलें ठोककर उपसर्ग पहुँचाता है। ये अनाड़ी समझते नहीं हैं। आप आदेश करें, हम सेवा में प्रस्तुत हैं। प्रभु ने कहा- शक्रेन्द्र ! तुम्हारा धर्म के प्रति, शासन के प्रति अनुराग है, इसलिए तुम यह बात कर रहे हो। तुम्हारी भावना शुभ है, इसका तुम्हें लाभ मिलेगा। पर तीर्थकर स्वावलम्बी होते हैं। स्वयं कर्म काटने के लिए परीष्ठों का आहवान करते हैं। जितना भी परीष्ठ, उपसर्ग देना है, खूब दे दो ताकि जल्दी कर्म कट जायें। इसलिए वे सहारा लेकर नहीं चलते। जहाँ धर्म का निवास है, वहाँ देव भी तत्पर हैं। फिर लक्ष्मी की तो बात ही क्या ? तब हम समझ लें कि यदि उस लक्ष्मी की आराधना करना है तो विवेकपूर्वक की जाये। यह आराधना भी भाव लक्ष्मी की करनी चाहिये। आप स्वयं अपने हिसाब से सोचें कि भाव लक्ष्मी को कैसे प्राप्त करना है। मैं तो कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति इस हेतु प्रयास करे तो अच्छी बात। सामर्थ्य है तो प्रयासरत रहना चाहिए। आमोद-प्रमोद से तो धन लक्ष्मी की दीपावली बहुत मनाई जाती है, पर प्रभु के पदचिन्हों पर चलकर भाव लक्ष्मी, आध्यात्मिक दीपमालिका का भी अनुभव करें कि उससे कैसे आनन्द की अनुभूति होती है। कवि कह रहे हैं- लक्ष्मी को पाने के लिए लोग उसके पीछे दौड़ते हैं, पर प्रभु वह लक्ष्मी तो आपके चरणों में लौटती है और आपको छोड़कर जाना ही नहीं चाहती।								

प्रभु के अन्तराय कर्म का समूल नाश होने से पाँच शक्तियाँ प्रकट होती हैं- दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य की शक्तियाँ। ये शक्तियाँ जागृत होने पर दुनिया का कोई भी पदार्थ अप्राप्य नहीं रहता। पर प्रभु को उसकी आवश्यकता नहीं होती। जब तक व्यक्ति उसके पीछे दौड़ता है, लक्ष्मी की अपेक्षा रखता है, तब तक वह भी भागती जाती है। पर जैसे ही व्यक्ति मुड़ता है कवि कह रहे हैं- 'चरण कमल कमला बसे रे' वह रुक जाती है। वह तो वहीं रहती है जहाँ निर्मलता देखती है। यदि मन में मलीनता है, कलुषित विचार हैं, अशुभ योग हैं तो वह वहाँ नहीं आयेगी, टिकेगी नहीं। उसे चाहिए निर्मलता, स्थिरता। आराधना कैसे करें, यह भी समझ लेने की बात है। आप कैसे करते हैं नहीं मालूम, पर जहाँ प्रभु के समवशरण में प्रभु स्वयं विराजमान हैं। अंतिम समवशरण में नवमलवी, नवलच्छवी नरेश बेले की तपस्या करके आध्यात्मिक लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। वह लक्ष्मी कठोर तपस्या से प्राप्त होती है। तीर्थकरों ने उसे प्राप्त किया 'णाणस्स सव्वस्स पगासणाए' वह प्रकाश बाहर से नहीं आता। वह भीतर है, उसे सिर्फ प्रगट करना होता है। वे नरेश 48 घंटे के प्रतिपूर्ण पौष्ठ से प्रभु के सानिध्य में आध्यात्मिक लक्ष्मी की आराधना करते हैं। प्रभु की अंतिम देशना का रसपान करते हुए बैठे हैं। देखते ही देखते प्रभु निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। वैसी आराधना होती है भाव लक्ष्मी की। आज व्यक्ति सम्पन्नता का प्रदर्शन करता है- खूब पटाखे छोड़ता है। अरबों रुपयों के पटाखे छोड़े जाते हैं, पर क्या फायदा ? इससे तो लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। ज्ञानचंदजी ने युवक की लाचारी का लाभ उठाया। यद्यपि वह कह रहा था कि मेरे पैर नहीं उठ रहे हैं, पर वे नहीं पसीजे। भूखे को सर्दी भी ज्यादा लगती है। पेट में भोजन हो तो उसका आधार होता है, पर क्या करें। मन मसोस कर वह गया, दवा लेकर आया और ज्ञानचंद ने भी इंसानियत बरती और उसे भोजन करवाया। ज्ञानचंद व उसकी माता देख रहे थे कि यह गाँव का लड़का है। इसे ठंड भी नहीं लगती। मात्रा एक तौलिया डाले हुए है। बलिष्ठ शरीर वाला है। यदि इसे नौकर रखें तो सर्दी में बाहर निकलना भी नहीं पड़ेगा। भोजन के पश्चात् पूछा- क्या तुम्हें नौकरी करनी है ? उसने उत्तर दिया- हाँ ! मैं तो नौकरी की तलाश में ही निकला था। एक दिन तो अपने साथ के साधनों से गुजारा किया था। साधन समाप्त हो गये, नौकरी नहीं मिली। वैसे मैं कोई भिखरिमांग नहीं हूँ, पर पेट की ज्वाला बढ़ गई और मैं यहाँ भोजन की आशा से चला आया। यदि नौकरी मिल गई तो जरूर करूँगा। उसे रख लिया गया। शाम को उससे कहा गया- जाओ कुँए पर गाय-भैंस को दुहकर आ जाओ। वह तत्परता से गया और दूध लेकर आ गया। रात्रि के समय सभी लोग कमरे बंद करने सोने लगे। ज्ञानचंद की माँ ने युवक से कहा- यहाँ बरामदे में सो जाओ। उसने कहा- बाहर मुझे ठंड लगेगी, एक कम्बल दे दो तो मैं बाहर रात बिता लूँगा, नहीं तो किसी कमरे में, ताकि कम्बल नहीं भी हो तो भी रात बिता लूँ। उस सेट की क्या बात करें, कई घरों में ऐसा प्रसंग उत्पन्न होता है। पर आज युग बदला है। आज तो कहते हैं- नौकर नहीं मिलता। कैसे मिलेगा ? आपने उसकी लाचारी का खूब लाभ उठाया है तो अब वह आपकी लाचारी का लाभ उठाता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि पहले राजा व सेठ नौकर को कौटुम्बिक पुरुष कहते थे अर्थात् अपने ही परिवार का सदस्य मानते थे। इसलिये जो आदेश वे देते तो नौकर भी दौड़कर उसे पूरा करते थे। व्यवहार क्षेत्र में यह जरूरी है। अरतु, ज्ञानचंद ने कहा- जब सुबह तुम मेरे पास आये थे, उस समय तुम्हें ठंड नहीं लग रही थी, केवल एक टावेल तुम्हारे पास था ? उसने कहा- ठंड तो उस समय भी लग रही थी, पर जाना पड़ा। क्योंकि मुझे पेट की ज्वाला को शांत करना था। पेट की आग बुझाने के पश्चात् दिन में तो धूप निकल गई थी, समय निकल गया। ज्ञानचंद ने कहा- शाम को भी तुम गाय-भैंस दुहने गये तब क्या ठंड नहीं लग रही थी। उसने उत्तर दिया- ठंड तो मुझे उस समय भी लग रही थी, पर उस समय कृतज्ञता का भाव था कि इन्होंने मुझे भोजन कराया है, अन्न से मेरे पेट की आग को बुझाया है तो मेरा भी नैतिक कर्तव्य है कि मैं इनका कार्य करूँ और मैं दूध निकालने चला गया। उस समय मैंने ठंड को नजरअंदाज कर दिया। इस समय भूख लगी है न किसी प्रकार के प्रत्युपकार के भाव हैं। ऐसे समय में बाहर सोने पर ठंड लगेगी। ज्ञानचंद ने देखा- भले यह आफत का मारा है पर इसकी बुद्धि निर्मल है। यदि इसे थोड़ा-सा सहयोग मिल जाये तो यह आगे उत्थान भी कर सकता है। ज्ञानचंद के मन में करुणा जगी। वह कहने लगा- गोपाल ! घबराओ मत, यह लो कमरे की चाबी और उसमें सो जाओ। ज्योर्हीं उसने कदम बढ़ाये, ज्ञानचंद की माँ ने एक गरम कम्बल देते हुए कहा- लो गोपाल यह कम्बल ओढ़ लेना। यह विवेक का जागरण था। हम भी ज्ञान रूपी लक्ष्मी से भीतर के विवेक को जागृत करें फिर वह विवेक जीवन को उत्थान की ओर बढ़ायेगा। गोपाल को थोड़ा-सा सहयोग, स्नेह, वात्सल्य, प्यार मिला, वह सदा-सदा के लिए उस घर का सदस्य बन गया। जहाँ जान-पहचान नहीं थी पर इंसानियत का तकाजा था; वह अपनत्व से जुड़ गया। प्रेम व कर्तव्य

इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी को पाना है तो पहले कर्तव्य पर दृष्टिपात करें। दृढ़ता से आरुढ़ हों, विकट परिस्थितियों में भी विचलित नहीं हो तो पथभ्रष्ट नहीं होंगे, सफलता प्राप्त हो सकेगी। हो सकता है, उस समय आपकी परीक्षा भी हो जाये। थोड़ी कठिनाई भी हो सकती है लेकिन तभी व्यक्ति की पहचान होती है। कहा गया है- 'दुःख है ज्ञान की खान, मनवा दुःख है ज्ञान की खान'। जिसने जीवन में दुःख नहीं देखा है, उसे सुख का स्वाद भी नहीं आ सकता। जिसने भूख का दर्द नहीं सहा, उसे सुख का स्वाद भी नहीं मिलेगा। शांत-क्रांति के अग्रदूत स्वर्गीय गणेशाचार्य के जीवन का प्रसंग है। पाँच साधु विहार करके जा रहे थे। एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ शाकाहारी घर नहीं थे, गोचरी नहीं हुई। दूसरे व तीसरे दिन भी योग नहीं बैठा। शायद चौथा दिन हो, संत दो गाँवों में गोचरी हेतु पधारे और इस संदर्भ में दीपमालिका की बात भी कह दूँ। आध्यात्मिक भाव लक्ष्मी को पाने के लिए प्रभु के चरणों को पकड़ लें। प्रभु के चरणों में तो वह लक्ष्मी लोट ही रही है। साथ ही विवेक को जागृत करें, जिससे सुन्दर समन्वय बने। इस प्रकार निर्मलता आयेगी और तब सुख-सम्पत्ति स्वयंमेव चली आयेगी। पर पहले अज्ञान व मोह का विवर्जन आवश्यक है तभी वहाँ निर्मलता व स्थिरता आयेगी। डांवाडोल स्थिति में विवेक का जागरण नहीं होगा। लक्ष्मी भी परीक्षा लेती है कि यह कच्चा है या पक्का। दृढ़ता को धारण करें। कर्तव्य-अकर्तव्य को समझकर आगे बढ़ें तो ज्ञान का वह आलोक भीतर प्रस्फुटित होगा, जो जीवन को प्रकाश से परिपूर्ण कर लेता है।

ममत्व से समत्व की ओर

ज्ञान प्रत्येक आत्मा का स्वाभाविक गुण और प्रत्येक आत्मा में विद्यमान रहता है। ज्ञान के कारण ही आत्मा में चेतना और संवेदना जैसी शक्तियों का आविर्भाव होता है। परन्तु इस ज्ञान का सम्पूर्ण रूप से प्रकाशित होना आवश्यक है। अज्ञान और मोह, ज्ञान के इस प्रकार प्रकाशित होने में बाधा उत्पन्न करते हैं। परिणामस्वरूप निर्मल मन के साथ स्थिर पद को पाना कठिन हो जाता है। कवि आनन्दघनजी कह रहे हैं- 'चरण कमल कमल बसे रे, निर्मल स्थिर पद देख'। निर्मलता के साथ स्थिर पद होना चाहिए, यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। तब समझें कि स्थिर पद का स्वरूप क्या है और यह कैसे प्राप्त होता है? अज्ञान व मोह रहेगा तो स्थिर पद प्राप्त नहीं होगा। आत्मा कषायों के निमित्त से मन, वचन और काया के योगों में प्रकम्पन से चंचल बनी हुई है। यह है अस्थिर अवस्था। यथाख्यात चारित्रा में जिनेश्वर देवों के चरण पड़ते हैं- वह हैं स्थिर अवस्था। यहाँ अध्यवसाय अवस्थित है। चित्तवृत्तियों को डोलायमान अथवा प्रकम्पित करने वाले हैं- कषाय। कषायों के अभाव में चित्तवृत्तियाँ शांत हो जाती हैं। जब स्थिरता प्रकट हो जाती है तब ज्ञान आदि चतुर्थट्य, जिसे आध्यात्मिक लक्ष्मी कहा जाता है, तीर्थकर प्रभु के चरणों में लोटी हैं तथा उनके चरणाश्रय को ग्रहण करती हैं। इसलिए कवि ने कहा है- वह निर्मल व स्थिर चरणों में रहती है। जहाँ समल (स+मल) अवस्था है वहाँ स्थिरता नहीं होगी, तब यह भी कह दें कि वहा लक्ष्मी भी नहीं रहेगी।

हम यद्यपि बात आध्यात्मिक लक्ष्मी की कर रहे हैं परन्तु उसे धनलक्ष्मी के संदर्भ में समझना सरल होगा। इस धनलक्ष्मी का ही पर्व है दीपावली। जिसका प्रारंभ धनतेरस से अपनी सम्पूर्णता में हो जाता है। धनतेरस शब्द ही धन के महत्व, उसके मोह तथा उसकी अपेक्षा की महिमा को प्रकट करता है। क्योंकि तेरस तो प्रत्येक पक्ष में आती है परन्तु धन के साथ उसका संयोग दीपावली से दो दिन पूर्व आने वाली तेरस से ही होता है। धन की आराधना धनतेरस से प्रारंभ होकर दीपावली पर अपनी पूर्णता को पहुँचती है। दीपावली तो लक्ष्मी अथवा धन-सम्पदा की देवी की आराधना का ही त्यौहार है, जबकि उससे पूर्व के धनतेरस और रूप चौदस उस आराधना के उपक्रम के दिन हैं। तनिक विचार करें कि धनतेरस को क्या किया जाता है? उस दिन बहुत कुछ करते हैं। हो सकता है, बही खातों में कुछ लिखते हों, धन को देखते हों या धन विषयक विचारणा की जाती हो कि आज कोई ग्राहक खाली न जाये, नहीं तो कम से कम पहली बोहनी खाली न जाये। अलग-अलग विचार होते हैं। सोचने की बात यह है कि धन का स्वरूप हमने क्या समझा है? धन क्या है? वह धन कैसा है, आज व्यक्ति जिसके पीछे पड़ा है? सत्य तो यह है कि धन के दो रूप हैं, दो छोर हैं- (1) ममता (2) समता। वह ममता बढ़ायेगा तो मोह बढ़ता जायेगा, समता बढ़ायेगा तो संतोष बढ़ता जायेगा। ममत्व वृत्ति से मोह का विस्तार होता है। जो व्यक्ति मोह का विस्तार करता है वह समता प्राप्त नहीं कर सकता। सेठ धन्नाजी की कथा इसका प्रमाण है।

धन्नाजी चार भाई थे। धन्नाजी से सभी भाई ईर्ष्या करते थे। धन्नाजी छोटी वय से ही विलक्षण प्रतिभा-सम्पन्न थे परन्तु अन्य भाईयों के द्वेष-पात्रा बने हुए थे। पिताजी ने भिन्न-भिन्न तौर-तरीकों से परीक्षण कर लिया था, पर उससे भी भाईयों का मानस नहीं बदला था। वे यही सोचते थे कि पिताजी पक्षपात करते हैं और येन-केन-प्रकारेण धन्ना का ही पक्ष लेते हैं। उनकी वैर भावना बढ़ती चली गई है। इधर धन्ना ने विचार किया-मेरे निमित्त से ऐसा कुछ होता है तो मुझे गृह-त्याग कर देना चाहिए। वे घर छोड़कर चले गये पर जहाँ जाते धन पीछे-पीछे जाता, उसने धन्ना को नहीं छोड़ा। इधर जैसे ही धन्ना घर से रवाना हुए, घर से धन भी रवाना होने लगा। पिता-माता-भाई सभी दयनीय दशा में पहुँच गये। सोचने लगे- अब नगर में रहना बेकार है। हम यहाँ वैभव में जीवन व्यतीत करते रहे थे, अब निर्धनता की स्थिति में कैसे रहेंगे ? वे नगर छोड़कर निकल गये। धन्ना आगे बढ़े, उन्हें भूख लग आई थी अतः एक वृक्ष की छाया में बैठ गये। खेत में किसान हल चला रहा था। उसने देखा कोई अतिथि है। वह हल रोककर धन्ना के पास पहुँचा और बोला- तुम अतिथि हो, चलो भोजन आ गया है। हम दोनों बैठकर भोजन कर लें। धन्ना ने कहा- बात आपकी ठीक है, मैं राहगीर हूँ और मुझे भूख भी लगी है। परन्तु मेरा नियम है कि काम करने के बाद ही आपका अन्न खाऊँगा। किसान ने कहा- कोई बात नहीं, पहले भोजन कर लो, उसके बाद हल चला लेना। धन्ना ने कहा- नहीं, मैं पहले काम करूँगा फिर भोजन। किसान ने कहा- चलो, ठीक है, एक-दो हल खींच लो और जल्दी आओ फिर भोजन कर लेंगे। धन्ना आगे बढ़े, ज्यादा अभ्यास तो नहीं था, एक दो-बार खींचा, बीच में एक स्वर्ण का चरू अटक गया, जिसमें अशर्फियाँ थी। अशर्फियाँ बिखर गई, पर वे हल चलाते रहे। धन्ना निःस्पृह थे, अतः अपना काम करते रहे। इतनी देर में किसान आ गया। उसने बिखरी अशर्फियाँ देख लीं। धन्ना कहने लगे- ‘चलो अब भोजन कर लें। किसान ने सोचा ! कैसा आदमी है, जब मैंने कहा था भोजन कर लो तो कहने लगा- पहले काम करूँगा। अब जब ये रोशनी, चमचमाहट बिखर रही है तो यह नहीं कि इन्हें समेट ले, कहता है भोजन कर लें। पर अपने विचार दबाकर उसने धन्ना की बात मान ली। दोनों ने भोजन कर लिया। किसान सोचने लगा- अवश्य ही यह भाग्यवान पुरुष है अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता था। जब धन्ना भोजन करके जाने लगे, तब किसान ने कहा- कहाँ जा रहे हो, ये अपना धन लेते जाओ। धन्ना ने कहा- यह मेरा नहीं है, आपका है। आपके खेत में निकला है। किसान ने कहा- नहीं, मेरा नहीं हो सकता। मेरे बाप-दादों के समय से खेती होती आ रही है, पर धन कभी नहीं निकला। यह तो तुम्हारी ही पुण्यवानी है। धन लेने को न धन्ना तैयार थे, न ही किसान। ऐसा समय आ जाये तो क्या करना चाहिये ? कहना चाहिये- चलो आधा-आधा बाँट लें। लेकिन नहीं, दोनों निःस्पृह थे। राजा के पास गये, राजा ने भी वह धन स्वीकार नहीं किया और वहाँ पर धन नगर बसा दिया। निःस्पृह धन्ना आगे बढ़ते रहे, धन उनके पीछे-पीछे दौड़ता रहा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब व्यक्ति अपने नियमों में आबद्ध रहता है, तब

‘देवावि तं नमं संति, जरस्स धर्मे सयामणो। जब व्यक्ति धर्म में रम जाता है, तब धन छाया की भाँति पीछे दौड़ता है। लेकिन जब व्यक्ति धन को पकड़ने दौड़ता है तो धन पकड़ से बाहर निकल जाता है। इसलिए कहा है- धन के दो छोर हैं- (1) ममता (2) समता या अममत्व भाव। धन से जितना लगाव बढ़ेगा, तृष्णा उतनी ही बढ़ती जायेगी। उस तृष्णा के गड्ढे को भरा भी नहीं जा सकेगा। ऐसा गड्ढा हालांकि दिखने में छोटा-सा होता है, पर उसे कोई भर नहीं पाता। छलनी में छिद्र होते हैं, अतः उसमें जल ठहरता नहीं है। उसी प्रकार हमारा मन भी तृष्णा की किरणों से छिद्रित है, उसमें कितना भी भरो वह बाहर निकल जाता है। ऐसी स्थिति में वह अपने आप में धर्म को भी कैसे टिका पायेगा ?

चाहे सेठ सुदर्शन हों अथवा महाराजा हरिश्चन्द्र, उन्होंने सदा धन को नहीं, धर्म को प्रमुखता दी- ‘धन जाये तो जाये, मेरा धर्म कभी नहीं जाये।’ धन जाता हो तो भले चला जाये पर धर्म पर आँच नहीं आनी चाहिए। लेकिन आज यह चिन्तन पूरी तरह बदल गया है। धन व धर्म ने अपने स्थानों की अदला-बदली कर ली है। अब लोग सोचते हैं- ‘धर्म जाये तो जाये, मेरा धन कभी नहीं जाये।’ धन गया तो मेरे प्राण ही निकल जायेंगे। सोचते हैं- धर्म जाकर भी कहाँ जायेगा, जिंदगी बहुत लम्बी है, फिर धर्म कर लेंगे, पर धन का संग्रह कैसे करेंगे ? किन्तु समझ लें कि धर्म पकड़ने की चीज नहीं है। वह तो निर्मल स्थिर पद देखकर ही कहीं टिकता है। उस स्थिति में निर्मलता हो और परिणामों में स्थिरता, तो फिर धन चरण पकड़कर बैठ जायेगा, पीछा नहीं छोड़ेगा। धनतेरस मनाने के अनेक कारण बताये जाते हैं। सेठ कवयन्ना की कथा भी है कि जैसे उनका सौभाग्य अखण्ड रहा वैसे हमारा धन भी अखंड रहे। आज व्यक्ति लालसाओं से अपना सम्बन्ध उन व्यक्तियों से जोड़ लेता है। सोचता है कि उन जैसी लक्ष्मी मिल जाये। इस लक्ष्मी के स्वरूप पर भी विचार करें। धन के नहीं ममता के रूप

में भी यह व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। इसे ही माया कहते हैं। माया ही ममत्व भाव पैदा करती है। ममत्व के कारण व्यक्ति सोचता है- अभी लड़कों को पढ़ाना है, इनकी चिन्ता करूँ। पढ़कर तैयार हुए तो उनकी शादी की चिन्ता करता है। शादी हो गई तो फिर मन में आयेगा- अब पोते का मुँह देख लूँ, पोते की किलकारी सुन लूँ। कुछ दिन उसे भी खेला लूँ। फिर जब पोता 7-8 वर्ष का हो जायेगा, तब सोचेगा- अब क्या हैं 7-8 वर्ष और बीत जायें इसका विवाह भी देख लूँ। इस माया का कहीं अंत नहीं आता। ये सारी भावनाएँ ममता के साथ शृंखलाबद्ध होती जाती है। ममता से ही परिग्रह की संख्या बढ़ती जाती है। तृष्णा मुँह बायें खड़ी रहती है फिर निरन्तर तनाव बढ़ता है। साधनों का कैसे जुगाड़ करूँ ? हजार हैं तो लाख की ओर लाख हैं तो करोड़ की चाहत पैदा हो जाती है। इस प्रकार की हाय-हाय में ही जिंदगी बीत जाती है। कभी कोई कह भी दे कि मनुष्य जन्म को व्यर्थ ही क्यों खो रहे हो, जीवन सार्थक क्यों नहीं कर लेते तो जवाब मिलेगा- “अरे मुझे तो भगवान पार लगायेंगे।”

इस संदर्भ में लवजी का आख्यान भी ध्यान देने योग्य है। लवजी भाई व्यापार-धन्धे में इतने उलझे रहते कि कभी कोई भित्रा कहता कि लवजी ! थोड़ा तो धर्म-ध्यान किया करो। कभी सामायिक, माला, नित्य-नियम कर लिया करो। तो प्रत्युत्तर मिलता- अरे भाई ! तुम क्या कहते हो, मुझे तो रामजी पार लगायेंगे। लोगों ने भी सोचा-गजब की बात है, पर कैसे समझायें ? अमीचंद भाई ने विचार किया कि लवजी को बोध देना चाहिये। एक दिन वे उनके घर के सामने से निकले और कहने लगे- सागरजी में सौ, बखजी में दो सौ, तेजमल में तीन सौ, इसी प्रकार चार सौ, पाँच सौ, छः सौ, सात सौ और हजारीमल में हजार कहते हुए चले जाते। एक दिन निकला, दो दिन निकले, तीन दिन हो गये। लवजी ने कहा- “ये क्या कहते हो ? सागरजी में 100 आदि क्यों बोल रहे हो। अमीचंद ने कहा- इससे क्या मतलब ? लवजी ने कहा- मतलब क्या ? क्या तुम इनसे पैसे मांग रहे थे। अमीचंद ने कहा- माँग तो नहीं रहा हूँ पर जब बार-बार बोलूंगा तो वे कभी तो चुकायेंगे। लवजी ने कहा- तुम्हारा माथा तो नहीं सठिया गया है ? जब लेन-देन हुआ ही नहीं तो कोई क्यों चुकायेगा। अमीचंद ने कहा- क्या कहते हो ? उत्तर मिला- ऐसे बिना कारण कोई नहीं चुकायेगा। यदि ऐसे चुकाने लगे तो चलता आदमी भी कहने लग जायेगा,

फिर किसे-किसे चुकाया जावेगा ?

तब अमीचंद ने कहा- लवजी भाई ! तुम तो बार-बार कहते हो, मुझे तो भगवान पार उतारेंगे तो क्या कहने मात्रा से उतार देंगे ? कभी भगवान का नाम भी नहीं लेते हो। कोई धर्म-कार्य भी नहीं करते हो। कोई कहता है तो कह देते हो- भगवान पार उतारेंगे। लवजी को लगा बात ठीक है। नाम लेने से क्या होगा, भगवान कैसे पार उतारेंगे ?

यह समझ लेने की बात है कि जब तक अज्ञान और मोह दूर नहीं होगा भगवान कैसे पार करेंगे, कैसे हाथ पकड़ेंगे ? ऐसे ही हाथ पकड़ते तो भगवान ने गौतमस्वामी का क्यों नहीं पकड़ा कि यह तो हर समय मेरे साथ रहता है तो अब इसे छोड़कर कैसे जाऊँ ? हाथ तो पकड़ा नहीं, बल्कि यह और कहा- जाओ ! देवशर्मा ब्राह्मण को बोध देकर आओ। भगवान का नाम लेने से नहीं, बल्कि उनके मार्ग का अनुसरण करने से ही सफलता मिलेगी। अनुसरण नहीं किया तो ज्ञान का सर्वप्रकाश भी नहीं होगा और अज्ञान और मोह का विवर्जन भी नहीं हो पायेगा। यह मोह बाधक है। अतः धन के एक छोर को पकड़कर नहीं बैठें बल्कि ऊपर के अगले छोर तक पहुँचे। कोई ऊपर चढ़ना चाहता है और यदि वह उस निसरणी के पहले पाये को ही पकड़कर बैठ जाये तो वह ऊपर नहीं पहुँच पायेगा। यदि छत को पाना है तो उसे पहले पगतिये को छोड़ना होगा। ममता पहली सीढ़ी है। धन ही वह पहली सीढ़ी हैं, जो व्यक्ति को लुभाने वाली है। जब साधना के क्षेत्रा में साधक गति करता है तो अनेक सिद्धियाँ, लक्ष्याँ अणिमा, महिमा आदि प्रकट होती हैं, यदि व्यक्ति उन्हीं में उलझकर रह जाये तो आगे के सोपान पर आरुढ़ नहीं हो सकेगा। न वह ज्ञान को सर्वरूप में प्रकाशित कर पायेगा, न ही लक्ष्मी इसके चरणों में लौटेगी। लक्ष्मी भी पहले देखती हैं कि चरण कितने मजबूत हैं। पहले वह परिचय बढ़ाती है और जब देखती है कि साधक फँस गया तो वह ज्ञांसा देकर निकल जाती है। साधक बैठा देखता रह जाता है। सोचता है- अरे, जिसे मैंने पकड़ा था, वह तो चली गई ! यह है प्रथम सोपान। पर यदि इस स्थिति से स्वयं को बचा ले और आगे बढ़े तो ऊपर समता का सोपान- ‘समियाए धर्मे’- समता में धर्म है। उसमें जो रस जाये फिर देवावि तं नमं संति’ देवता भी उसके चरणों में आते हैं फिर लक्ष्मी क्या अछूती रहेगी ? हम जानते हैं कि सेठ धन्ना ने तो उसे त्याग भी दिया था तो भी वह धनलक्ष्मी उनके पीछे-पीछे लगी रही। जो भाई धन को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं उनके हाथ धन तो नहीं, कंगाली-गरीबी का पट्टा अवश्य आता है और उससे दुःख-दुर्भाग्य ही बढ़ता है।

यदि श्रावक के पास कौड़ी नहीं तो वह कौड़ी का और यदि साधु कौड़ी रखता है या स्वयं न रखकर मुनीम के रूप में श्रावकों के माध्यम से रखवाता है तो वह साधु कौड़ी का है। उसकी इज्जत नहीं होती। ऐसा व्यक्ति साधु बन भी गया तो क्या हुआ, उसने साधु के स्वरूप को तो जाना ही नहीं। जो पहले ही छोर अथवा सीढ़ी पर अटक गया वह जीवन में समता को कभी प्राप्त नहीं कर पायेगा। धनतेरस के महत्त्व से संबंधित एक पौराणिक प्रसंग भी है। समुद्र-मन्थन के दौरान समुद्र में से जो रत्न सबसे पहले प्रगट हुआ उसका नाम था- 'धन्वन्तरि'। धनतेरस के दिन ही यह प्रकटीकरण हुआ था। धन्वन्तरि वैद्य थे और वैद्यों का जीवन रोगों से पीड़ित लोगों की चिकित्सा कर उन्हें शांति-संतोष देना ही होता है। इस प्रकार वैद्य भी दुःख विनाशक होते हैं। इसीलिये धन्वन्तरि की धनतेरस के दिन पूजा की जाती है। धनतेरस पर अथवा धनलक्ष्मी की पूजा में धन की, ममता की भावना होगी। यह ममता ही बंधनों की जननी है। यदि ममता के पाये को छोड़कर, समता के छोर पर पहुँचें तो वहाँ यथार्थ में जो धन मिलेगा वह सुख-सम्पत्ति देने वाला होगा। तब जो सौभाग्य प्राप्त होगा उसके इदं-गिर्द सारी ऋद्धियाँ चक्कर काटेंगी। भाई धन्नाजी को भले समझ न पाये हों और पूरा का पूरा धन प्राप्त करना चाहते हों पर क्या हाथ आया उनके ? सेठ सुदर्शन ने कहा था- चाहे शरीर जाये, धन जाये, परवाह नहीं, पर मैं धर्म को नहीं छोड़ सकता। महाराज हरिश्चन्द्र ने धन की, कोष की परवाह नहीं की और कहा- मेरा सत्य धर्म अखंडित रहना चाहिए। अर्हन्नक श्रावक के जहाज को देव ने अंगुली पर उठा लिया- अर्हन्नक एक बाह कह दो 'धर्म सत्य नहीं है' नहीं तो जहाज को ऊपर से गिरा दूँगा, जहाज के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे। सारी सम्पत्ति, किरणा आदि समुद्र में लीन हो जायेगी। जहाज में सवार व्यक्तियों ने भी परामर्श दिया- अर्हन्नक, संकट की घड़ी में एक बार बोल दो। सोचते हैं- 'आपत्ति काले मर्यादा नास्ति' एक बार कह दो, फिर गुरुदेव से प्रायशित्त ले लेंगे। गलियाँ निकालना हमें बहुत आता है। क्या करें, समाज में रहते हैं, ऐसा करना पड़ता है- इतनी-सी बात से निपटारा कर लेते हैं। पर गहराई में जाईये। एक बार दीवार में छेद कर दिया, आवागमन का मार्ग बन गया, फिर लोगों का पैर बढ़ा तो रोकना कठिन होगा। एक बार संकल्प टूटा तो फिर उसे साधना कठिन होगा। व्यक्ति सोचता है- क्या फर्क पड़ता है। एक बार टूटा, वह बार-बार टूटता है। जैसे मोमबत्ती पूरी थी पर जैसे लौ बढ़ी, वह पिघल गई। विपत्ति में धर्म को छोड़ दिया तो फिर हो जायेगा- अस्थिर पद और लक्ष्मी अपना वास त्याग देगी। इसलिये कहा है- समल अस्थिर पद परिहरे रे... समल अर्थात् मल सहित। संकल्प शिथिल हुआ, मल प्रविष्ट हो गया वहाँ अस्थिरता आ जायेगी। फिर वहाँ लक्ष्मी नहीं रहेगी। कहा भी है- "सत् की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आय" नियम से बंधी है तो फिर वह छोड़कर जाने वाली नहीं है। ऐसी ही एक घटना है। एक सेठ का नियम था कि बाजार में जो भी वस्तु बिकने आये और यदि शाम तक भी वह नहीं बिके तो वह उसे खरीद लेता था। लोगों ने सोचा- देखें, यह केवल कहता ही है या नियम में दृढ़ भी है। एक बार दो भाईयों ने विचार किया- इसकी परीक्षा करनी चाहिये। वे उखरड़ी का कचरा भरवाकर लाये एवं बाजार में बेचने बैठ गये। सुबह से शाम हो गई पर 'कुण ले जावे कचरो'। मकान बन रहा हो तो गड़दा भरने के लिए आज भले वह भी ले जावें, पर कचरा ले जाना कोई नहीं चाहता। शाम हो गई, सेठजी बाजार से निकले, कहा- "जाओ भाई। यह सारा माल मेरे गोदाम में भर दो।" मुनीम ने रोका- "सेठजी, यह क्या कर रहे हैं ?" सेठ ने कहा- "यह मेरा नियम है।" नाल ले लिया, पैसे दे दिये। रात्रि के पिछले प्रहर में सेठ ने स्वप्न में देखा- एक कन्या सम्बोधन कर रही थी- "सेठ ! मैं जा रही हूँ।" सेठ की आँखें खुली या नहीं, पता नहीं पर पूछा- तुम कौन हो ? उत्तर मिला- मैं लक्ष्मी हूँ। मैं समल अस्थिर पद का परिहार करती हूँ। जहाँ गन्दगी है, वहाँ मैं निवास नहीं कर सकती। तुमने अपने गोदाम में गंदगी भर ली है, अतः मैं नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ।" सेठ ने कहा- कोई बात नहीं, पर इतने समय से रह रही हो तो सात दिन और रुक जाओ, ताकि मैं सोच लू। लक्ष्मी ने कहा-ठीक है। वैसे तो मैं चंचला हूँ लेकिन तुम्हारी सात पीढ़ी से मेरा यही निवास रहा है, चूंकि यहाँ निर्मलता और स्थिरता रही है, लेकिन अब रुक नहीं सकती। तुम्हें सात दिन का समय देती हूँ। सेठ सुबह उठा, परिवार वालों से भी विचार किया। सभी ने कहा- कचरा फिकवा दो। सेठ ने कहा- मेरा नियम है और मैं उसे दृढ़ता से पालूँगा। सेठ ने विचार किया- जब वह जाने ही वाली हैं तो क्यों न उसे ठाठ-बाट से विदाई दी जाये। जहाँ-जहाँ दान की आवश्यकता थी, जैसे अस्पताल, धर्मशाला आदि उन सभी में सेठ ने सारी सम्पत्ति वितरित कर दी। ट्रस्ट आदि बनाकर, जहाँ जितना करना था कर दिया ताकि वे कार्यरत हो जायें और जनता लाभान्वित हो। इस प्रकार सारी सम्पत्ति उसने सत्कार्य में लगा दी। सातवें दिन जब वह सो रहा था, उसके मन में परमशांति थी। वह आनंद में था, अब कोई हाय-हाय नहीं थी। संतोष की सांस ले रहा था क्योंकि उसने ममता की प्रथम श्रेणी

से हटकर दूसरे सिरे को प्राप्त कर लिया था। हम जानते हैं कि जो उस सिरे पर पहुँच जाता है, वह व्यक्ति भरा हुआ हो जाता है। पहले सिरे पर वह भुक्कड़ होता है पर दूसरे सिरे पर भूख नहीं होती। समता का दरिया वह रहा होता है, चपलता नहीं रहती। रात्रि में लक्ष्मी आई और कहने लगी- 'सेठ तुमने क्या सोचा ?' सेठ ने कहा- आप आराम से जाईये। लक्ष्मी ने कहा- मैं नहीं जाने वाली हूँ। सेठ ने कहा- नहीं, मुझे अब आवश्यकता नहीं है, खुशी-खुशी पधारो। लक्ष्मी ने कहा- सेठ आप में अजब की कला है। सात दिनों में दान आदि क्रियाओं से आपने इतनी निर्मलता बढ़ा ली, समता व संतोष-भाव को इतना बढ़ा लिया कि पवित्रा हो गये। विचारों में डोलायमान की स्थिति भी नहीं रही। अपने नियमों पर आप दृढ़ हो, अडिंग हो तो मैं छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि मैं खूटे से, डोर से बंधी हूँ। मुझमें वह क्षमता नहीं कि वह खूंटा उखाड़ सकूँ। जहाँ नियमों में शिथिलता आती है वहाँ से मैं भाग जाती हूँ। क्योंकि वहाँ का खूंटा चेड़ा और कौणिक के बीच युद्ध चल रहा था। चेड़ा महाराज विजयी होने लगे। कौणिक हारने के भय से चिन्तित हो रहा था, उसने अपने मित्रा इन्द्र का आहवान किया- मुझे सहयोग दो। इन्द्र ने कहा- "चेड़ा महाराज गृहस्थ जीवन में रहते हैं पर वे दूसरे छोर पर पहुँच गये हैं, अपने आप में निर्मल हैं। इस स्थिति में मैं तुम्हारे साथ खड़ा भी हुआ तो विजय नहीं दिला सकता। पर एक बात अवश्य है; उनके यहाँ जो खंभा गड़ा हुआ है, वह मजबूत है। जब तक वह रहेगा, तब तक भले तुम्हारी सेना में देव मिल जायें, तुम विजयी नहीं हो सकोगे। उसे गिराने पर ही विजय मिल सकती हैं। एक सैनिक ने यह कार्य अपने हाथों में लिया। नैमेत्तिक का रूप धारण करके गया। चेड़ा महाराज से कहने लगा- अभी तक युद्ध में सफलता नहीं मिल रही है, इसका कारण है- वह खंभा। इसे गिराने पर भी तुम सफल हो सकते हो। चेड़ा ने कहा- "कोई बात नहीं, यह प्रयोग भी कर लें।" सैनिक जुट गये। कौणिक को ज्ञात हुआ तो उसने आदेश दिया। सारी कौणिक सैना पीछे हटने लगी। ज्योर्हीं खंभा गिरा कौणिक ने पुनः आक्रमण किया और युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। यह घटना प्रमाणित करती है यदि संकल्प अखंडित है तो कोई शक्ति हावी नहीं हो सकती। जहाँ स्थिरता है, वहाँ लक्ष्मी बंधी रहेगी पर खूंटा ही तब यह समझ लें कि यदि हम धर्म को पाना चाहते हैं तो समता के छोर से हटकर आगे बढ़ें। समता रूप भाव लक्ष्मी को प्राप्त करने का प्रयास करें। यदि वह प्राप्त हो गई तो द्रव्य लक्ष्मी हमें कभी छोड़कर नहीं जा सकेगी। ऐसा धन मिल जाये तो फिर दुःख-दुर्भाग्य टल जायेंगे। इस प्रकार अगर 'धीर्ग धणी माथे किया रे' तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारी ओर आँख उठा सके। सही रूप में धनतेरस को मनाने का यही तरीका है। इस प्रकार यदि समत्व भाव से आगे बढ़ें तो एक दिन अवश्य समत्व से वीतरागता तक पहुँचने में सफल होंगे।

ममत्व से समत्व की ओर

ज्ञान प्रत्येक आत्मा का स्वाभाविक गुण और प्रत्येक आत्मा में विद्यमान रहता है। ज्ञान के कारण ही आत्मा में चेतना और संवेदना जैसी शक्तियों का आविर्भाव होता है। परन्तु इस ज्ञान का सम्पूर्ण रूप से प्रकाशित होना आवश्यक है। अज्ञान और मोह, ज्ञान के इस प्रकार प्रकाशित होने में बाधा उत्पन्न करते हैं। परिणामस्वरूप निर्मल मन के साथ स्थिर पद को पाना कठिन हो जाता है। कवि आनन्दघनजी कह रहे हैं- 'चरण कमल कमल बसे रे, निर्मल स्थिर पद देख'। निर्मलता के साथ स्थिर पद होना चाहिए, यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। तब समझें कि स्थिर पद का स्वरूप क्या है और यह कैसे प्राप्त होता है ? अज्ञान व मोह रहेगा तो स्थिर पद प्राप्त नहीं होगा। आत्मा कषायों के निमित्त से मन, वचन और काया के योगों में प्रकम्पन से चंचल बनी हुई है। यह है अस्थिर अवस्था। यथाख्यात चारित्रा

में जिनेश्वर देवों के चरण पड़ते हैं- वह हैं स्थिर अवस्था। यहाँ अध्यवसाय अवस्थित है। चित्तवृत्तियों को डोलायमान अथवा प्रकम्पित करने वाले हैं- कषाय। कषायों के अभाव में चित्तवृत्तियाँ शांत हो जाती हैं। जब स्थिरता प्रकट हो जाती है तब ज्ञान आदि चतुष्पद्य, जिसे आध्यात्मिक लक्ष्मी कहा जाता है, तीर्थकर प्रभु के चरणों में लोटी हैं तथा उनके चरणाश्रय को ग्रहण करती हैं। इसलिए कवि ने कहा है- वह निर्मल व स्थिर चरणों में रहती है। जहाँ समल (स+मल) अवस्था है वहाँ स्थिरता नहीं होगी, तब यह भी कह दें कि वह लक्ष्मी भी नहीं रहेगी।

हम यद्यपि बात आध्यात्मिक लक्ष्मी की कर रहे हैं परन्तु उसे धनलक्ष्मी के संदर्भ में समझना सरल होगा। इस धनलक्ष्मी का ही पर्व है दीपावली। जिसका प्रारंभ धनतेरस से अपनी सम्पूर्णता में हो जाता है। धनतेरस शब्द ही धन के महत्त्व, उसके मोह तथा उसकी अपेक्षा की महिमा को प्रकट करता है। क्योंकि तेरस तो प्रत्येक पक्ष में आती है परन्तु धन के साथ उसका संयोग दीपावली से दो दिन पूर्व आने वाली तेरस से ही होता है। धन की आराधना धनतेरस से प्रारंभ होकर दीपावली पर अपनी पूर्णता को पहुँचती है। दीपावली तो लक्ष्मी अथवा धन-सम्पदा की देवी की आराधना का ही त्यौहार है, जबकि उससे पूर्व के धनतेरस और रूप चौदस उस आराधना के उपक्रम के दिन हैं। तनिक विचार करें कि धनतेरस को क्या किया जाता है ? उस दिन बहुत कुछ करते हैं। हो सकता है, बही खातों में कुछ लिखते हों, धन को देखते हों या धन विषयक विचारणा की जाती हो कि आज कोई ग्राहक खाली न जाये, नहीं तो कम से कम पहली बोहनी खाली न जाये। अलग-अलग विचार होते हैं। सोचने की बात यह है कि धन का स्वरूप हमने क्या समझा है ? धन क्या है ? वह धन कैसा है, आज व्यक्ति जिसके पीछे पड़ा है ? सत्य तो यह है कि धन के दो रूप हैं, दो छोर हैं- (1) ममता (2) समता। वह ममता बढ़ायेगा तो मोह बढ़ता जायेगा, समता बढ़ायेगा तो संतोष बढ़ता जायेगा। ममत्व वृत्ति से मोह का विस्तार होता है। जो व्यक्ति मोह का विस्तार करता है वह समता प्राप्त नहीं कर सकता। सेठ धन्नाजी की कथा इसका प्रमाण है।

धन्नाजी चार भाई थे। धन्नाजी से सभी भाई ईर्ष्या करते थे। धन्नाजी छोटी वय से ही विलक्षण प्रतिभा-सम्पन्न थे परन्तु अन्य भाईयों के द्वेष-पात्रा बने हुए थे। पिताजी ने भिन्न-भिन्न तौर-तरीकों से परीक्षण कर लिया था, पर उससे भी भाईयों का मानस नहीं बदला था। वे यही सोचते थे कि पिताजी पक्षपात करते हैं और येन-केन-प्रकारेण धन्ना का ही पक्ष लेते हैं। उनकी वैर भावना बढ़ती चली गई है। इधर धन्ना ने विचार किया-मेरे निमित्त से ऐसा कुछ होता है तो मुझे गृह-त्याग कर देना चाहिए। वे घर छोड़कर चले गये पर जहाँ जाते धन पीछे-पीछे जाता, उसने धन्ना को नहीं छोड़ा। इधर जैसे ही धन्ना घर से रवाना हुए, घर से धन भी रवाना होने लगा। पिता-माता-भाई सभी दयनीय दशा में पहुँच गये। सोचने लगे- अब नगर में रहना बेकार है। हम यहाँ वैभव में जीवन व्यतीत करते रहे थे, अब निर्धनता की स्थिति में कैसे रहेंगे ? वे नगर छोड़कर निकल गये। धन्ना आगे बढ़े, उन्हें भूख लग आई थी अतः एक वृक्ष की छाया में बैठ गये। खेत में किसान हल चला रहा था। उसने देखा कोई अतिथि है। वह हल रोककर धन्ना के पास पहुँचा और बोला- तुम अतिथि हो, चलो भोजन आ गया है। हम दोनों बैठकर भोजन कर लें। धन्ना ने कहा- बात आपकी ठीक है, मैं राहगीर हूँ और मुझे भूख भी लगी है। परन्तु मेरा नियम है कि काम करने के बाद ही आपका अन्न खाऊँगा। किसान ने कहा- कोई बात नहीं, पहले भोजन कर लो, उसके बाद हल चला लेना। धन्ना ने कहा- नहीं, मैं पहले काम करूँगा फिर भोजन। किसान ने कहा- चलो, ठीक है, एक-दो हल खींच लो और जल्दी आओ फिर भोजन कर लेंगे। धन्ना आगे बढ़े, ज्यादा अभ्यास तो नहीं था, एक दो-बार खींचा, बीच में एक स्वर्ण का चरू अटक गया, जिसमें अशर्फियाँ थी। अशर्फियाँ बिखर गई, पर वे हल चलाते रहे। धन्ना निःस्पृह थे, अतः अपना काम करते रहे। इतनी देर में किसान आ गया। उसने बिखरी अशर्फियाँ देख लीं। धन्ना कहने लगे- “चलो अब भोजन कर लें। किसान ने सोचा ! कैसा आदमी है, जब मैंने कहा था भोजन कर लो तो कहने लगा- पहले काम करूँगा। अब जब ये रोशनी, चमचमाहट बिखेर रही है तो यह नहीं कि इन्हें समेट ले, कहता है भोजन कर लें। पर अपने विचार दबाकर उसने धन्ना की बात मान ली। दोनों ने भोजन कर लिया। किसान सोचने लगा- अवश्य ही यह भाग्यवान पुरुष है अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता था। जब धन्ना भोजन करके जाने लगे, तब किसान ने कहा- कहाँ जा रहे हो, ये अपना धन लेते जाओ। धन्ना ने कहा- यह मेरा नहीं है, आपका है। आपके खेत में निकला है। किसान ने कहा- नहीं, मेरा नहीं हो सकता। मेरे बाप-दादों के समय से खेती होती आ रही हैं, पर धन कभी नहीं निकला। यह तो तुम्हारी ही पुण्यवानी है। धन लेने को न धन्ना तैयार थे, न ही किसान। ऐसा समय आ जाये तो क्या करना चाहिये ? कहना चाहिये- चलो आधा-आधा बॉट लें। लेकिन नहीं, दोनों निःस्पृह थे। राजा के पास गये,

राजा ने भी वह धन स्वीकार नहीं किया और वहाँ पर धन नगर बसा दिया। निःस्पृह धन्ना आगे बढ़ते रहे, धन उनके पीछे-पीछे दौड़ता रहा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब व्यक्ति अपने नियमों में आबद्ध रहता है, तब 'देवावि तं नमं संति, जस्स धम्मे सयामणो।

जब व्यक्ति धर्म में रम जाता है, तब धन छाया की भाँति पीछे दौड़ता है। लेकिन जब व्यक्ति धन को पकड़ने दौड़ता है तो धन पकड़ से बाहर निकल जाता है। इसलिए कहा है- धन के दो छोर हैं- (1) ममता (2) समता या अममत्त्व भाव। धन से जितना लगाव बढ़ेगा, तृष्णा उतनी ही बढ़ती जायेगी। उस तृष्णा के गड़डे को भरा भी नहीं जा सकेगा। ऐसा गड़डा हालांकि दिखने में छोटा-सा होता है, पर उसे कोई भर नहीं पाता। छलनी में छिद्र होते हैं, अतः उसमें जल ठहरता नहीं है। उसी प्रकार हमारा मन भी तृष्णा की किरणों से छिद्रित है, उसमें कितना भी भरो वह बाहर निकल जाता है। ऐसी स्थिति में वह अपने आप में धर्म को भी कैसे टिका पायेगा ?

चाहे सेठ सुदर्शन हों अथवा महाराजा हरिश्चन्द्र, उन्होंने सदा धन को नहीं, धर्म को प्रमुखता दी- 'धन जाये तो जाये, मेरा धर्म कभी नहीं जाये।' धन जाता हो तो भले चला जाये पर धर्म पर आँच नहीं आनी चाहिए। लेकिन आज यह चिन्तन पूरी तरह बदल गया है। धन व धर्म ने अपने स्थानों की अदला-बदली कर ली है। अब लोग सोचते हैं- 'धर्म जाये तो जाये, मेरा धन कभी नहीं जाये।' धन गया तो मेरे प्राण ही निकल जायेंगे। सोचते हैं- धर्म जाकर भी कहाँ जायेगा, जिंदगी बहुत लच्छी है, फिर धर्म कर लेंगे, पर धन का संग्रह कैसे करेंगे ? किन्तु समझ लें कि धर्म पकड़ने की चीज नहीं है। वह तो निर्मल स्थिर पद देखकर ही कहीं टिकता है। उस स्थिति में निर्मलता हो और परिणामों में स्थिरता, तो फिर धन चरण पकड़कर बैठ जायेगा, पीछा नहीं छोड़ेगा। धनतेरस मनाने के अनेक कारण बताये जाते हैं। सेठ कवयन्ना की कथा भी है कि जैसे उनका सौभाग्य अखण्ड रहा वैसे हमारा धन भी अखण्ड रहे। आज व्यक्ति लालसाओं से अपना सम्बन्ध उन व्यक्तियों से जोड़ लेता है। सोचता है कि उन जैसी लक्ष्मी मिल जाये। इस लक्ष्मी के स्वरूप पर भी विचार करें। धन के नहीं ममता के रूप में भी यह व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। इसे ही माया कहते हैं। माया ही ममत्त्व भाव पैदा करती है। ममत्त्व के कारण व्यक्ति सोचता है- अभी लड़कों को पढ़ाना है, इनकी चिन्ता करूँ। पढ़कर तैयार हुए तो उनकी शादी की चिन्ता करता है। शादी हो गई तो फिर मन में आयेगा- अब पोते का मुँह देख लूँ, पोते की किलकारी सुन लूँ। कुछ दिन उसे भी खेला लूँ। फिर जब पोता 7-8 वर्ष का हो जायेगा, तब सोचेगा- अब क्या हैं 7-8 वर्ष और बीत जायें इसका विवाह भी देख लूँ। इस माया का कहीं अंत नहीं आता। ये सारी भावनाएँ ममता के साथ श्रृंखलाबद्ध होती जाती हैं। ममता से ही परिग्रह की संख्या बढ़ती जाती है। तृष्णा मुँह बायें खड़ी रहती है फिर निरन्तर तनाव बढ़ता है। साधनों का कैसे जुगाड़ करूँ ? हजार हैं तो लाख की और लाख हैं तो करोड़ की चाहत पैदा हो जाती है। इस प्रकार की हाय-हाय में ही जिंदगी बीत जाती है। कभी कोई कह भी दे कि मनुष्य जन्म को व्यर्थ ही क्यों खो रहे हो, जीवन सार्थक क्यों नहीं कर लेते तो जवाब मिलेगा- "अरे मुझे तो भगवान पार लगायेंगे।"

इस संदर्भ में लवजी का आख्यान भी ध्यान देने योग्य है। लवजी भाई व्यापार-धन्दे में इतने उलझे रहते कि कभी कोई मित्रा कहता कि लवजी ! थोड़ा तो धर्म-ध्यान किया करो। कभी सामायिक, माला, नित्य-नियम कर लिया करो। तो प्रत्युत्तर मिलता- अरे भाई ! तुम क्या कहते हो, मुझे तो रामजी पार लगायेंगे। लोगों ने भी सोचा-गजब की बात है, पर कैसे समझायें ? अमीचंद भाई ने विचार किया कि लवजी को बोध देना चाहिये। एक दिन वे उनके घर के सामने से निकले और कहने लगे- सागरजी में सौ, बखजी में दो सौ, तेजमल में तीन सौ, इसी प्रकार चार सौ, पाँच सौ, छ: सौ, सात सौ और हजारीमल में हजार कहते हुए चले जाते। एक दिन निकला, दो दिन निकले, तीन दिन हो गये। लवजी ने कहा- "ये क्या कहते हो ? सागरजी में 100 आदि क्यों बोल रहे हों। अमीचंद ने कहा- इससे क्या मतलब ? लवजी ने कहा- मतलब क्या ? क्या तुम इनसे पैसे मांग रहे थे। अमीचंद ने कहा- माँग तो नहीं रहा हूँ पर जब बार-बार बोलूंगा तो वे कभी तो चुकायेंगे। लवजी ने कहा- तुम्हारा माथा तो नहीं सठिया गया है ? जब लेन-देन हुआ ही नहीं तो कोई क्यों चुकायेगा। अमीचंद ने कहा- क्या कहते हो ? उत्तर मिला- ऐसे बिना कारण कोई नहीं चुकायेगा। यदि ऐसे चुकाने लगे तो चलता आदमी भी कहने लग जायेगा, फिर किसे-किसे चुकाया जावेगा ?

तब अमीचंद ने कहा- लवजी भाई ! तुम तो बार-बार कहते हो, मुझे तो भगवान पार उतारेंगे तो क्या कहने मात्रा से उतार देंगे ? कभी भगवान का नाम भी नहीं लेते हो। कोई धर्म-कार्य भी नहीं करते हो। कोई कहता है तो कह देते हो- भगवान पार उतारेंगे। लवजी को लगा बात ठीक है। नाम लेने से क्या होगा, भगवान कैसे पार

उतारेंगे

यह समझ लेने की बात है कि जब तक अज्ञान और मोह दूर नहीं होगा भगवान कैसे पार करेंगे, कैसे हाथ पकड़ेंगे ? ऐसे ही हाथ पकड़ते तो भगवान ने गौतमस्वामी का क्यों नहीं पकड़ा कि यह तो हर समय मेरे साथ रहता है तो अब इसे छोड़कर कैसे जाऊँ ? हाथ तो पकड़ा नहीं, बल्कि यह और कहा- जाओ ! देवशर्मा ब्राह्मण को बोध देकर आओ। भगवान का नाम लेने से नहीं, बल्कि उनके मार्ग का अनुसरण करने से ही सफलता मिलेगी। अनुसरण नहीं किया तो ज्ञान का सर्वप्रकाश भी नहीं होगा और अज्ञान और मोह का विवर्जन भी नहीं हो पायेगा। यह मोह बाधक है। अतः धन के एक छोर को पकड़कर नहीं बैठें बल्कि ऊपर के अगले छोर तक पहुँचे। कोई ऊपर चढ़ना चाहता है और यदि वह उस निसरणी के पहले पाये को ही पकड़कर बैठ जाये तो वह ऊपर नहीं पहुँच पायेगा। यदि छत को पाना है तो उसे पहले पगतिये को छोड़ना होगा। ममता पहली सीढ़ी है। धन ही वह पहली सीढ़ी हैं, जो व्यक्ति को लुभाने वाली है। जब साधना के क्षेत्रा में साधक गति करता है तो अनेक सिद्धियाँ, लक्ष्याँ अणिमा, महिमा आदि प्रकट होती हैं, यदि व्यक्ति उन्हीं में उलझकर रह जाये तो आगे के सोपान पर आरुढ़ नहीं हो सकेगा। न वह ज्ञान को सर्वरूप में प्रकाशित कर पायेगा, न ही लक्ष्मी इसके चरणों में लौटेगी। लक्ष्मी भी पहले देखती हैं कि चरण कितने मजबूत हैं। पहले वह परिचय बढ़ाती है और जब देखती है कि साधक फँस गया तो वह ज्ञांसा देकर निकल जाती है। साधक बैठा देखता रह जाता है। सोचता है- अरे, जिसे मैंने पकड़ा था, वह तो चली गई ! यह है प्रथम सोपान। पर यदि इस स्थिति से स्वयं को बचा ले और आगे बढ़े तो ऊपर समता का सोपान- 'समियाए धर्मे'- समता में धर्म है। उसमें जो रम जाये फिर देवावितं नमं संति' देवता भी उसके चरणों में आते हैं फिर लक्ष्मी क्या अछूती रहेगी ? हम जानते हैं कि सेठ धन्ना ने तो उसे त्याग भी दिया था तो भी वह धनलक्ष्मी उनके पीछे-पीछे लगी रही। जो भाई धन को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं उनके हाथ धन तो नहीं, कंगाली-गरीबी का पट्टा अवश्य आता है और उससे दुःख-दुर्भाग्य ही बढ़ता है।

यदि श्रावक के पास कौड़ी नहीं तो वह कौड़ी का और यदि साधु कौड़ी रखता है या स्वयं न रखकर मुनीम के रूप में श्रावकों के माध्यम से रखवाता है तो वह साधु कौड़ी का है। उसकी इज्जत नहीं होती। ऐसा व्यक्ति साधु बन भी गया तो क्या हुआ, उसने साधु के स्वरूप को तो जाना ही नहीं। जो पहले ही छोर अथवा सीढ़ी पर अटक गया वह जीवन में समता को कभी प्राप्त नहीं कर पायेगा। धनतेरस के महत्त्व से संबंधित एक पौराणिक प्रसंग भी है। समुद्र-मन्थन के दौरान समुद्र में से जो रत्न सबसे पहले प्रगट हुआ उसका नाम था- 'धन्वन्तरि'। धनतेरस के दिन ही यह प्रकटीकरण हुआ था। धन्वन्तरि वैद्य थे और वैद्यों का जीवन रोगों से पीड़ित लोगों की चिकित्सा कर उन्हें शांति-संतोष देना ही होता है। इस प्रकार वैद्य भी दुःख विनाशक होते हैं। इसीलिये धन्वन्तरि की धनतेरस के दिन पूजा की जाती है। धनतेरस पर अथवा धनलक्ष्मी की पूजा में धन की, ममता की भावना होगी। यह ममता ही बंधनों की जननी है। यदि ममता के पाये को छोड़कर, समता के छोर पर पहुँचें तो वहाँ यथार्थ में जो धन मिलेगा वह सुख-सम्पत्ति देने वाला होगा। तब जो सौभाय्य प्राप्त होगा उसके इर्द-गिर्द सारी ऋद्धियाँ चक्कर काटेंगी। भाई धन्नाजी को भले समझ न पाये हों और पूरा का पूरा धन प्राप्त करना चाहते हों पर क्या हाथ आया उनके ? सेठ सुदर्शन ने कहा था- चाहे शरीर जाये, धन जाये, परवाह नहीं, पर मैं धर्म को नहीं छोड़ सकता। महाराज हरिश्चन्द्र ने धन की, कोष की परवाह नहीं की और कहा- मेरा सत्य धर्म अखंडित रहना चाहिए। अर्हन्नक श्रावक के जहाज को देव ने अंगुली पर उठा लिया- अर्हन्नक एक बाह कह दो 'धर्म सत्य नहीं है' नहीं तो जहाज को ऊपर से गिरा दूंगा, जहाज के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे। सारी सम्पत्ति, किराणा आदि समुद्र में लीन हो जायेगी। जहाज में सवार व्यक्तियों ने भी परामर्श दिया- अर्हन्नक, संकट की घड़ी में एक बार बोल दो। सोचते हैं- 'आपत्ति काले मर्यादा नास्ति' एक बार कह दो, फिर गुरुदेव से प्रायशित्त ले लेंगे। गलियाँ निकालना हमें बहुत आता है। क्या करें, समाज में रहते हैं, ऐसा करना पड़ता है- इतनी-सी बात से निपटारा कर लेते हैं। पर गहराई में जाईये। एक बार दीवार में छेद कर दिया, आवागमन का मार्ग बन गया, फिर लोगों का पैर बढ़ा तो रोकना कठिन होगा। एक बार संकल्प टूटा तो फिर उसे साधना कठिन होगा। व्यक्ति सोचता है- क्या फर्क पड़ता है। एक बार टूटा, वह बार-बार टूटता है। जैसे मोमबत्ती पूरी थी पर जैसे लौ बढ़ी, वह पिघल गई। विपत्ति में धर्म को छोड़ दिया तो फिर हो जायेगा- अस्थिर पद और लक्ष्मी अपना वास त्याग देगी। इसीलिये कहा है- समल अस्थिर पद परिहरे रे... समल अर्थात् मल सहित। संकल्प शिथिल हुआ, मल प्रविष्ट हो गया वहाँ अस्थिरता आ जायेगी। फिर वहाँ लक्ष्मी नहीं रहेगी। कहा भी है- "सत् की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आय" नियम

से बंधी है तो फिर वह छोड़कर जाने वाली नहीं है। ऐसी ही एक घटना है। एक सेठ का नियम था कि बाजार में जो भी वस्तु बिकने आये और यदि शाम तक भी वह नहीं बिके तो वह उसे खरीद लेता था। लोगों ने सोचा- देखें, यह केवल कहता ही है या नियम में दृढ़ भी है। एक बार दो भाईयों ने विचार किया- इसकी परीक्षा करनी चाहिये। वे उखरड़ी का कचरा भरवाकर लाये एवं बाजार में बेचने बैठ गये। सुबह से शाम हो गई पर 'कुण ले जावे कचरो'। मकान बन रहा हो तो गड़दा भरने के लिए आज भले वह भी ले जावें, पर कचरा ले जाना कोई नहीं चाहता। शाम हो गई, सेठजी बाजार से निकले, कहा- "जाओ भाई। यह सारा माल मेरे गोदाम में भर दो।" मुनीम ने रोका- "सेठजी, यह क्या कर रहे हैं?" सेठ ने कहा- "यह मेरा नियम है।" नाल ले लिया, पैसे दे दिये। रात्रि के पिछले प्रहर में सेठ ने स्वप्न में देखा- एक कन्या सम्बोधन कर रही थी- "सेठ ! मैं जा रही हूँ।" सेठ की आँखें खुली या नहीं, पता नहीं पर पूछा- तुम कौन हो ? उत्तर मिला- मैं लक्ष्मी हूँ। मैं समल अस्थिर पद का परिहार करती हूँ। जहाँ गन्धगी है, वहाँ मैं निवास नहीं कर सकती। तुमने अपने गोदाम में गंदगी भर ली है, अतः मैं नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ।" सेठ ने कहा- कोई बात नहीं, पर इतने समय से रह रही हो तो सात दिन और रुक जाओ, ताकि मैं सोच लूँ। लक्ष्मी ने कहा- ठीक है। वैसे तो मैं चंचला हूँ लेकिन तुम्हारी सात पीढ़ी से मेरा यही निवास रहा है, चूंकि यहाँ निर्मलता और स्थिरता रही है, लेकिन अब रुक नहीं सकती। तुम्हें सात दिन का समय देती हूँ। सेठ सुबह उठा, परिवार वालों से भी विचार किया। सभी ने कहा- कचरा फिकवा दो। सेठ ने कहा- मेरा नियम है और मैं उसे दृढ़ता से पालूंगा। सेठ ने विचार किया- जब वह जाने ही वाली हैं तो क्यों न उसे ठाठ-बाट से विदाई दी जाये। जहाँ-जहाँ दान की आवश्यकता थी, जैसे अस्पताल, धर्मशाला आदि उन सभी में सेठ ने सारी सम्पत्ति वितरित कर दी। ट्रस्ट आदि बनाकर, जहाँ जितना करना था कर दिया ताकि वे कार्यरत हो जायें और जनता लाभान्वित हो। इस प्रकार सारी सम्पत्ति उसने सत्कार्य में लगा दी। सातवें दिन जब वह सो रहा था, उसके मन में परमशांति थी। वह आनंद में था, अब कोई हाय-हाय नहीं थी। संतोष की सांस ले रहा था क्योंकि उसने ममता की प्रथम श्रेणी से हटकर दूसरे सिरे को प्राप्त कर लिया था। हम जानते हैं कि जो उस सिरे पर पहुँच जाता है, वह व्यक्ति भरा हुआ हो जाता है। पहले सिरे पर वह भुक्कड़ होता है पर दूसरे सिरे पर भूख नहीं होती। समता का दरिया वह रहा होता है, चपलता नहीं रहती। रात्रि में लक्ष्मी आई और कहने लगी- 'सेठ तुमने क्या सोचा ?' सेठ ने कहा- आप आराम से जाईये। लक्ष्मी ने कहा- मैं नहीं जाने वाली हूँ। सेठ ने कहा- नहीं, मुझे अब आवश्यकता नहीं है, खुशी-खुशी पधारो। लक्ष्मी ने कहा- सेठ आप में अजब की कला है। सात दिनों में दान आदि क्रियाओं से आपने इतनी निर्मलता बढ़ा ली, समता व संतोष-भाव को इतना बढ़ा लिया कि पवित्रा हो गये। विचारों में डोलायमान की स्थिति भी नहीं रही। अपने नियमों पर आप दृढ़ हो, अंडिग हो तो मैं छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि मैं खूटे से, डोर से बंधी हूँ। मुझमें वह क्षमता नहीं कि वह खूंटा उखाड़ सकूँ। जहाँ नियमों में शिथिलता आती है वहाँ से मैं भाग जाती हूँ। क्योंकि वहाँ का खूंटा चेड़ा और कौणिक के बीच युद्ध चल रहा था। चेड़ा महाराज विजयी होने लगे। कौणिक हारने के भय से चिन्तित हो रहा था, उसने अपने मित्रा इन्द्र का आहवान किया- मुझे सहयोग दो। इन्द्र ने कहा- "चेड़ा महाराज गृहस्थ जीवन में रहते हैं पर वे दूसरे छोर पर पहुँच गये हैं, अपने आप में निर्मल हैं। इस स्थिति में मैं तुम्हारे साथ खड़ा भी हुआ तो विजय नहीं दिला सकता। पर एक बात अवश्य है; उनके यहाँ जो खंभा गड़ा हुआ है, वह मजबूत है। जब तक वह रहेगा, तब तक भले तुम्हारी सेना में देव मिल जायें, तुम विजयी नहीं हो सकोगे। उसे गिराने पर ही विजय मिल सकती है। एक सैनिक ने यह कार्य अपने हाथों में लिया। नैमेत्तिक का रूप धारण करके गया। चेड़ा महाराज से कहने लगा- अभी तक युद्ध में सफलता नहीं मिल रही है, इसका कारण है- वह खंभा। इसे गिराने पर भी तुम सफल हो सकते हो। चेड़ा ने कहा- 'कोई बात नहीं, यह प्रयोग भी कर लें।' सैनिक जुट गये। कौणिक को ज्ञात हुआ तो उसने आदेश दिया। सारी कौणिक सैना पीछे हटने लगी। ज्योंहीं खंभा गिरा कौणिक ने पुनः आक्रमण किया और युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। यह घटना प्रमाणित करती है यदि संकल्प अखंडित है तो कोई शक्ति हावी नहीं हो सकती। जहाँ स्थिरता है, वहाँ लक्ष्मी बंधी रहेगी पर खूंटा ही तब यह समझ लें कि यदि हम धर्म को पाना चाहते हैं तो ममता के छोर से हटकर आगे बढ़ें। समता रूप भाव लक्ष्मी को प्राप्त करने का प्रयास करें। यदि वह प्राप्त हो गई तो द्रव्य लक्ष्मी हमें कभी छोड़कर नहीं जा सकेगी। ऐसा धन मिल जाये तो फिर दुःख-दुर्भाग्य टल जायेंगे। इस प्रकार अगर 'धीर्जन घणी माथे किया रे' तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारी ओर आँख उठा सके। सही रूप में धनतेरस को मनाने का यही तरीका है। इस प्रकार यदि समत्व भाव से आगे बढ़ें तो एक दिन अवश्य समत्व से वीतरागता तक पहुँचने में सफल

होंगे।

दि. 8.11.96

जीवन में स्वरथ व्यवहार

देवाधिदेव चरम तीर्थेश प्रभु महावीर की दिव्य देशना हमारे मंगल का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। यदि उसका अनुसरण किया जाये तो वह अंधकार-परिपूर्ण में प्रकाश की एक-तमिस्त किरण बनकर व्यक्ति को सन्मार्ग पर आरुढ़ करा सकती है। अज्ञान और मिथ्यात्व की तमिस्त में यदि कोई प्रकाश है, किसी के निर्देश से यदि कोई मार्ग प्राप्त हो सकता है तो वह जिनेश्वर देवों की वाणी ही है। इस वाणी में ज्ञान के अनमोल तत्त्व छिपे हैं। तत्त्व इस प्रकार कि हमारा जीवन कई तत्त्वों से निर्मित है और वह उन सारे तत्त्वों की सम्यक् अवस्थाओं के साथ ही गतिशील बना रहता है। जीवन का व्यवहार स्वरथ कैसे हो, हम किस प्रकार से जीयें, यह समझना आज की पहली आवश्यकता है।

जीना तो सदा से हो रहा है। लोग साँसें लेते हैं और क्रियाएँ करते हैं। परन्तु क्या सही जीना है? जीवन क्या इसीलिये होता है? जीवन का अथवा जीने का कोई ऊँचा उद्देश्य होना चाहिये। ऐसे जीवन का स्वरूप कैसा हो, यह समझ लेना सबसे आवश्यक है। क्योंकि जब तक यह समझकर सम्यक् रीति से जीवन को आगे नहीं बढ़ाया जायेगा, जीवन तथा जीवन की सभी क्रियाएँ घाणी के बैल के जीवन एवं क्रियाओं के समान ही निर्थक होगी। कहने को तो घाणी का बैल खूब धूमता है, लगातार चलता है, उसमें गति होती है परन्तु इतनी गति तथा इतना चलने के बाद भी वह जहाँ का तहाँ ही बना रहता है। उसके इस प्रकार गतिशील रहने की कोई उपलब्धि नहीं होती। जीवन की ऐसी ही निर्थकता को लक्ष्य कर प्रभु ने कहा था- जा जा वच्चर्व रयणी, न सा पड़िनियतर्व। भाई जो रात्रियाँ व्यतीत हो रही हैं, तू कितना भी पुरुषार्थ कर वे वापस नहीं आयेंगी। कोई अबरपति, खरबपति सोचे करोड़ रुपये दे दूँ, बीती रात आ जाए। रात को क्या बीता हुआ एक क्षण भी वापस लाने की क्षमता किसी में नहीं है। यही कारण है कि प्रभु महावीर साधकों से कहते हैं- “समयं गोयम ! मा पमायए।” समय मात्रा का प्रमाद मत करो। हम समय का मूल्य नहीं करते। समय कितना बारीक है, सूक्ष्म है, न जाने हमारा कितना सयम बर्बाद हो जाता है, हम यह नहीं सोचते। इसीलिए प्रभु ने कहा है- “अहम्मं कुणमाणस्स, अफला जंति राइआ”। अधर्म में व्यतीत रात्रियाँ निष्फल होती हैं। यदि हमने जीवन को नहीं सजाया, कुछ प्राप्त नहीं किया तो हमें विचार करना चाहिये कि हमारा कितना समय धर्म में, कितना अधर्म में व्यतीत हुआ है। धर्म-अधर्म की चर्चा में कभी उलझन भी सामने आती है। हम सोचें कि आज हम धर्म को या धर्म के स्वरूप को किस रूप में समझ पाये हैं? धर्म क्या है? धर्म की बात पर उलझन में मत पड़िये। धर्म सुलझा हुआ तत्त्व है। धर्म में उलझन नहीं है, पर जब हमारी मानसिकता या विचार उलझे हुए होते हैं तो हम धर्म की समझ को भी उलझा देते हैं। इतना उलझा देते हैं कि धर्म का सही स्वरूप ही खो जाता है। जैसे उलझे हुए सूत को सुलझाने का प्रयत्न किया जाता है वैसे ही धर्म को सुलझाने अथवा सुलझाकर सीधे सरल शब्दों में समझाने का प्रयत्न किया जाता है। पर धर्म में उलझन है कहाँ? वह सुलझा हुआ है। फिर भी हम धर्म को प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। एक क्षण के लिए भी कभी धर्म हमारे जीवन में आता है या नहीं, इसका हमने अनुभव किया है या नहीं? अनुभव किया होता तो फिर अधर्म में जाने का मन नहीं होता। आज मन की दौड़ विपरीत दिशा में, भौतिकता की दिशा में हो रही है। धर्म यह भी नहीं है कि धर्मस्थान में आये संतों के दर्शन किये, प्रवचन सुना तो धर्म हो गया। परन्तु यदि वहाँ पहुँचकर भी विचार शुद्ध नहीं हुए तो वह चाहे चर्च हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, कहीं भी चले जायें धर्म लाभ नहीं होगा। धर्मस्थानों पर कोई धर्म का न हो तो सुलझे। मन, बुद्धि, विचार, भावना आदि में पैठी समस्याओं को सुलझाने के स्थान होने से ही ये स्थान धर्मस्थान कहे जाते हैं। यथार्थ में धर्म हमारे भीतर है, जीवन में है उसे हम बाहर प्राप्त नहीं कर सकते। न बाहर वह प्राप्त हो सकता है। हाँ, उस धर्म को प्रकट करने के लिए निर्मित की आवश्यकता होती है। निर्मित जब मिल जाता है तब हमारा जीवन दीपक के समान आलौकित हो उठता है। अन्यथा दीपक में तेल भरा हो बाती हो किन्तु जलती लौ का स्पर्श नहीं मिले तो उसमें प्रकाश विकीर्ण करने की शक्ति होने पर भी उसका प्रकटीकरण कैसे हो? उसे प्रकट करने के लिए जलती लौ का मिलना आवश्यक होता है। लौ का स्पर्श मिले तो भीतर की शक्ति प्रकट हो।

शांतिनाथ भगवान की स्तुति का तात्पर्य यह नहीं कि स्तुति से प्रसन्न होकर शांति का खजाना वे हमारे सुपुर्द

कर देंगे। हम विचार करें कि एक पुत्रा पिता की सेवा किस भावना से करता है ? सेवा के पीछे क्या धन प्राप्ति के भाव होते हैं ? पिताजी से तिजोरी की चाबी मिल जाये, क्या यही उसकी भावना होती है ? अथवा पिता के पास बहुत-सी सम्पत्ति है इसलिये सेवा करूँ, जिससे वह मिल जाये। इसलिए व्यक्ति बुढ़ापे में भी चाबी छोड़ नहीं पाता। कुछ ऐसी घटनाएँ भी हैं कि यदि पहले ही सबकुछ निकाल दिया तो बुढ़ापे में कोई संभालने वाला नहीं रहता। रोते-रोते समय निकालना पड़ता है। बच्चे, पोते, गुलछर्झ उड़ाते हैं और बुड़ा टुकुर-टुकुर देखता रहता है कोई उसे पूछने वाला भी नहीं होता। वृद्ध ऐसी घटनाएँ देखते हैं तो विचार करते हैं कि समय से पूर्व चाबी नहीं सौंपनी, समय आये तब ही सौंपनी। क्योंकि चाबी के कारण ही सेवा होती है। भगवान् महावीर या शांतिनाथ भगवान् की स्तुति करते हुए कवि ने कहा कि शांति का स्वरूप प्राप्त करना है तो 'आगमधर गुरु समकिती, किया संवर सार रे। सम्प्रदायी अवंचक सदा, शुचि अनुभव धार रे।' शांति के लिए कहाँ भटक रहा है, कहाँ खोज कर रहा है ? वह ऐसे स्थान पर नहीं है। उसके लिए साधन बताये गये हैं और कहा गया है- 'आगमधर गुरु समकिती' गुरु की आवश्यकता है। मेवाड़ में कहते हैं- जिसके गुरु नहीं वह नगुरा है। आप उतनी गहराई में नहीं जाते पर समझिये गुरु नहीं, गुरु का सानिध्य नहीं तो दीपक है, तेल है, बाती है पर लौ का स्पर्श नहीं होगा और जीवन में प्रकाश प्राप्त नहीं होगा। पर गुरु कैसा हो इसका चिन्तन भी आवश्यक है। गुरु होना चाहिये आगमधर। आज हम अर्थ लेते हैं- आगम को धारण करने वाला होना चाहिए। बड़े रूप में कह दें- जिसने सभी आगमों का अध्ययन कर लिया हो ऐसा। पर यहाँ कवि का दूसरा ही भाव है, इतना ओछा भाव नहीं रखते। आज तो कम्प्यूटर में और जगह-जगह लायब्रेरियों में हजारों पुस्तकें एकत्रा कर ली जाती हैं। एक कम्प्यूटर में यदि लायब्रेरी के सारे आगम भर दिये जायें तो क्या वह आगमधर हो जायेगा ? टेप की भौति कठस्थ कर लिया तो इतने से भी कुछ प्राप्त होना नहीं है। यदि ऐसी व्याख्या करेंगे तो अभी भी आगमधर हो जावेगा। क्योंकि वह भी आठ पूर्व से ऊपर का ज्ञान कर लेता है। आगमधर की व्याख्या है- आ समन्तात् गम्यते इति आगमः अर्थात् जिसने ज्ञान को चारों ओर से आत्मा के निकट कर लिया, चारों ओर से ज्ञान का प्रकटीकरण कर लिया, उसे जो धारण करने वाला है वह है-आगमधर। साथ में कहा गया है- 'समकिती' अर्थात् सम्यक्त्व वाला होना चाहिए, उसका दीप जला हुआ होना चाहिए। स्वयं का दीप जला नहीं है, अज्ञान की तमिज्ञा है तो वह अवस्था भी दूसरे को प्रकाश देने वाली नहीं होगी। 'किरिया संवर सार रे...'। स्तुति का एक-एक पद महत्वपूर्ण है। बोलचाल में कहते हैं- 'पानी पीजे छान के, गुरु कीजे जान के।' क्या जानते हो गुरु के बारे में ? गुरु-गुरु कहते रहे, गुरु ने कान में मंत्रा फूंक दिया- कानिया मानिया कुर, तू चेला मैं गुर'' क्या यही गुरु की पहचान है ? क्या इतने से ही कोई गुरु और कोई चेला बन जाता है ? कवि ने आगे की पंक्ति में कहा है- सम्प्रदायी अवंचक सदा, शुचि अनुभव धार रे। इसकी व्याख्या के साथ गुरु के स्वरूप को जानें और देखें कि हमारे आदर्श गुरु कौन होने चाहिए। हम जब साधना में आगे बढ़ते हैं, तब हमारे सामने एक आदर्श, एक दर्पण होना चाहिए। आप जब काँच में देखते हैं तब उसमें जो कुछ देखें वह दृश्य प्रकट होता है। इस प्रकार दर्पण तो ऊपरी छवि को दिखाता है, पर जब भावात्मक दृष्टि से विचार करें तो भावों को देखने के लिए भाव रूप दर्पण की आवश्यकता होगी। भावों में शुद्धता है, इसका सम्यक् परीक्षण करने के लिये भाव दर्पण होता है। उसके माध्यम से ही शुद्धता-अशुद्धता की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सामायिक लेने से पूर्व लोगस्स का पाठ बोलते हैं, यह परम्परा है। पर क्यों है ? इस पर भी विचार करना चाहिये। सामायिक क्या है ? सामायिक है- समभाव की आराधना, धर्म में प्रवेश, जीवन में प्रवेश। वह मंगलकारी हो इसलिये उसके पहले आदर्श को जीवन के सामने रखते हैं। 24 तीर्थकर हमारे आदर्श हैं। उन्हें सामने रखकर हम प्रवेश करते हैं। कहीं रुकावट होती है तो उसका निराकरण उनके माध्यम से करते हैं। वे आदर्श के रूप में हमारे सामने होते हैं तो उस माध्यम से जीवन के शुद्धिकरण का मार्गदर्शन तथा प्रेरणा प्राप्त होती है। इसलिए 24 तीर्थकर के आदर्श के साथ ही हम गुरु का आदर्श भी स्वीकार करते हैं। तीर्थकर जब दीक्षा लेते हैं, उस समय वे तीन ज्ञान के धारक होते हैं। पर वे यह नहीं सोचते हैं कि मैं तीन ज्ञान से सम्पन्न हूँ, बहुत कुछ जान रहा हूँ। नहीं, वे साधना में प्रवेश के लिए आदर्श उपस्थित करते हैं। 'ण्मो सिद्धाण्ं' पाठ द्वारा वे साधना में प्रविष्ट होते हैं क्योंकि उन्हें सिद्ध बनना होता है। जब वे अरिहन्त पद पर आते हैं तो जनता को बोध देते हैं इसलिए उन्हें नमस्कार किया जाता है। जिन्हें हमने देव के रूप में स्वीकार किया वे अरिहन्त तो देव हैं, पर वे गुरु हैं या नहीं, वे सुसाधु हैं या नहीं ? शास्त्रों में जगह-जगह पर उल्लेख प्राप्त होते हैं कि गणधर गौतम स्वामी भगवान् महावीर स्वामी के लिए "धर्मगुरु धर्माचार्य" शब्द का प्रयोग करते हैं। भगवान् महावीर तीर्थकर थे, पर धर्मगुरु भी थे। कहा गया है- सिद्धाण्ं णमो किच्चा, संजयाण य भावओ। सिद्धों को नमस्कार करके संयतियों

को भावपूर्वक नमन करता हूँ। संयति कौन हैं- अरिहन्त, आचार्य, उपाध्याय, साधु। संयति का तात्पर्य है- जिन्होंने जीवन संयमित कर लिया है। वे संयति पद पर आ गये। अरिहन्त उस सीढ़ी पर हैं, जो देव और गुरु दोनों का पार्ट अदा करते हैं। वे कैवल्य ज्योति से आलौकित हैं इसलिए वे देव हैं। दूसरों को आलौकित करने में तत्पर है इस कर्तव्य का निर्वाह करने से वे गुरु हैं। गुरु मानकर ही उन्हें पहले नमस्कार किया है, क्योंकि उन्होंने ही ज्ञान मार्ग का स्वरूप बताया। इसीलिये उनका आदर्श हमारे सामने आता है कि गुरु कैसा होना चाहिए। कवि आनन्दघनजी कह रहे हैं- किरिया संवर सार रे अर्थात् उनकी क्रिया में संवर होना चाहिए। संवर का अर्थ भी समझ लेना आवश्यक है। संवर अर्थात् जिनकी क्रिया में आस्रव का स्रोत जुड़ा न हो। मोटे तौर पर बहुत से भाई यह जानते हैं। अभवी आत्मा, साधु जीवन की आराधना कई बार कर लेता है, पोशाक ग्रहण कर लेने मात्रा से उसकी क्रिया संवर नहीं हो जाती। 'जे आसवा ते परिसवा।' एक व्यक्ति सिनेमा हॉल में धर्म क्रिया कर सकता है तो एक स्थानक में भी आस्रव भी कर सकता है। कभी-कभी हम धर्मस्थान में भी आस्रव कर लेते हैं। संवर भी हमारे भावों में है। हमारी प्रत्येक क्रिया संयम से ओत-प्रोत हो उसके साथ ही गुरु परम्परा जो प्राप्त है उसका भी अवंचक हो। यदि कोई गुरु सम्प्रदाय के नाम से ठगाई करता है तो वह गुरु नहीं है। गुरुगम ज्ञान दुनिया को ठगने या रिज्ञाने के लिए नहीं है। यदि वह ठग रहा है तो वह गुरु नहीं है।

कवि ने गुरु ने संबंध में आगे कहा है- शुचि अनुभव धार रे अर्थात् जिसकी सारी सोच शुचि अर्थात् अनुभव से गुजरी हो। अनुभव से गुजरे हुए ज्ञान में जो जी रहा है वही गुरु पद का अधिकारी हो सकता है, उसे ही गुरु कह सकते हैं। वही मार्गदाता हो सकता है और वही हमारे बुझे दीप को जलाने में, ज्ञान को उर्वरित करने में सक्षम है। गुरु के अनेक लक्षण एवं क्षमताएँ बताई गई हैं, परन्तु सभी की विवेचना संभव नहीं है। इसके लिए व्यक्ति को अपने विवेक, अनुभव और ज्ञान का सहारा लेना चाहिये। परन्तु एक बात निश्चित कर लें कि यदि धर्म में प्रवेश करना है, दीप जलाना है तो गुरु के माध्यम से ही प्रवेश करें। उस आदर्श को सामने रखें, फिर जो शक्ति हम में प्रकट होगी वह जीवन के सभी तनावों, हलचलों आदि को दूर करेगी। जीवन शांत-प्रशांत बनेगा और अपने लक्ष्य की ओर गतिवान बनेगा। गुरु की इतनी महिमा होने के कारण ही आचारांग सूत्रा (1-5-4) में एकचर्या का निषेध करके गुरु-निश्चित रहने का उपदेश दिया गया है। आचार्य की आराधना किस प्रकार करनी चाहिये तथा सद्गुरु की सेवा, भक्ति और सत्संग कब और कैसे फलित होती है, इसकी विवेचना भी सूत्राकार ने की है। गुरु के दृष्टिकोण और अभिप्राय को समझकर जो साधक गुरु की आज्ञा का पालन करता है, वह इष्ट फल प्राप्त कर सकता है। परन्तु ऐसा वही कर सकता है जिसकी गुरु में पूर्ण आस्था हो। शास्त्रों में यह भी स्पष्ट कथन है कि जितने अंश में गुरुदेव पर श्रद्धा होगी उतने ही अंश में गुरु का संग और गुरु प्रदत्त ज्ञान फलीभूत होगा।

कवि ने 'आगमधर' गुरु की बात कही है, परन्तु बात इतनी ही नहीं है। आचारांग सूत्रा में गुरु अथवा आचार्य अथवा महर्षि के गुणों की विस्तृत विवेचना की गई है। आचारांग सूत्रा के प्रथम उद्देशक के लोकसार नामक पंचम अध्ययन के प्रारंभ में ही आचार्य की जलाशय से तुलना की गई है। जैसे किसी समतल भूभाग पर निर्मल जल से भरा हुआ सरोवर होता है, जो प्राणियों की रक्षा करता है। उसी प्रकार आचार्यादि महर्षि ज्ञान रूपी जल से भरे हुए होते हैं तथा निर्देष क्षेत्रों में रहकर कषायादि को उपशांत करके जीवों की रक्षा करते हुए ज्ञानरूपी प्रवाह को बहाते हैं। जिस प्रकार सरोवर में कमल शोभा देते हैं, उसी तरह आचार्य में पाँच प्रकार का आचार, आठ प्रकार की सम्पदा और छत्तीस गुण शोभा देते हैं। जिस प्रकार सरोवर स्वयं पवित्रा होता है और दूसरों को भी पवित्रा करता है उसी प्रकार आचार्य स्वयं तो दोष रहित होते ही हैं, अपने सम्पर्क से अपवित्रा आत्माओं को भी पवित्रा बनाते हैं। आचार्य के लिये "सोयमज्जगाए" विशेषण का प्रयोग किया गया है। इसका कारण यह है कि जिस प्रकार सरोवर में जल आता है और निकलता रहता है, उसी प्रकार आचार्य श्रुत (आगम) ज्ञान का आदान-प्रदान करते रहते हैं।

गुरु और सरोवर के इस रूपक को बहुत लम्बा खींचा जा सकता है, परन्तु उसकी आवश्यकता नहीं है। इस तुलना का आशय केवल इतना ही है कि साधक अथवा शिष्य इनका लक्ष्य सामने रखकर अपने जीवन का विकास करे। "सम्मेयंति पासह" कहकर यह भी सूचित किया गया है कि अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग कर प्रत्येक कार्य का अवलोकन भी करना चाहिये। श्रद्धा रखनी चाहिये, परन्तु वह श्रद्धा अंध न हो। इस श्रद्धा में अपनी विवेक बुद्धि, आगम के वचन और सत्पुरुषों के अनुभवों का समन्वय होना चाहिये। गुरु और शिष्य, आचार्य और साधक का संबंध इस प्रकार एक माध्यम से नहीं, अनेक माध्यमों से जुड़ता है। परन्तु मुख्य बात

जीवन में स्वरथ व्यवहार की है। यह आवश्यक है कि हमारा जीवन जिन तत्त्वों से निर्मित है उन सभी की सम्यक् अवस्थाओं के साथ जीवन में गतिशील बना रहना चाहिये। इस कार्य में समय मात्रा का प्रमाद नहीं करना चाहिये। क्योंकि “जा जा वच्चई रयणी, न सा पड़िनियत्तई” जो रात्रियाँ व्यतीत हो रही हैं वे किसी भी प्रयास अथवा किसी भी प्रकार के पुरुषार्थ से वापस नहीं लौटाई जा सकेंगी। इस प्रकार यदि जीवन की सीमित अवधि अधर्म अथवा असंयत व्यवहार में व्यतीत हो गई तो पश्चात्ताप के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं रह जायेगा और दुर्लभ जीवन नष्ट हो जायेगा। इसलिये अज्ञान और मिथ्यात्व की तमिज्जा में जिनेश्वर देवों की दिव्य वाणी से मार्गदर्शन प्राप्त कर अपने इस भव को सार्थक करें।

दिनांक 4.12.96

आत्मसाधना	का	आदर्श :
महासती गुलाबकंवरजी म.सा.		

स्थविर पद-विभूषिता, सरलमना साधी श्री गुलाबकंवरजी म.सा. का संबंध ग्राम जावरा से था। संसार की असारता का स्वरूप-बोध पाकर उन्होंने योग्यन वय में सजोड़े संयम मार्ग स्वीकार किया था। लम्बे समय तक उन्होंने साधना-पथ पर चलते हुए साधना के हार्द को जीवन में उतार लिया था। श्रद्धा, समर्पणा और निष्ठा को जीवन की मूलभित्ति बनाकर सरलता और स्वावलंबन का आदर्श रूप उन्होंने अपने कर्मों द्वारा प्रकट किया था। प्रभु महावीर ने साधक जीवन की गरिमा और महिमा बताते हुए कहा है- ‘सोही उज्ज्युभूयस्स।’ सरलता से युक्त श्रमण को श्रमजीवी कहा गया है। वह यदि श्रमजीवी नहीं हो तो उसके जीवन में अनेक अवरोधक भाव पैदा होंगे। परिणामस्वरूप ‘किंकर्त्तव्य विमूढ़’ बना वह साधना मार्ग में भी दुःख ही अनुभव करेगा। स्वावलंबन को इसीलिये चार-सुखशय्या में से एक सुख शय्या कहा गया है। व्यक्ति चाहता है कि वह सुख से रहे, परन्तु सुख से रहने के लिए स्वावलंबन आवश्यक है। पर का अवलंबन, पर की अपेक्षा सुखशय्या में बाधक बनता है। व्यक्ति चाहता है कि अमुक कार्य कोई दूसरा कर दे और यदि उसके द्वारा नहीं हुआ तो मन में उच्चाटन होगा। स्वयं के अवलम्बन से चलेगा तो वहाँ सुखशय्या का प्रसंग उपरिष्ठित होगा। जो महावतीवर्ग साधी श्री गुलाबकंवरजी म.सा. की सेवा में रही थी या समय पर जिन्होंने सेवा का लाभ लिया था, उन्होंने इस गुण की महिमा का निकटता से अनुभव किया है। विदुषी श्री सुशीलाजी म.सा. आज ही कह रही थीं कि उनके जीवन का स्वावलंबन आदर्श एवं स्मरणीय है। वृद्धावस्था में होते हुए भी वे कहते थे- जब तक हाथ-पैर चल रहे हैं, तब-तक स्वयं का काम क्यों छोड़ूँ ? भले ही दूसरा काम निपटा देने को तत्पर हो तथापि यह अनुचित होगा कि मैं बैठा हुकूमत चलाता रहूँ। क्योंकि जब तक स्वयं में शक्ति मौजूद है तब तक अपना काम स्वयं करना चाहिये। पुराने साधु-साधी कहते हैं- शरीर तो जाने वाला ही है, जब तक आयु का तेल है तब तक ही यह दीपक जल रहा है। तेल समाप्त हुआ कि दीप बुझ जायेगा। अतः समझदार वही है जो शरीर रहते सार निकाल दे। श्रद्धेय स्थविर पद विभूषित इन्द्र भगवान साधकों को शिक्षा देते हुए कहते थे- अपने हिस्से का काम करना नीति है, उससे अधिक करना धर्म है। जो अपने हिस्से का भी न करे, उसे क्या कहा जा सकता है, यह स्वयं समझा जा सकता है।

महासतीजी का नाम गुलाब था। नाम के साथ में भाव का प्रसंग भी जुड़ जाये तो सोने में सुहागा हो जाता है। गुलाब अर्थात् ऐसा खिला हुआ फूल जिससे खुशबू प्रसृत हो रही हो। एक गुलाब घर में खिला, चार दीवारी में रहा, फिर विचार किया कि गुलाब की सौरभ तो जगह-जगह फैलनी चाहिए। उसने संयमी जीवन का सौरभ भरा,

फिर उसे विकीर्ण करना प्रारंभ कर दिया। इस रूप का प्रसार हुआ। आज वे शरीर पिण्ड से हमारे बीच नहीं हैं पर उनके गुणों का स्मरण बना रहेगा, होता रहेगा। प्रभु महावीर ने कहा है- “घोरा महत्ता अबलं शरीरं, भारंड पक्खीव चरेऽपमते।” उन्होंने साधक को अमर संबोधन दिया- काल घोर है, शरीर निर्बल है, न जाने कि समय काल का पंजा शरीर पर पड़ जाये, शरीर में बल नहीं है। भारंड पक्षी की तरह अप्रमत्त विचरण कर जीवन का सार, निचोड़, निष्कर्ष निकाल लेना चाहिए।

इस संदर्भ में सहसा विचार उत्पन्न होता है- साधना और आराधना में अंतर क्या है ? साधना तो अनेक करते हैं, पर जरुरी नहीं कि सभी की साधना आराधना हो जाये। आचारांग सूत्रा में कहा गया है- ‘अणगारा मोति एगे पवयमाणा जमिणं विरुवरुवेहिं सत्थेहिं पु

आलोचना, ग्रन्थि-विमोचन, प्रतिक्रिमण कर लें तो आराधना का प्रसंग उपस्थित हो सकता है। भगवान पाश्वनाथ के शासन के अनेक साधु-साधी फिसल गये थे, संभल नहीं पाये थे, पर स्खलन किसी के भी शासन के अन्तर्गत हो सकता है। चाहे वे साधु किसी भी तीर्थकर के शासन के हों। जरुरी नहीं है कि जितने पौधे लगाये जायें वे सारे के सारे विकसित हो ही जायें। कई तो लगते ही कुम्हला जाते हैं, कई थोड़े बढ़े कि नोंच दिये जाते हैं और कई जो कुछ बढ़ पाते हैं तो मंजरी आने के साथ निर्मल हवा के झाँके से गिरा दिये जाते हैं। बहुत कम पौधे ही पूर्ण रूप से विकसित होकर मंजरी, फल-फूल से लदकर रस से आप्लावित होते हैं। इसी प्रकार कोई संयमी जीवन में मूल गुण की विराधना करते हैं तो कोई उत्तर गुण की विराधना कर देते हैं। विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो इतना ही समझ लें कि साधक बनने मात्रा से आराधना नहीं होती। जब तक आराधना नहीं होती तब तक मुक्ति की डिग्री नहीं मिल सकती। परन्तु डिग्री कौन देगा ? डिग्री आपके हाथ में है पात्रता और समता आप में है, वे गुण भी आप में हैं, इस प्रकार प्राप्त होते हुए भी आप उससे अवगत नहीं हैं। जैसे ताले को बंद कर दिया हो और चाबी का पता नहीं। परन्तु जब तक वे गुण उद्घाटित नहीं होंगे, आगे की कॉलेज में दाखिल नहीं हो सकते। इस संबंध में एक दृष्टांत लें।

एक शराबी नशे में धुत घर पहुँचा। वह कुछ वहमी भी ज्यादा था। उसे सदा भय रहता था कि उसकी धर्मपत्नी कहीं बाहर न चली जाये। व्यक्ति स्वयं के जैसा ही दूसरों का आंकलन करता है। वह स्वयं की दुर्बलता के कारण पत्नी के विषय में शंका करने लगा। बाहर जाता तो द्वार पर ताला लगा देता। उस दिन नशे में धुत घर पहुँचा था। द्वार पर लगा ताला खोलने की कोशिश में द्वार टटोलने लगा। खड़खड़ की आवाज हुई। पत्नी ने ऊपर से देखा- पतिदेव आये हैं, शायद ताले को हिला रहे हैं। ऊपर से आवाज लगाई- चाबी नहीं मिली क्या ? न मिली हो तो ऊपर से दूसरी चाबी फेंक दूँ। मेरे पास है, पर ताला गुम गया है ताला फेंक दे। यह है मदहोश अवस्था। हम विचार करें कि आज मनुष्य क्या हँड़ रहा है- ताला या चाबी ? दोनों का ही पता नहीं है। ताला-चाबी दोनों लापता है। वह तो नशे में था पर हम किस नशे में हैं। दोनों का पता नहीं तो खोलेंगे क्या और कैसे ? इसलिये पहले ताले और चाबी का ज्ञान करना होगा। चाबी का ज्ञान न भी हो पर ताले का हो गया तो ताला तोड़कर प्रवेश किया जा सकता है। ताले का ही ज्ञान नहीं तो द्वार उन्मुक्त कैसे होगा ? अतः हम उन तालों को ढूना भी आवश्यक है जिससे व्यक्ति व्यर्थ भी औपचारिकताओं में ही अटका न रह जाये। सामान्यतः व्यक्ति सोचता है कि गृह त्यागकर वह साधु बन सकता है परन्तु कपड़े मात्रा अथवा आवास मात्रा बदल लेने से कोई साधु नहीं हो जाता। प्रभु महावीर ने आचारांग सूत्रा में कहा है- ‘जहितु पुब्व संजोगं।’ पूर्व के जो संयोग हैं, उन्हें छोड़ना है। हम यह ध्यान रखें कि पूर्व के संयोग ही वे ताले हैं अथवा बंधन हैं जो हमें इस भव से बाँधे रखते हैं। उन्हीं के कारण विविध भवों में भटकना पड़ता है। असली मुक्ति अथवा त्याग तो उन संयोगों का है, गृह अथवा परिवार का त्याग तो मात्रा पाखण्ड है। उससे न आत्मा पवित्रा होती है न विस्तन शुद्ध होता है। असली साधुत्व की प्राप्ति इन्हीं के त्याग से होती है। जब तक उन्हें नहीं छोड़ेंगे तब तक साधु या अणगार बनना कठिन काम है।

आज हम साधी श्री गुलाबकंवरजी म.सा. की स्मृतिसभा में सम्मिलित हो रहे हैं क्योंकि यह भारतीय परम्परा का निर्वाह है। परन्तु मृत्यु के पश्चात् इस प्रकार की गुणानुवाद सभा का आपेचारिक आयोजन ही पर्याप्त नहीं है। आज हम उनका स्मरण कर रहे हैं यह उचित है, लेकिन यदि हम पूर्व संयोगों से लिप्त रहे तो यह स्मरण सार्थक नहीं हो पायेगा। पूर्व संयोग से तात्पर्य गृहस्थ जीवन के क्रोध, मान, ईर्ष्या आदि के भावों से है। यदि ये भावनाएँ बनी रहीं, यहाँ भी उन्हें पुनर्जीवित करते रहे तो भले ही यह सभा हो या पोशाक-परिवर्तन हो, भावधारा में परिवर्तन नहीं होगा, जो आवश्यक है। साधीजी का स्मरण कर रहे हैं तो मात्रा यह नहीं कि गुणानुवाद कर

लें, पर वृत्तियों एवं चिन्तन के परिवर्तन अथवा परिमार्जन की चिन्ता न करें। इस प्रकार के गुणानुवाद अथवा तीर्थकरों की स्तुति का कोई प्रयोजन होता है। उत्तराध्ययन सूत्रा में इस संबंध में कहा गया है- दर्शन विशुद्ध होता है, पर वाचिक स्तुति मात्रा से नहीं। वह तो मिथ्यादृष्टि भी कर सकता है। आज भी कई लोग भक्तामर, कल्याणमंदिर आदि मंत्रा रूप से उच्चारण करते हैं। अन्य रूप से उपयोग करते हैं, पर इतने मात्रा से दर्शन विशुद्ध नहीं होगा। इसके लिये आवश्यक है कि जिन गुणों का कथन हम कर रहे हैं उनसे स्वयं को भी आप्लावित करें। हमारा जीवन उनसे भीगना चाहिए। भीगते चले गये तभी जान पायेंगे। तभी भीतर अनुभूति होगी कि ताला-चाबी कहाँ है। अनुभूति हो गई तो फिर ताला खोलकर भीतर प्रवेश कर पायेंगे। मृत्यु का जहाँ तक संबंध है तो वह तो सुनिश्चित है। सभी का मरण होता है, हुआ है और होगा। मृत्यु तो परम सत्य है, परन्तु इस मृत्यु से बड़ा भी एक और सत्य है। एक और आवश्यकता है जिसके संबंध में प्रभु महावीर ने साधकों से कहा था- सबसे पहले मरना सीखो। जो स्वयं को मारेगा नहीं, वह साधु या भिक्षु नहीं बन पायेगा। बस यही बात मुख्य है क्योंकि जो शरीर का मरण है, वह तो द्रव्य मरण है लेकिन भीतर की चित्तवृत्तियों को यदि नहीं मारा, वे जिन रंगों से रंगी हैं उन्हें नहीं हटाया तो भिक्षु भाव घटित नहीं होगा। रहीमजी ने कहा है- “आसा तृष्णा ना मरी, मरि-मरि गये सरीर” अथवा मांगण वाला मर गया... हम मरे या नहीं ? बिना मांगे क्या मिलेगा ? कोई भी चीज हो- वस्त्रा, पात्रा, औषध, भेषज, ‘सब्ब से जाइय होई’ सबकुछ मांगने से मिलेगा। मकान में ठहरना, पुस्तक पढ़नी है तो याचना करनी होगी, पर रहीम ने कहा- मांगने वाला मर गया। कैसे मर गया ? मरण हुआ उसके अहं का। इसे एक सच्ची घटना से समझें। शांतक्रांति के अग्रदूत स्व. गुरुदेव गणेशाचार्य भिक्षार्थ एक घर में प्रविष्ट हुए। घर मालिक को गुस्सा आ गया। इतना गुस्सा आया कि कहने लगा- निकल यहाँ से, इतना हट्टा-कट्टा मांगने निकला है ? कमाकर खा नहीं सकते, आ गये मांगने ? उनके मन में विचार आया- अरे भाई ! तेरी भावना नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने जीवन को क्यों मलीन करता है ? मैं तो यह चला, वे सम्भाव से निकलने लगे। एक पैर दहलीज के बाहर रखा होगा, एक भीतर ही था कि इतने में गृहस्वामी कहने लगा- अरे सुण-सुण ले जा, आयो है तो ले जा ! वे कह सकते थे- काई करणों ? रहने दे। दूसरा घर नहीं है क्या ? टुकड़ों के लिए साधु नहीं बने हैं। लेकिन ऐसी बात उन्होंने नहीं कही। मुड़ गये- “भावना बन गई तो बहरा दे।” यह होता है पूर्व संयोगों का त्याग। किसी अन्य से यदि कोई ऐसा बोल देता तो जब तक चार-पाँच बार मनुहार नहीं करवाले, माफी नहीं मँगवाले, तब तक नहीं जाता। ताकि मालूम पड़े ठमके से आये थे, ऐसे ही नहीं। लेकिन गुरुदेव गणेशाचार्य के इस उदाहरण से समझ लें कि जब साधु बनें तो पूर्व संयोगों को त्याग करें। क्योंकि यदि वे संयोग जीवित रहे तो पुनः पछाड़ेंगे, तब ऐसे चित्त होकर गिराये कि उठना भी कठिन होगा। हम प्रभु के सिद्धांतों का यदि दोहन करें तो मालूम होगा कि प्रभु ने जीवन जीने का स्वरूप बताया है। उस शैली से यदि नहीं जीयेंगे तो साधना तो हो सकती है, पर आराधना नहीं। जिन अनेक साधकों ने साधना भी की, पर लगे दोषों की आलोचना नहीं की, प्रायश्चित्त नहीं किया, पूर्व संयोगों को नहीं छोड़ा, उन्हें उर्वर बनाये रखा, उनका सिंचन किया तो आराधना तो नहीं ही होगी, उनका संयमी जीवन भी धूमिल हो जायेगा। आप जानते हैं कि चंडकौशिक सर्प पहले कौन था ? साधु था। सर्प कैसे बना ? पूर्व संयोगों को छोड़ा नहीं, उन्हें चित्तवृत्ति में उकेरकर रख लिया, तो वे आत्मा को भटकाने वाले बने। बारूद का

इतिहास में उल्लेख है कि पहले के श्रावक राजा के अंतःपुर में भी प्रविष्ट हो सकते थे। उन पर अविश्वास नहीं किया जाता था। उनके जीवन में प्रामाणिकता होती थी। भले ही मंत्री पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति अंतःपुर में न जा सकता हो, पर श्रावकों का प्रवेश खुला था। क्योंकि उनके संबंध में विश्वास होता था कि उन्होंने अंशतः संयम स्वीकार किया है। यह संयम जीवन की साख होती है। कभी-कभी लोग सोचते हैं कि संयम लेने के बाद निर्कर्मण्यता आ जाती है, जड़ता आ जाती है, नहीं। संयम जड़ता नहीं है, वह तो अद्भुत कर्मण्यता है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है, वैसे ही संयम आत्मगगन में विहरण की पांख है, जहाँ रोक-टोक नहीं, रुकावट नहीं। संयम सुपारी नहीं है। यह तो दाख है। सुपारी भीतर-बाहर से कठोर होती है लेकिन दाख को कहीं से भी स्पर्श करिये कोमलता ही मिलेगी। हम संयम जीवन का स्वरूप जानें। साध्वी गुलाबकंवरजी म.सा. ने ऐसे ही संयम जीवन को विकसित किया था। ऐसी संयम-साधना के बारे में कहा जाता है- संयम साधना की शक्ति है, संयम परमात्मा की भक्ति है। संयम आत्मा की अनुरक्षित है। संयम जीवटता की अभिव्यक्ति है। महाव्रत अपना लिये पर शक्ति नहीं तो उन्हें निभा नहीं पायेंगे। साधना है तो ही संयमी जीवन सधेगा। शक्ति आयेगी साधना से। परमात्मा की भक्ति में ही संयमी जीवन की आराधना भी होगी। संयम नहीं तो भक्ति नहीं बन पायेगी। संयम

आत्मा की अनुरक्षित है। आत्मा का खटका नहीं तो संयम सध नहीं पायेगा। संयम वास्तव में जीवटता की ही अभिव्यक्ति है।

साध्वीजी के जीवन में जीवटता थी। जहाँ स्वावलंबन, पुरुषार्थशीलता तथा श्रमशीलता पनपती है, वहीं संयम का रूप निखरता है। भक्ति, शक्ति, अनुरक्षित के दर्शन बाहर नहीं हो सकते। संयम की अभिव्यक्ति तो जीवन की जीवटता में ही होती है। जीवटता अर्थात् जिंदादिली और उसी में साधना की भी अभिव्यक्ति होती है। इस अभिव्यक्ति को सतीजी ने जीवन का पर्याय बनाकर स्वयं को सुशोभित किया। इस प्रकार वे सतत् रूप से संयमी जीवन की आराधना करती रहीं। अब भौतिक दृष्टि से वे दृष्टिगत नहीं हैं। इस प्रकार एक संयमी पुष्प का जो अलगाव हुआ है, वियोग हुआ है, वह ऐसी अपूरणीय क्षति है जिसकी निकट भविष्य में पूर्ति कठिन है। काल को क्रूर कहा गया है। पर वैसे देखें तो काल क्रूर नहीं भी है। हमारे साथ वैसा प्रसंग बनता है तो हम उसे क्रूर कह देते हैं। हम जानते हैं कि कभी वही काल खुशियाँ देने वाला भी बन जाता है। तब काल क्रूर कहाँ हुआ ? समय को भी काल कहा गया है और मृत्यु को भी। हम उसकी प्रणाली समझ नहीं पाते तो उसे क्रूर कह देते हैं। किन्तु आचारांग सूत्रा में कहा है- आयावाई से कम्मावाई से...। वस्तुतः जो आत्मवादी है वह जानता है कि आत्मा का जन्म-मरण नहीं होता, वह शाश्वत भाव में विद्यमान रहती है। शरीर का ही मरण होता है। व्यवहार में शरीर का वियोग होने को मरण कहते हैं। निश्चित रूप से तो आत्मा का मरण होता ही नहीं है। साध्वीजी के संयमी जीवन की अभिव्यक्ति इसी रूप में हुई थी, इसीलिये उनकी साधना, आराधना बन सकी है। उनके जीवन के आदर्श को यदि सही परिप्रेक्ष्य में समझें तो काल की कार्यप्रणाली तो समझ में आ ही सकती है। साधना के आराधना बनने का मार्ग भी दिख सकता है। उनके जीवन को यदि इसी दृष्टिकोण से देखेंगे और भावों का समुक्ति परिस्कार करेंगे तो निश्चित रूप से आत्मसाधना में निखार ला पायेंगे।

दिनांक 6.12.96

शुद्ध आलंबन की महिमा

शांति की आकांक्षा प्रत्येक प्राणी में होती है और अपनी क्षमता के अनुसार वह शांति प्राप्त करने का प्रयास भी करता है। परन्तु क्या उसे अपेक्षित शांति प्राप्त हो ही जाती है ? आखिर शांति प्राप्त करने के अपने प्रयासों में वह असफल क्यों नहीं होता है ? ये कतिपय ऐसे प्रश्न हैं जिन पर गंभीर चिंतन आवश्यक है। सर्वप्रथम यह सोचें कि शांति किस प्रकार प्राप्त हो सकती है। हम चाहते हैं हमारी प्रशंसा हो। यदि भगवान् महावीर के द्वारा किसी की प्रशंसा हो जाये तो क्या वह इसे अपना सद्भाग्य नहीं मानेगा? यदि गुरु प्रशंसा के दो शब्द किसी व्यक्ति के लिए कह दें तो वह सोचेगा कि मैं धन्य-धन्य हो गया। वहीं यदि प्रभु स्वयं प्रशंसा करने के लिए तत्पर हों तो किसकी चाह नहीं बनेगी ? पर भगवान् किसकी प्रशंसा करें ? उन्होंने कहा है- जे बद्धे पडिमोयए- जो बद्ध की प्रतिमोचक है उसकी प्रशंसा करते हैं। शांति को प्राप्त करना है तो बंधन का प्रतिमोचक बनना होगा, बंधन को काटना होगा किन्तु काटना चाहें तब। यदि इसी में उलझते रहे तो शांति नहीं मिलेगी। मन शांत नहीं विक्षिप्त होगा। चित्तवृत्तियों का जहाँ तक संबंध है, उनके अनेक भेद हैं, अनेक रूप हैं और अनेक स्थितियाँ हैं, जिनमें विक्षिप्तता और मूढ़ता भी सम्मिलित है। ये स्थितियाँ तब बनती हैं जब व्यक्ति बंधन में जकड़ता है अथवा किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो जाता है। तब उसे मार्ग नहीं दिखता। यह अवस्था इसी युग की नहीं है, युगों-युगों से होती रही है। मनोवैज्ञानिकों के शोध के अनुसार मनुष्य में कुछ स्वाभाविक वृत्तियाँ होती हैं जो प्रत्येक में जीवित होती हैं। ये वृत्तियाँ पूर्व में रही हैं, वर्तमान में भी हैं। वर्तमान में भी व्यक्ति स्वयं चिंतन में कभी इतना उलझता है कि उसे कहीं मार्ग दिखाई नहीं देता। वह दिग्भ्रमित अवस्था में छटपटाहट महसूस करता है- यह करूँ, वह करूँ, क्या करूँ ? पर कुछ कर नहीं पाता। उस तिलमिलाहट एवं बैचैनी में वह अशांत महसूस करता है। ऐसी अशांति में यह जीवन को कहीं गर्त में न डाल दे अतः उसे सचेत करते हुए प्रभु कहते हैं- 'बद्धे पडिमोयए' बंधन को काटो, मुक्त हो जाओ। पर काटें कैसे ? बंधन को काटना सहज नहीं है। कवि ने इस हेतु सरल सुगम उपाय बताया है- शुद्ध आलंबन आदरे, तजी अवर जंलाल रे। बंधन से मुक्ति पाना है तो आवश्यक है शुद्ध आलंबन स्वीकार करें। व्यक्ति स्वयं में असहाय होता है, उसे सहारे की अपेक्षा होती है। बद्ध को लकड़ी का सहारा मिले तो सोचता है कुछ ताकत आ गई, शक्ति मिल गई। यदि

अपनी आत्मा को बंधन से मुक्त करना है तो 'जे बद्धे पड़िमोयए'- इन शब्दों की व्याख्या भी समझें। यदि एक गाय बंधी है और कोई उसके बंधन को खोल दे तो क्या भगवान उसकी प्रशंसा करेंगे ? हम सोच लेते हैं कि हम दूसरे को बंधनमुक्त करते हैं, पर यह मात्रा दम्भ या पाखण्ड है। हम में इतनी ताकत है क्या ? कौन किसको मुक्त कर पाता है ? श्रेणिक ने विनय अनुनय की थी- एक बार वंदन से 6 नारकी के बंधन टूटे तो एक बार वंदन और कर लूं। श्रेणिक ने कहा- मैं नरक में नहीं जाना चाहता। वह प्रभु का भक्त था, प्रार्थना की- कोई मंत्रा दे दीजिए ताकि नरक टल जाये। पर वह टाल सका क्या ? तो क्या हम टाल सकेंगे ? भगवान उसकी प्रशंसा करते हैं, जो बंधन से मुक्त करवाता है। 'प्रति' उपसर्ग का ये मतलब नहीं कि बंधन यहाँ है और मुक्ति वहाँ है। जहाँ बंधन है, उसी का प्रतिमोचन करना होता है। तब सोचें- मुक्ति कहाँ है ? कर्मों का क्षय कहाँ होता है ? जो बंधन किया, उसी का प्रतिमोचन करना होता है। जिन आत्मप्रदेशों पर बंध है, उन्हें खोलना होता है। पर यदि आत्मा बलवती नहीं है तो उसे सम्बल या अवलम्बन चाहिए होता है। यह बात गहराई से समझने की है क्योंकि कोई किसी अन्य को मुक्त नहीं कर सकता। इसलिये यदि आत्मा कमजोर हो तो अवलम्बन द्वारा सम्बल प्राप्त करें। यदि सम्बल नहीं दिया जाता तो भगवान कैसे कहते- 'देवशर्मा को प्रतिबोध दो।' सम्बल कैसे देंगे ? एक व्यक्ति वृद्ध है, कमजोर है तो उसे दवा या रसायन दिया जाता है, जिससे उसमें पौष्टिकता आती है। तत्त्वार्थ सूत्रा 1/3 में कहा गया है- "तन्निसर्गादधिगमाद्वा" वहाँ पौष्टिकता में अवलम्बन है। निसर्ग अर्थात् स्वाभाविक रूप से और अधिगम अर्थात् दूसरे के उपदेश से बल प्रकट होता है। कभी सोच लें, निसर्ग से ही बल प्राप्त कर लूंगा तो स्वोपाङ्ग टीका में आचार्य उमास्वाति ने स्पष्ट किया है कि यह संभव नहीं है। जीव जब तक देशना लख्य तक न पहुँचे, इस भव में गुरु की अपेक्षा न रही हो, पर पूर्व भवों में वह उपदेश समाविष्ट हुआ है वही उपदेश कारगर बना है। वह परोक्ष उपदेश से संयुक्त है तभी जाकर उसे वह सम्बल प्राप्त हुआ है। भीतर की शक्ति का जागरण न हो, तब तक बंधन काटने की क्षमता पैदा नहीं होगी। भाव शत्रु को भाव शस्त्रा से ही जीतना होगा। हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी है, उसे ऊपर से काटा जाता है। पर भाव बंधन केंची-चाकू से नहीं कटते। उनके लिए भीतर ही शस्त्रा पैदा करने पड़ेंगे। शस्त्रा को पैदा करना ही शस्त्रा है। शस्त्रा का अर्थ है- जो भाव-बंध है, उन्हें भीतर की शक्ति का संचार कर काटो। कविता में कहा जाता है- "शस्त्रा अचूक क्षमा का लेंगे।" क्रोध आ गया तो क्षमा के शस्त्रा को स्वीकार करो। क्षमा शस्त्रा है क्या ? किसी अपेक्षा से है। हम एकान्त पक्ष न लें। क्षमा शस्त्रा नहीं बल्कि निःशस्त्रीकरण के भावों को पुष्ट करने वाला है। दूसरों शब्दों में क्षमा में ऐसी शक्ति है कि क्रोध शांत हो जाये। शस्त्रा का प्रयोग व्यवहार में हराने के लिए किया जाता है। जहाँ बंधन है, 'प्रति' उपसर्ग से स्पष्ट है कि वही मुक्ति है। वही मुक्त करना है। हमारी आत्मा में असंख्य प्रदेश हैं। लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं लोक 14 राजू प्रमाण है। उसमें प्रदेश कितने होंगे ? आकाश में सूर्य किरण में हमें जो बारीक तन्तु दिखते हैं, वे अनंतानंत प्रदेशों वाले हैं। ऐसा एक तंतु असंख्यात प्रदेशों पर रुका हुआ है। ऐसे 14 राजू लोक के जितने प्रदेश हैं, उतने आत्मा के प्रदेश हैं। उन सारे प्रदेशों के प्रत्येक प्रदेश पर कार्मण वर्गणा के अनंतानंत परमाणु हैं। विचार कीजिये, आत्मा कितना भारी है। अनंतानंत पुद्गलों का वजन अथवा लेप उस पर है। उसे देख नहीं पाते हैं। उसकी खोज के लिए कवि कह रहे हैं कि शुद्ध आलम्बन लें। शुद्ध आलम्बन क्या है, इसे समझने के लिये एक दृष्टांत लें। एक नरेश बड़ा अभिमानी, अहं में मरत, जिद्दी था। एक दुर्गुण होता है तो इर्द-गिर्द के साथी भी आते जाते हैं तथा जैसी वृत्ति होती है वैसा ही सहकार और परिसर मिल जाता है। हम जानते हैं कि अहं अकेला नहीं रहता। आचारांग सूत्रा में बतलाया गया है- जहाँ अहं है वहाँ भय की नियमा है। अहंवादी को भय रहता है कि कोई उसकी प्रतिष्ठा छीन न लें। अहं नहीं तो भय तिरोहित हो जाता है। राजा तो अहंकारी होने के साथ जिद्दी भी था। एक बार एक ज्योतिषी पहुँचा। उसने सोचा, अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। नागरिकों को बात मालूम पड़ी तो उन्होंने उसे बताया कि यहाँ राजा उद्दंडी एवं अहंकारी है। वह एक छदम भी नहीं देगा। वह तर्कों का ऐसा जाल बिछायेगा कि उसकी षड्यंत्राकारी योजना से निकलना कठिन होगा। उन्होंने यह सलाह भी दी कि आप दूर से आये हो अतः वहाँ न जाकर किसी दूसरे देश के लिए प्रस्थान कर दो। ज्योतिषी गुरुगम ज्ञान से आत्मा को भावित करने वाला था। उसने विचार किया- मैं शुद्ध अवलम्बन ग्रहण करके आया हूँ। नहीं गया तो मेरी कमजोरी प्रकट होगी। अतः जो प्रसंग बनेगा देखा जायेगा, पर राजा के पास पहुँचना चाहिए। वह दरबार में पहुँचा। राजा ने उसे सम्मानपूर्वक बिठाया। ज्योतिषी ने सोचा लोग कह रहे थे कि राजा अहंकारी है पर यह तो विनम्र है। व्यक्ति के कई रूप भी तो होते हैं। अभी तो ठीक है। ज्योतिषी ने आशीर्वचन कहे। राजा

ने पूछा- क्या भूत-भविष्य की बातें भी जानते हो। उसने उत्तर दिया- कुछ प्रयत्न किया है, गुरुकृपा से कुछ फलित जानता हूँ। भूत-भविष्य का भी कुछ कथन कर सकता हूँ। राजा ने कहा- देखें, आपकी भविष्यवाणी कितनी सत्य होती है, परीक्षा कर लें। उत्तीर्ण हुए तो मुँह मांगा इनाम दूंगा, असफल हुए तो आजीवन करावास मिलेगा। ज्योतिषी ने जो देखा वह बात कह दी घबराया नहीं, क्योंकि जहाँ शुद्ध अवलंबन है वहाँ भय नहीं रहता। यदि अवलम्बन को हटा दे तो प्राप्त शक्ति तिरोहित हो जाती है। फिर भीतर शक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता, वह क्षीण हो जाती है, विकसित नहीं होती। उसने कहा- हुजूर फरमाईये मैं प्रयत्न करूँगा। राजा ने कहा- मैं जिस महल में हूँ, इसके सात दरवाजे हैं। बताईये मैं यहाँ से उठकर किस दरवाजे में जाऊँगा। ज्योतिषी ने तत्काल एक कागज पर कुछ लिखकर उसे जमीन पर रखकर दबा दिया। राजा ने दीवान को आदेश देकर बुलाया और कहा कि इस महल की छत उड़ा दी जाये। वही किया गया। राजा ऊपर से निकला और पुनः द्वार से प्रवेश करके अन्दर बैठ गया। बोला- बताओ, तुमने किस द्वार का लिखा है ? ज्योतिषी ने कहा- राजन ! कागज उठाकर देख लीजिए। कागज उठाया और खोला गया। उसमें लिखा था- आप दरवाजे से नहीं किन्तु छत तोड़कर निकलेंगे। राजा को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे जान गया ? राजा तो नहीं जानता था, पर हम जानते हैं कि उसने शुद्ध अवलम्बन लिया था। तो उससे उसकी प्रज्ञा निर्मल हो गई थी, वहाँ जंजाल पैदा नहीं हुए। जहाँ शुद्ध अवलम्बन नहीं, वहीं जंजाल पनपते हैं। बुद्धि में जंजाल आ गये तो फिर क्षमता नहीं रहेगी। इसलिये यदि व्यक्ति में क्षमता हो क्षमता से विचार करे, नहीं तो आप्त पुरुष के वचनों पर विश्वास कर चले अन्यथा और अधिक जंजाल पैदा होंगे, बंधन से मुक्ति नहीं होगी। 'एस वीरे पसंसिए'- जो बंधन से मुक्त करता है, प्रभु भी उसकी प्रशंसा करते हैं। राजा ने ज्योतिषी के कागज को देखा, उसे उसमें वही संकेत मिले। हमारा मन जब अहं आदि वृत्तियों से घिर जाता है, तब वह अत्याचारी बन जाता है। तब आत्मा सीधा कोई कार्य नहीं करता, कर्म और मन, वचन, काया के माध्यम करता है। यदि मन-वचन-काया रूप योग नहीं तो आत्मा कोई क्रिया नहीं करेगा। 14वें गुणस्थान में कुछ क्रिया नहीं होती। योग होते हैं, तब प्रवृत्ति होती है। मन को जब तक शुद्ध अवलंबन न मिले तब तक वह जिद्दी एवं अहकारी बना रहता है। ज्योतिषी रूप शुद्ध अवलंबन के माध्यम से राजा की वृत्ति में परिमार्जन हुआ। राजा के मन में चिंतन उत्पन्न हुआ- मैंने सोचा था कि ज्योतिषी ने किसी न किसी दरवाजे के बारे में लिखा होगा। अतः मैं छत तुड़ाकर छत के मार्ग से बाहर निकला। मुझे क्या पता था कि ज्योतिषी ने ऐसा ही लिखा है। राजा को उसके ज्ञान पर विश्वास हुआ, वस्तुतः मैं जितनी सोचता हूँ उतनी ही दुनिया नहीं है, ज्योतिषी यथार्थ में जीने वाला है। राजा को बोध मिला। भीतर की ग्रन्थि का विमोचन हो गया। शुद्ध अवलंबन से उसके विचार परिपूर्ण हो गए। अतः यह ध्यान में रखने की बात है कि अवलंबन आवश्यक है, पर आज स्थिति भिन्न है। तब समझें कि यदि आलम्बन लिया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अवलम्बन अवश्य लें। इस स्थिति को शरीर के रूपक से समझें। शरीर के लिए भोजन आवश्यक है। इस प्रकार भोजन भी अवलम्बन है। पर वह कैसा हो, यह जानना भी आवश्यक है। वह भी शुद्ध हो, अशुद्ध का परिहार करें तो सही दिशा में गति होगी। सहारा शुद्ध नहीं होगा तो दिशा शुद्ध नहीं रहेगी। देव, गुरु, धर्म ये अवलंबन हैं। यदि कुगुरु की संगत की तो वह संगत बंधन की दिशा में गति करवायेगी। बंधन का मोचक बनने के लिए सम्यक् प्रकार से सुदेव, सुगुरु, सुधर्म का अवलम्बन लें, उससे आत्मिक जागरण होगा। वह जागरण एक-एक आत्मप्रदेश पर रहे हुए कार्मण वर्गणा को समाप्त करने में सक्षम होगा। भगवान महावीर की सेवा में गौतम स्वामी तत्पर रहते थे। बंधन से मुक्ति का प्रसंग आया तो प्रतिबोध देने भेजा। यदि स्वयं मुक्त करें तो भी वीर प्रशंसा करते हैं। यदि गौतम के निमित्त से मुक्त होगा तो भी प्रशंसा का पात्रा है। कभी पूर्व भव का उपदेश कार्य करता है, कभी वर्तमान का। शुद्ध अवलंबन के बाद भी यदि जंजाल पकड़कर रख लें, मन में झंझागात जोड़ लें तो वह बंधन में बंधता है। सम्यक्त्व के 5 दूषण जंजाल रूप हैं। यदि ये रहें तो उद्धार नहीं होगा। शंका- संशय। कांक्षा- पर दर्शन की आकांक्षा। वहाँ यह बात तो है ही, पर एक दूसरी दृष्टि भी है। शंका के साथ कांक्षा का वृत्त है। एक शंका बनी फिर उस पुद्गलों या अन्य अवस्थाओं से या आकांक्षा से जोड़ा तो यह जंलाल है। यह जंजाल ही भंवर पैदा करता है। भंवर में फँसकर नाव डगमगाती है। इधर पलटें या उधर पलटें यदि खिवैया सही है तो जंजाल को अलग कर सकता है। यह भी समझ लेने की बात है कि पुरुषार्थ करना होगा। उसके लिए भी ज्ञान आवश्यक है। यह ज्ञान जिस आलम्बन से प्राप्त होगा, वह आलम्बन है आगमधर गुरु समकिती, जंजाल को छोड़ें। बीमारी दूर करनी है तो दवाई के साथ परहेज का भी ध्यान रखें। दूध के बर्तन में नींबू की एक बूंद भी रह गई तो दूध फट जायेगा। यही बात तामसी प्रवृत्ति के संबंध में भी सत्य है। तामसिक शक्ति सात्त्विक वृत्ति का हास करती है। क्रोध मात्रा

जीवन के सात्त्विक गुणों का हास करता है। राजा ने जंजाल छोड़े तो दिशाबोध मिला। आत्मा राजा है किन्तु जब ज्ञान रूप ज्योतिषी मिले और उसके साथ श्रद्धा का पुट जुड़े तो ही सफलता मिलती है। श्रद्धा में घुन लगेंगे तो जंजाल बनेंगे या ज्ञान में जग-बुझ जग-बुझ की स्थिति बनेगी। जग-बुझ की स्थिति रही तो भली-भाँति पढ़ा नहीं जा सकेगा। ज्ञान की शक्ति श्रद्धा के पुट के साथ प्रवाहित हो तो ही रुझान बनेगा। ज्योतिषी ज्ञान है, श्रद्धा के अवलंबन से सही दिशाबोध मिले तो राजा रूपी आत्मा तक पहुँच पायेंगे। अतः यह प्रयास होना चाहिये कि शुद्ध आलम्बन के माध्यम से जीवन को दिशाबोध मिले, जिससे आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त हो।

दि. 7.12.96

कर्मसिद्धांत और विज्ञान

चरम तीर्थकर प्रभु महावीर का दिव्य शासन जयवंत है तथा उनकी दिव्य देशना प्रत्येक भव्यात्मा के आत्मउत्थान हेतु पथ-प्रदर्शक के रूप में उपलब्ध है। परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है क्योंकि पथ-प्रदर्शक उपस्थित भी रहे पर हमारी दृष्टि उस दिशा में न पहुँचे तो हम अपेक्षित लाभ नहीं उठा पायेंगे। इस संदर्भ में 'धृणे कम्म सरीग्ग' सूत्रा पर विचार करना उपयुक्त होगा। कर्म-शरीर तक हमारी पहुँच है या नहीं यह देखना भी आवश्यक है। क्योंकि हमारी दृष्टि अधिकांशतया रथूल पर रुक जाती है। सूक्ष्म जगत् में क्या हो रहा है, क्या रचना है, यह हम जान नहीं पाते। व्यक्ति जब दुःखी होता है तब वह विचार करता है- कर्मों का ऐसा ही योग है। जब तक कर्म है, तब तक दुःख भोगना पड़ेगा। यह एकांगी चिंतन है। यह कर्मों का योग कैसे है हम नहीं जानते। न हम सत्य से परिचित हैं, न ही हमारी कर्मसिद्धांत में पैठ है, मोटे रूप से हम ऐसा विचार कर लेते हैं। विचारणीय यह है कि यदि कर्मों का ऐसा ही योग है तो पुरुषार्थ करने की क्या आवश्यकता है? पुरुषार्थ करके क्या पाएंगे? यदि इस रूप में बंध है तो फिर 'अप्पा कत्ता विकत्ता य' अर्थात् आत्मा ही कर्ता है, भोक्ता है। ये भी कहा गया है 'कडाण कम्माण ण मोक्ख अस्थि, कर्मों का भुगतान किये बिना मुक्ति नहीं होगी। इस धरातल पर मानें कि कर्म उदय में आयेंगे ही। मेरे करने से कुछ नहीं होगा, तो व्यक्ति निराश हो जायेगा। उसकी पुरुषार्थ क्षमता मंद हो जायेगी क्योंकि पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही उसे महसूस नहीं होगी। अधिकांशतः ऐसा ही होता है। लोग जब कुछ नहीं कर पाते तो कह देते हैं- कर्मों का उदय है, कर्म ऐसे ही हैं। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? कर्म शरीर क्या है? हालांकि मनोविज्ञान काफी गहराई से इस पर विचार कर रहा है। परन्तु उसके सिद्धांतों में या उसकी कार्यप्रणाली में कुछ भिन्नता हो सकती है। यद्यपि वह भी मन की गुणियों को सुलझाने का प्रयत्न करता है। आत्मा तक वह नहीं पहुँचा है किन्तु उसके उपपात में खड़ा है। जब तक मानसतंत्रा सही नहीं हो तब कब आत्मविज्ञान होना भी कठिन है। मनोविज्ञान बताता है कि मानसतंत्रा की रचना कैसी है और मूल आवेग कैसे हैं और किस आवेग से कौनसे भाव निर्मित होते हैं। मैकडूगल ने, जो एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं, प्राणियों की मूल 14 प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। वे किस कारण निर्मित होती हैं, यह भी उन्होंने बताया है तथा उनके साथ भावों एवं आवेगों का भी सामंजस्य किया है। कर्म शरीर के आवेगों की बात है तो पहले कर्म शरीर को जानना होगा। प्राणी जगत् में पहुँचे तो प्राणी जगत् की विवक्षा/समीक्षा करना कठिन है, क्योंकि सूक्ष्म व स्थावर प्राणियों का समूह अत्यंत विशाल है। उनमें भी बहुतों को हम देख भी नहीं पाते हैं। मनुष्य प्राणी को ही लें और मनुष्य जाति की विवक्षा की ही गणना करें तो वहाँ भी गहराई से सोचना होगा। आज मानव समाज बहुत विशाल हो गया है। अकेले भारत में ही लगभग 100 करोड़ से भी अधिक लोग रहते हैं। विश्व की आबादी तो 5 अरब सुनी गई है। यह तो जो विश्व है उसकी बात है। पर विश्व के जो सैद्धांतिक दृष्टि से क्षेत्रा हैं, जैसे युगलिक क्षेत्रा, महाविदेक क्षेत्रा, भरत, एवं आदि उन्हें हम देख भी नहीं पाते हैं। जितना देख रहे हैं उतने भारत में ही 100 करोड़ लोग हैं। तो क्या ये सारे के सारे मनुष्य एक समान हैं? कोई लम्बा है, कोई गोरा है, कोई बौना है, कोई सुडौल है। पर ये तो ऊपर की आकृति के आधार पर भेद हैं। यदि गहराई से विचार करें तो उनका जो विज्ञान है, उनमें जो संवेदना है, बुद्धि है, उसका माप भी एक समान नहीं है। कोई मंद मति है, तो कोई तीव्र बुद्धि है। यह अंतर कहाँ से आया? हम सीधा-सा उत्तर दे देंगे- कर्मों के संबंध के अनुरूप ही प्रवृत्तियाँ बनती हैं एवं गुण प्राप्त होते हैं। परन्तु मनोविज्ञान और ही दृष्टि से विचार करता है। उसका मानना है कि यह अंतर देखना है और मनुष्य की शोध करनी है तो केवल आकृति या ऊपरी लिवास को आधार बनाकर यह खोज नहीं हो सकती। उसके लिए तीन बातों का चिन्तन आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के निर्माण में इन तीनों का योग होता है। ये तीन बातें हैं- 1. आनुवांशिक संस्कार 2. पर्यावरण 3. व्यक्तिगत संस्कार।

ये बातें सिद्ध भी हैं। किसी को टी.बी. का रोग हुआ तो डॉक्टर पूछता है कि परिवार में माता-पिता, भाई किसी को यह बीमारी थी क्या ? क्योंकि कई बीमारियाँ आनुवांशिक होती हैं। जरूरी नहीं सभी को हो, पर कुछ को हो सकती है। किसी के व्यक्तिगत के उभार-निखार में पर्यावरण की भी भूमिका होती है। हम श्रद्धा से मानते आये हैं कि तीर्थकरों का जन्म क्षत्रिय कुल में होता है, भिक्षुक कुल में नहीं हो सकता। क्या कर्मसिद्धांत को यह चुनौती नहीं है, जो कहता है-

‘अप्पा कत्ता विकत्ता य’- आत्मा जैसे कर्म करता है शुभ या अशुभ अध्यवसायों से और ‘कड़ाण कम्माण ण मोक्ख अथि’। पर भिक्षुक कुल का निषेध क्यों किया ? यदि कई उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी के व्यतीत होने पर किसी तीर्थकर की आत्मा का भिक्षुक कुल में अवतरण हो जाता है तो कहते हैं, उस योनि से निष्कासन नहीं होता। तब इन्द्र हरिगणीमेषी देव के माध्यम से संहरण करवा देता है। इसे ही आज की भाषा में ट्रांसप्लान्ट करना कहते हैं। तब माना जाना चाहिये कि भगवान के जमाने में भी इस प्रकार का ऑपरेशन होता था। आज विद्वान् भिन्न प्रकार की बात करते हैं- विज्ञान की बात नहीं तो विश्वास नहीं। इस प्रकार इसे दैविक शक्ति से जोड़ा जाता है। यथार्थ में यह हुआ है, पर विद्वानों के विचारों के बारे में क्या कहें ? इस संबंध में चिंतन आवश्यक है। विज्ञान और मनोविज्ञान व्यक्तित्व निर्माण में तीन अवयव मानते हैं, परन्तु यदि आनुवांशिक संस्कार ठीक नहीं तो सहसा सुधार नहीं होगा। परिवर्तन में पर्यावरण का भी योगदान रहता है। पर्यावरण अर्थात् जिस स्वभाव में परिवार में रह रहे हैं, यदि वह स्वरूप नहीं तो स्थिति स्पष्ट नहीं रहेगी। जो स्वरूप ध्यान में लेना है, ले नहीं पायेंगे। तीसरा अवयव जो व्यक्तिगत संस्कार के रूप में है उसे कर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, पर किया जा सकता है। वे दो रूप में बनते हैं। पहला तो जो पूर्व के उपार्जित कर्म से होते हैं और हमारे कार्मण शरीर में व्यवस्थित होते हैं, दूसरे अनुभूतियों में होते हैं। इन सारे अवयवों का जोड़ बनाएंगे तब मानव के व्यक्तित्व की विवक्षा होगी। कर्मसिद्धांत और मनोविज्ञान दोनों की अलग-अलग विवक्षा की जा सकती है। शब्दों की दृष्टि से इनमें भिन्नता है, पर दूसरी दृष्टि से विचार करें तो मनोविज्ञान कर्मसिद्धांत का पूरक है। मनोविज्ञान के धरातल से कर्मसिद्धांत को समझने में सुविधा रहेगी। वहाँ ऐसी परिभाषा नहीं है, पर कहा गया है कि कर्म भोग में द्रव्य, क्षेत्रा, काल, भाव और भव का योग नहीं तो उदय भाव नहीं बनेगा। उदाहरण के लिए तीर्थकर नामकर्म निश्चित रूप से मनुष्य गति में ही उदय में आता है। मनुष्य भव नहीं तो उदय भाव नहीं बनेगा। ऐसा ही अन्य कर्मों के विषय में भी है।

उक्त विषय को मनोविज्ञान की दृष्टि से तुलना करके देखेंगे तो हम सत्य के नजदीक पहुँचेंगे। तीन अवयवों में यह पर्यावरण भी है जो उस समाज का होता है, जिस समाज में हम रहते हैं। उसके संस्कार भी असर डालते हैं यह बात विज्ञान सम्मत भी है। प्रभु महावीर ने लोक में चार उत्तम पुरुषों की बात कही है ‘चत्तारि लोगुत्तमा’। इनकी आवश्यकता क्यों है, इनकी बातें क्यों हैं, इस पर हम चिंतन नहीं करते। हम ‘शरणं पवज्जामि’ की बात करते हैं। मंगल और लोकोत्तम पर हमारी दृष्टि कम जाती है। ‘लोगुत्तमा’ का मंगल व शरण के साथ में संबंध है। अब तक श्रद्धा से मानते आये हैं तो हमने श्रद्धा कर ली, पर विज्ञान मानता है हम पर निकट का कितना प्रभाव पड़ता है। हम अनुभूति नहीं कर पाते, पर नजदीक आने वाला प्रभाव छोड़ जाता है। हम अभिभूत होते हैं। इसे यों समझें- कोई व्यक्ति निरन्तर पागलखाने में बना रहे फिर भी स्वयं को स्वरूप रख पाये, कठिन है। कुछ दिनों में उसकी हरकतें भी पागलों जैसी हो जाती हैं। लोगुत्तमा का सम्बन्ध पर्यावरण के साथ है। वह उत्तमता हमारे भीतर प्रविष्ट हो, भावनाओं का निरन्तर सम्प्रेषण होता रहे तो वह उत्तमता हमारे भीतर भी आ जावेगी। इसलिए चार लोगुत्तमा की शरण में जाने से पुरुष उत्तम बनता है। यह न सोचें कि जो कायर है वह शरण में जाता है। क्योंकि शरण में जाना कायरता नहीं है। शरण वही लेगा जिसमें तेज, ओज है। कभी सोचते हैं लड़ नहीं पाया तो शरण में चला गया, पर ऐसा नहीं है। शरण है पर वह है आत्मा में अरिहंत की शरण। उसे कैसे प्राप्त करें ? जब तक समर्पणा पूर्ण नहीं होगी, शरण में पहुँच नहीं पायेंगे। कबीरदासजी ने कहा है- ‘सीस दिये बिन भक्ति नाहीं।’ ऊपर के नाच-गान डाइड्या खेल हैं। नृत्य तो बहुरूपिये भाण्ड भी करते हैं, पर उससे परमात्मा की भक्ति नहीं बन जाती। कवि आनन्दघनजी कह रहे हैं- शांति के स्रोत के लिए वैसा ही अवलम्बन ग्रहण करें। शरण का अवलम्बन लेना है तो पहले स्वयं को उत्तम बनाना होगा। क्योंकि शुद्ध अवलम्बन लेकर ही ‘धुणे कर्म शरीरगं’ अर्थात् कर्म शरीर को धुन पाएंगे, नहीं तो धुन नहीं पाएंगे। जहाँ व्यक्ति झूठे प्रदर्शन-प्रतिष्ठा में पड़ जाता है, वहाँ कुरीतियाँ पनपती हैं।

इस संदर्भ में सोनाली का उदाहरण मार्गदर्शन कर सकता है। सोनाली नवविवाहिता थी, माता-पिता का घर छोड़ पतिगृह में पहुँची थी। उसके जीवन में आनुवांशिक, पर्यावरण एवं व्यक्तिगत तीनों संस्कार मौजूद थे। पतिगृह का

पर्यारण देखा तो चिन्ता में पड़ गई। पहले एक-दो दिन देखा, स्वयं को तोला कि यहाँ में व्यवस्थित कैसे हो सकती हूँ? वहाँ की व्यवस्था देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ मानवीय व्यवहार का अभाव था। देखा, 91 वर्ष की दादी सास को घर के झूठे बर्तन साफ करने पड़ते थे। खाने में बचा-खुचा दे दिया जाता था। सोनाली ने कहा- आप उठिये, मैं स्वयं साफ कर लूँगी। दादी ने कहा- बेटी तू रहने दे। अपनी सासूजी का स्वभाव तुम नहीं जानती हो, मुझे मेरा काम करने दो, पर वह नहीं मानी। सासूजी ने देखा, मेरी व्यवस्था में किसने हस्तक्षेप किया? सोनाली ने पति से भी कहा तो पति ने कह दिया- चुप रहो। वह माता की बात सुन पीपल के पत्ते की तरह प्रकटित होने लगा। मैं कैसे सुधार करूँ? तब सोनाली ने सोचा- मुझे ही कुछ करना होगा। मेरे जो संस्कार हैं, जो आदर्श हैं और जो भावनाएँ हैं, उनके अनुसार ही कार्य करूँ। परिवार का कुशलक्षेम भी उसकी चिन्ता थी। इसलिये उसने परिवार के टुकड़े करने का विचार नहीं किया। ऐसा करने से वह सुखी हो जाती, पर परिवार के ढांचे का सुधार नहीं होता। उसने सोचा- मुझे अपनी तरकीब से कार्य करना है। सोचने से उपाय सूझा। उसने निश्चय किया कि तामसिक वृत्ति का परिहार करना होगा, जिससे पर्यावरण में सुधार हो तथा सात्त्विक वृत्ति को प्रेरित करना होगा, जो परिवर्तन में सहयोगी होगी। उपाय के अनुसार वह अपने कार्य में जुट पड़ी। हम जानते हैं कि रूपान्तरण होता है पर उसके लिये तौर-तरीका भी उपयुक्त होना चाहिए। उसने झूठे बर्तन कमरे में इकट्ठे किये। सासूजी ने पूछा- ये किसने किया। नौकरों को डांटा, पर सोनाली ने बात स्पष्ट कर दी- ये मिट्टी के सकोरे मैंने इकट्ठे किये हैं। आज तो आप दैं इनकी जरूरत पड़ेगी। कहाँ से लाऊंगी, घर की परम्परा का तो निर्वाह करना होगा। सासूजी की आँखे खुली। समझ गई। दादी-सासूजी का जीवन परिवर्तित हुआ। अब तो उन्हें गद्दों में बिठाया जाने लगा। गर्म-गर्म हलवे का भोजन मिलने लगा। मेकडूगल कहता है- व्यक्ति में कई वृत्तियाँ पनपती हैं। पलायन वृत्ति भय के कारण बनती है। कौतूहल है तो जिज्ञासा वृत्ति पनपती है। यदि इस विषय पर कर्मसिद्धांत की दृष्टि से विचार करें तो ये सब मोह कर्म के विकार हैं। हास्य का उदय है तो हँसी आयेगी। स्वामित्व भाव है तो लोभ का उदय, कामुकता में वेग का उदय, भय मोहनीय में भय का प्रसंग, क्रोध मोहनीय से क्रोध का उदय होगा। कर्म और शरीर का जो संबंध है उसे विज्ञान आज जीन्स की वैज्ञानिक पद्धति के रूप में स्वीकार करता है। वह मानता है कि जीन्स में संस्कार अंकित होते हैं। यद्यपि विज्ञान भी कार्मण शरीर को पकड़ नहीं पाया है, पर वह भी मानता है कि वहाँ भी संकेत होते हैं। व्यक्तिगत संस्कार के आधार पर व्यक्तित्व निखरता है। मनोविज्ञान जहाँ तक पहुँचा है, विज्ञान ने जो शोध की है, वह सब कर्मसिद्धांत तक पहुँच रही है। यदि कर्मसिद्धांत का इसके साथ योग कर लें तो शीघ्र आगे पहुँच सकते हैं। हम भारतवासी इस दृष्टि से लाभप्रद स्थिति में हैं क्योंकि हमें तो वह बपौती के रूप में मिला है, किन्तु हम इसका समुचित लाभ नहीं उठा पाये हैं। मोटे तौर पर हम कर्म का उदय मान लेते हैं। इसके साथ ही कर्मसिद्धांत की बारीकी भी समझें, कर्म शरीर को जानें, तभी उसके धुनने का उपक्रम बन पायेगा।

दि. 8.12.96

कर्मबंध से मुक्ति का उपाय

सिद्ध परमात्मा की स्तुति भव्यत्व-भाव के साथ भव्यत्व के चरम विकास के आदर्श को सन्मुख रखकर ही की जाती है ताकि भव्यात्मा सिद्ध के स्वरूप एवं स्वभाव को प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील बने। यह भी आवश्यक है क्योंकि हम जैसा बनना चाहते हैं, वैसा आदर्श अपने सन्मुख रखने से साहस और सहारा दोनों मिल जाते हैं। हम जानते हैं कि जब लता को सहारा मिल जाता है, तब ही वह ऊपर उठ पाती है अन्यथा जमीन पर ही पसरी रह जाती है। यह भी सत्य है कि सहारा जितना मिलता है उतना ही विकास होता है। लम्बे बांस का आधार मिलता है उतना ही विकास होता है। यदि लम्बे बांस का मिलता है तो लता भी बांस भर ऊपर चढ़ जाती है। प्रत्येक व्यक्ति सहारा चाहता है। तत्त्वार्थ सूत्रा (5/29) में भी कहा है- 'परस्परोपग्रहे जीवानाम्'। जीव सहयोगी बनता है। पर वह सहयोग कैसा हो, सहयोगी की ऊँचाई कैसी हो, यह भी समझने की बात है। साधना के क्षेत्र में सर्वोच्च अवस्था है- सिद्ध भगवान की। सिद्धों का आदर्श स्वरूप सामने रखकर हम स्तुति में कहते हैं- 'आइच्छेसु अहियं पयासयरा' अर्थात् सूर्य से भी अधिक प्रकाशमय। ये लक्ष्य जीवन में गहरे उत्तर जाये तब ही स्वयं की क्षमताओं का माप संभव होता है। हम स्तुति करते हैं किन्तु यदि वह हृदय को स्पर्श न करे, होंठ और तालू तक ही रह जाये, भीतर गहरे तक नहीं उतारें तो उसका लाभ नहीं मिल सकता। जैसे विवाह-शादी के प्रसंग में यदि कोई सम्पन्न व्यक्ति स्वर्ण-चांदी के थाल में भोजन परोसे तो उस थाल में भोजन कर लेने मात्रा वे

वह चांदी का थाल आपका नहीं हो सकता। बैंक का कैशियर दिनभर नोट गिनता है, पर यदि स्वयं उसकी जेब टटोलें तो हो सकता है वह खाली हो। स्तुति से यदि अन्तर नहीं भीगा तो वह सही रूप में स्वयं के लिए कारगर नहीं होगी। मस्तिष्क चैतन्य केन्द्रों का अवस्थान है। उस चैतन्य केन्द्रों को जागृत कर दिया, किन्तु उसके साथ हृदय का तालमेल नहीं जुड़ा तो यह जागरण फलदायी नहीं होगा। इस जागरण का हृदय के साथ तालमेल बैठा पाना सरल भी नहीं है। क्योंकि हृदय बहुत गहरा है, गंभीर है। हृदय के बाहर संगीन पहरा है, मजबूत हड्डियों का पहरा है। सहसा उसके भीतर प्रविष्ट नहीं करवाया जा सकता। यदि उसमें प्रवेश करना है तो माध्यम ढूँआज की स्थिति पर इस संदर्भ में विचार करें। आज धर्म साधना तो होती है, पर जीवन का रूपान्तरण नहीं हो पाता। युवावर्ग भ्रमित हो रहा है। वह विचार करता है कि धर्म क्या है। क्या धर्म दोहरा जीवन जीना सिखाता है? नहीं, यही भ्रमित होने की स्थिति है, क्योंकि धर्म हमें दोहरापन नहीं सिखाता। धर्म दोहरेपन की शिक्षा भी नहीं देता। वह तो जीवन के अणु-अणु में प्राण फूंकने वाला तत्त्व है। अतः धर्म जीवन में खून के रूप में रहे यह आवश्यक है। धर्म आत्मा का स्वभाव है। यदि आत्मा की परिणति स्वभाव के अनुरूप बन जाये तो हृदय से स्वतः ही सिद्ध भगवान की स्तुति मुखरित होगी। धर्म जीवन में इस प्रकार एकमेक हो जाये कि हम कह पायें- “तुझमें मुझमें भेद न पाऊँ, ऐसा हो संधान।”

सबसे दुःखद स्थिति यह है कि आत्मा बहुत समय से कर्मों से आवृत्त है, परन्तु अपना अपराध स्वीकार नहीं करता। इसके विपरीत दूसरों पर (कर्म पर) दोष डालता है। व्यक्ति स्वयं को नहीं देखता, कर्मों पर दोषारोपण करता है। कर्म तो बेचारे निर्जीव हैं परन्तु वह कहता है- “मैं कर्मों के कारण ही संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ।” कर्म तो इस क्षेत्र में सदा से रहे हैं। यहीं तीर्थकरों ने जन्म लिया, कैवल्य ज्योति प्राप्त की, फिर यहीं विचरण किया किन्तु उनके कर्मबंध नहीं हुआ। सिद्ध क्षेत्र में भी कार्मण वर्गणा रही हुई है, पर वह सिद्धों के नजदीक भी नहीं जाती। जहाँ सिद्धों के आत्मप्रदेश है वहाँ कार्मण वर्गणा भी उत्साहस भरी है, पर वे फिर भी निर्लेप रहते हैं। आप कहेंगे- काजल की कोठरी में, काजल की लीक न लगे- यह असंभव है। परन्तु यह असंभव नहीं है यदि हमारा संतुलन बराबर रहे तो दाग नहीं लगेगा। हम जातने हैं कि तलवारों की “धारों पर नृत्य करने वाले होते हैं, आग पर चलने वाले भी होते हैं। उनके कार्य भले ही कलाएँ हों परन्तु वे दीर्घ साधना और संतुलन प्राप्ति का ही परिणाम होते हैं। यों तो तीर्थकर भगवान के भी ईर्यापथिक क्रिया से साता वेदनीय का बंध होता है। पहले समय में बंध, दूसरे समय में वेदन और तीसरे समय में वे क्षय हो जाते हैं। पर हम हैं कि कर्मों को दोष देते हैं यद्यपि वे निर्जीव हैं। हमने ही उन्हें ग्रहण किया, हम ही उनके प्रति अनुरक्त हुए, तब ही वे हम में प्रविष्ट हुए, हम से जुड़े।

इस संदर्भ में रामायण के प्रसंग पर ध्यान दें। रावण जनकनंदिनी सीता को उठाकर ले गया। उन्हें अशोक वाटिका में रखा। पर इतने सब के बाद भी वह सीता को विचलित नहीं कर पाया। रात्रि में उसे नींद नहीं आती। वह सीता का स्मरण करता, सीता के पास जाता। पर वह इन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं कर पाता। क्यों महासती सीता उसके प्रति अनुरक्त नहीं होती। रावण का यह प्रण कि जब तक कोई समर्पित न हो जाये तब तक वह मनमानी नहीं करेगा, उसे अनुशासित किये रहा। इस प्रकार सीता अनुरक्त नहीं हुई तो रावण भी पाप से बचा रहा। हम भी कर्मों के अनुरागी बनते हैं, कर्मों को आमंत्रित करते हैं और इस प्रकार स्वयं ही दुःख को आमंत्राण देते हैं। जरा सोचें कि उन्हें बुलाता कौन है? कर्म आयातित हैं। हमने ही इन्हें मांगा है। आप कहेंगे- हमने कभी नहीं जाना कि इन्हें हमने स्वयं ही बुलाया हो, पर ऐसा है। जो हमारी योग प्रवृत्ति है। जो विन्तन है, वह खुले रूप में इनका आहवान करता है। प्रश्न होगा कैसे? प्रभु महावीर ने कहा- अणेगचितो खलु अयं पुरिसे। यदि शांति चाहते हो तो मन की परीक्षा करो कि वह शांति चाहता है या नहीं? मन की स्थिति क्या है इसे भी समझें। मन पौदण्डिक है, हम उस पर अंकन करते हैं। मन की परतों पर हम निरन्तर कुछ न कुछ लिखते रहते हैं। इतना लिखते हैं कि धिस-धिस कर कागज फट जाता है। लिखा, फिर रबर से मिटाया, फिर लिखा-फिर मिटाया। इस प्रकार लिखते-मिटाते-लिखते-मिटाते वह जीर्ण अवस्था प्राप्त कर लेता है। मन की ऐसी जीर्ण अवस्था के साथ सद्गुणों का समन्वय नहीं हो सकता। “अट्टे लोए परिजुणे” निरन्तर आर्त से वह जीर्ण-शीर्ण हो जाता है। मन की बही में हम निरन्तर अंकन तो करते रहे हैं, पर कभी खोलकर नहीं देखा कि खर्च कितना किया और कमाया कितना। व्यक्ति सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कितना करता है, यह भी ध्यान में भी रखना आवश्यक है। दूसरों पर दृष्टि रही तो खर्च-खाता बढ़ता रहेगा, भुगतान कौन करेगा? अतः हम बैलेन्स बराबर रखें। कुम्हार गधे पर मिट्टी के घड़े लादता है। यदि एक ओर लाद दे और दूसरी ओर खाली रखे तो घड़े बाजार तक पहुँच नहीं पायेंगे। गधा लड़खड़ाकर गिर पड़ेगा।

अतः वह दोनों ओर भार बराबर रखता है। यदि रेलगाड़ी पटरी पर चल रही है तो कोई खतरा नहीं, परन्तु यदि संतुलन बिगड़ा तो दुर्घटना होगी। पहले मस्तिष्क का सन्तुलन बिगड़ता है फिर बाहर का संतुलन बिगड़ता है। आध्यात्मिक दृष्टि से कर्मों का आगमन तभी होता है जब हम अपना बैलेन्स बिगड़ा लेते हैं। इन्द्रियों के विषय अलग है, पर जब हम उनका बैलेन्स बिगड़ा लेते हैं तथा विषयों के प्रति शुभाशुभ कल्पना करते हैं तब कर्मों का आगमन होता है। द्वार खुले कि कर्मों का प्रवेश हुआ। पहले कम निर्जीव थे, पर आत्मा से मिलकर वे बलवान बन जाते हैं। यह उसी प्रकार की स्थिति होती है जैसी किसी को किराये पर घर दे देने पर हो सकती है कि धीरे-धीरे वह ही मालिक बन जाये। इस प्रकार आत्मा कमजोर हो जाती है तथा उसमें कर्मों को खदेड़ने की जो क्षमता होती है उसे भी वह भूल जाती है। उसी क्षमता को अर्जित करने हेतु सिद्धों का आदर्श हम अपने सम्मुख रखें। जब उनका तेज हमारे भीतर प्रविष्ट होगा, तब हम कर्मों को खदेड़ने में सक्षम बनेंगे। यदि हमें भीतरी शक्ति को जागृत करना है तो सिद्धों के देव-गुरु-धर्म के आदर्श सामने रखें, शक्ति का प्रस्फुटन अवश्य होगा- ‘स समियाए, पर वागरणेण, स्वयं से भी, परोपदेश से भी। एक समय आयेगा, जब ज्ञानशक्ति की किरण हमारे भीतर प्रविष्ट होगी। जुगनू चमका तो आशा बंधी, पर देखना यह होगा कि उससे मति निर्मल बनी अथवा नहीं। सन्मति सम्बल देती है, पर ‘वागरणेण’ अर्थात् आप्त वाणी पर विश्वास होना चाहिये। मन में उस शक्ति का संचरण हुआ तो कर्म जल्दी निर्जरित होंगे।

बतलाया जाता है- आत्मा ग्रंथि देश तक पहुँच जाती है, तब बहुत से कर्म अलग हो जाते हैं। आगे कोई प्रयास करता है तो कर्म की स्थिति को अन्तः कोटाकोटि कर लेता है। यह है शक्ति का जागरण। ऐसा हो जाने पर कर्मों को हटाने में देर नहीं लगेगी। अज्ञानी आत्मा जिन्हें अनेक भवों में भी नहीं कर पाता, उन्हें सम्यक्दृष्टि एक श्वासोच्छवास में ही खपा देता है। उस शक्ति को जगाने के लिए ही स्तुति है। स्तुति की झंकार अणु-अणु से झंकृत हो तो शत्रु टिक नहीं पायेंगे। फिर ये वैकारिक भाव तत्काल निस्तेज होकर निकल जायेंगे। हमें जिनशासन मिला है। यदि यह अवसर हाथ से निकल गया तो फिर प्राप्त नहीं होगा। महावीर की देशना मिली है, ऐसी दुर्लभ निधि पाकर भी अपनी शक्ति को नहीं जगाया, आलस्य और प्रमाद में पड़े रहे तो यह भव भी व्यर्थ चला जायेगा और हाथ मलते रह जायेंगे। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को बुढ़ापे और मृत्यु का भय रहता है यदि सिद्धों का आश्रय ले लें तो बुढ़ापा नहीं आयेगा। तीर्थकर कभी वृद्ध नहीं होते क्योंकि उनका बैलेन्स बराबर रहता है।